



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 12, 2003 (आषाढ़ 21, 1925)

No. 28]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 12, 2003 (ASADHA 21, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[संविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक  
केन्द्रीय कार्यालय  
शहरी बैंक विभाग

मुंबई-400 018, दिनांक 18 जून 2003

संदर्भ सं.श.बै.वि.कें.का. बीपी. 794/16.43.  
06/2002-2003--बैंककारी विनियमन अधिनियम,  
1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए की उपध  
ारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा  
यह अधिसूचित करता है कि लुनावडा एण्ड खानपूर  
तालुका प्राथमिक स्कूल टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट  
सोसाइटी लि., लुनावडा, जिला पंचमहल, गुजरात राज्य,  
उपर्युक्त अधिनियम की परिभाषा के अंतर्गत सहकारी  
बैंक नहीं रह गयी है।

एस. करुणसामी  
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  
केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई-400 021, दिनांक 18 जून 2003

सं. ओएसआर/19--बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का  
अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का  
5) की धारा 12 की उपधारा 2 के साथ पठित धारा  
19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूनियन  
बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मण्डल, भारतीय रिजर्व  
बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्र सरकार की पूर्ण मंजूरी  
से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी सेवा  
विनियमन-1979 में संशोधन करके एतद्वारा  
निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) ये विनियम यूनियन बैंक इंडिया अधिकारी  
सेवा (संशोधन) विनियमन 2003  
कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी सेवा विनियमन-1979 में विनियम 38 में दूसरे परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा :

“बशर्ते यह भी कि यदि कोई अधिकारी विनियम 20 के उप-विनियम 2 के अंतर्गत उचित नोटिस देने के बाद 1 अप्रैल, 2001 को या उसके उपरान्त त्यागपत्र देकर अपनी नौकरी छोड़ता है या समाप्त करता है तो उसे नौकरी छोड़ने की तारीख पर उसके खाते में जमा अर्जित अवकाशों के आधे अवकाशों, अधिकतम 120 दिनों के अध्यधीन, के बराबर रकम, का भुगतान किया जायेगा।”

के. एल. गोपालकृष्ण  
महा प्रबंधक (मासंप्र)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 2003

सं. एन-15/13/16/3/98-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2003 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हरियाणा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

“जिला गुड़गांव के राजस्व ग्राम-सरहौल, हदबस्त संख्या-70 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र” ।

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 23 जून 2003

सं. एन-15/13/8/1/2003-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2003 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

“देवास जिले का लोहार पिपलिया ग्राम” ।

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 2003

सं. यू-16/53//2002-चि. 2 (गुजरात)--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ. आई. के. परमार अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर 1.8.2003 से 31.7.2004 तक की अवधि के लिए उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन), अहमदाबाद द्वारा निर्धारित जमालपुर केन्द्र, गुजरात के क्षेत्रों के लिए बीमांकित व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

डा. (श्रीमती) सुभाष सिंह  
चिकित्सा आयुक्त

**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  
मुख्यालय-भविष्य निधि भवन,  
14, भीकाएजी कामा प्लेस,  
नई दिल्ली-110066**

नई दिल्ली-110066, दिनांक 24 जून 2003

सं. सम्मेलन-5(23)/2002/पांडिचेरी-- 22739


संख्या..... कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 जिसे यहां 'योजना' कहा गया है, के पैरा 4 के उपपैरा (1) तथा इसके साथ पठित पैरा 5 के अनुसरण में, अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि एतद्वारा संघ शासित प्रदेश, पांडिचेरी के लिए क्षेत्रीय समिति गठित करते हैं, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :-

क्र.सं.	नाम व पदनाम	अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा नियुक्त
1.	सचिव, पांडिचेरी सरकार, श्रम विभाग, मुख्य सचिवालय भवन, पांडिचेरी	अध्यक्ष (पैरा 4(1) (क) के अंतर्गत)
2.	श्रम आयुक्त श्रम विभाग परिसर, वजुदावुर रोड, गांधी नगर, पांडिचेरी-605009	सरकारी सदस्य (पैरा 4(1) (ख) के अंतर्गत)
3.	उप सचिव (वित्त) ए-ब्लॉक, द्वितीय तल, मुख्य सचिवालय, पांडिचेरी	
4.	थिरु जार्ज कुट्टी अब्राहम, अध्यक्ष, पांडिचेरी उद्योग एसोसिएशन, नं06, II मेन रोड, इलांगो नगर, पांडिचेरी-11	नियोक्ता के प्रतिनिधि (पैरा 4(1) (ग) के अंतर्गत)
5.	थिरु पी राधाकृष्णन्, सचिव, पांडिचेरी दवाई निर्माता एसोसिएशन, नं0 58, III क्रॉस स्ट्रीट, जवाहर नगर, बुमियानपेट, पांडिचेरी-5	
6.	थिरु आर बालारमण, सचिव, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 237, कुडालोर रोड, मुदालिआरपेट, पांडिचेरी-4	कर्मचारियों के प्रतिनिधि (पैरा 4(1) (घ) के अंतर्गत)
7.	थिरु वी एस अभिशेगम, महासचिव, पांडिचेरी राज्य ट्रेड यूनियन काउंसिल 49, रोडियर मिल स्ट्रीट, मुदालिआरपेट, पांडिचेरी-4	

उपक्षेत्रीय कार्यालय, पांडिचेरी का प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय समिति का सचिव होगा ।

क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में अधिसूचित उनकी नियुक्ति की तिथि से लेकर तीन वर्ष तक का होगा । तथापि, प्रत्येक सदस्य तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसके उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने का सरकारी राजपत्र में अधिसूचित नहीं कर दिया जाता ।

इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है ।

  
(अजय सिंह)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

**भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड  
19 वीं मध्य मार्ग चण्डीगढ़ ।**

सं. 21984 बीबीएमबी/एएलओ/523(2)--


चण्डीगढ़, दिनांक 20 जून 2003

सं० भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन, से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 79 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड की अधिसूचना सं० 20500/बीबीएमबी/एएलओ/523 (2) तारीख 17 सितम्बर, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में क्र० सं० 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित संख्यांक और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	अधिकारिता
28	मुख्य इंजीनियर ब्यास बांध	ब्यास बांध प्रशासन से संबंधित मामले
29	उप मुख्य इंजीनियर / अधीक्षण इंजीनियर पौंग बांध सर्किल	पौंग बांध सर्किल प्रशासन से संबंधित मामले
30	उप मुख्य इंजीनियर / अधीक्षण इंजीनियर तलवाड़ा सर्किल	तलवाड़ा सर्किल प्रशासन से संबंधित मामले
31	उप मुख्य / अधीक्षण इंजीनियर पौंग पावर हाउस सर्किल तलवाड़ा	पौंग पावर हाउस सर्किल तलवाड़ा प्रशासन से संबंधित मामले
32	उप मुख्य इंजीनियर / अधीक्षण इंजीनियर देहर पावर हाउस सर्किल सलापड़	देहर पावर हाउस सर्किल सलापड़ प्रशासन से संबंधित मामले ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।



(अनिल अरोड़ा)

सचिव

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, चण्डीगढ़

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया  
16/77 बी, सिविल लाइन्स

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

कानपुर-208001, दिनांक 10 जून 2003

नं० 3 सीओसीओ (8) (3)/2002 - 2003 रेगुलेशन 10 (1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के अधिनियम के 10 (2) (b) के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को कार्य करने का प्रमाण पत्र 01 अक्टूबर, 2002 से रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कार्य प्रमाण पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
1.	008861	मि० नन्द किशोर 443, हरमुखपुरी, मोदी नगर, (एओपीओ) गाजियाबाद- 201201	8.	055872	मि० वेद विनोद कुमार एबी 64 धाणक्य मार्ग, निर्माण नगर, निकट रूपा नर्सिंग होम आन जयपुर अजमेर रोड, जयपुर - 302020
2.	010838	मि० जैन पारस मल मेहता चैम्बर, 34 सियागंज, इन्दौर - 452007	9.	056005	मि० मन्मथना ओम प्रकाश 131/5 एमओपीओ नगर, जोन 2, भोपाल - 462011
3.	011704	मि० मजूमदार कल्याण मार्फत मेसर्स यू नारायण एण्ड कं० ट्रिनिटी कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, नं० 6 एच बी. रोड, रॉन्धी - 834001	10.	057343	मि० कोठारी शशिकान्त फ्लैट नं० 516 केनरा बैंक अपार्टमेंट्स, ई-4 सेक्टर 28, नोएडा - 201301
4.	045682	मि० मेहता चेतन कुमार पुत्र श्री हनुमान सिंह मेहता, बी-96 प्रेम नगर, ज्वार माइन्स, उदयपुर - 313901	11.	058659	मिस लाहा घोष देबजानी 4 बारा सुपरवाइजरी फ्लैट पीओओ एग्रीको सिन्धगोरा जि० झारखण्ड, जमशेदपुर - 831009
5.	051985	मि० पोद्दार गोविन्द राम #80-41 मैरीलैण्ड प्लाइन्ट, 35 अम्बर गारडेन्स, सिंगापुर - 0	12.	070194	मि० झाला अनिल जीत जे/46 कृष्णा मार्ग, सी स्क्रीम, जयपुर - 302001
6.	053506	मि० डा अरविन्द कुमार डिप्टी फाइनेन्स मैनेजर, क्वार्टर सी2-27, सेक्टर-एक्स, कोयला नगर, धनबाद - 828005	13.	070628	मि० जैन महेन्द्र कुमार 202 रॉयल हाउस, 9/1 साउथ टूकोगंज, इन्दौर - 452001
7.	055541	मि० जालान सन्दीप कुमार सी के. 13/41, सुखलाल साठ गेट, चौक, वाराणसी-221001	14.	070852	मि० भार्गव राजीव कुमार एस-51, अरविन्द मार्ग, सी-स्क्रीम, जयपुर - 302001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
15.	071076	मि० जोशी अजय कुमार चीफ मैनेजर (वर्कर्स एकाउण्टेन्ट्स), जे०के० इण्डस्ट्रीज लि० जे के ग्राम, राजसामण्ड, कंकरीली - 313342	24.	074770	मि० अग्रवाल मोहित 632 दीपू पैलेरा, दि माला, कानपुर - 208001
16.	071447	मि० टण्डन मुकेश चन्द्रा सी-20, के रोड, महानगर इक्सटेन्सन लखनऊ - 226006	25.	074876	मि० गुप्ता अनिल कुमार देवयानी फूड्स लि० 12 किमी० डिस्टेन्स स्टोन, आगरा दिल्ली हाइवे आगरा - 282001
17.	072132	मि० राजपुरवाला महेश कुमार महेशम महावीर कालोनी, अजमेर रोड, किशनगढ़ - 305801	26.	074878	मि० गुप्ता स्नेहानाथू होरिजन पल्प एण्ड पेपर, 10 अग्निजा रोड, कोहरा - 74305, इस्टोनिया
18.	072225	मि० जैन अशोक कुमार ए-84, विधिया नगर, जगतपुरा, जयपुर - 302017	27.	075289	मि० फरसैया अखिल 33/6, सहजे पैलेरा, आगरा - 282002
19.	072437	मि० अनिल कुमार ए-8, महेश मार्ग, निकट पुलिस स्टेशन मोदीनगर - 201204	28.	075406	मि० पहलाद गिरिराज डी-30 देश नगर, टोन्क रोड, ग्लास फैक्ट्री के सामने जयपुर - 302018
20.	072490	मि० भण्डारी सुशील कुमार 12/18, मालवीय नगर, जयपुर - 302017	29.	076327	मि० अग्रवाल मनोज कुमार 26, आर्यनगर, स्कीम नं० 1, अलवर - 301001
21.	073080	मि० बंसल आलोक 7/108-ए स्वरूप नगर, कानपुर - 208002	30.	076866	मि० जैन संजय कुमार बी-34 शक्ती नगर, टोन्क रोड, जयपुर - 302018
22.	073346	मि० मुखरू अरुण कुमार एन-2 महावीर नगर, टोन्क रोड, जयपुर - 302018	31.	077038	मि० जैन राज कुमार जी-4-25, नन्द निकेतन एस्सार टाउनशिप, 27 किमी० हजीरा सूरत रोड, गुजरात, हजीरा - 394270
23.	074109	मि० केडिया राजेश कुमार पुत्र श्री बी०एल० केडिया, सेन्चुरी सीमेन्ट, पी०ओ० बैकुण्ठ, रायपुर - 493116	32.	077167	मि० तनेजा समीर एफ एण्ड ए डिपार्टमेन्ट, टेहरी हैड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० गंग्र भवन बाईपास रोड, उत्तरांचल, ऋषीकोश - 249201

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
33	078092	मि० कासलीबाला वीरेन्द्र कुमार बी-15 ग्नेविन्द देव कालोनी, गंगौरी बाजार, जयपुर - 302001	42	079686	मि० मेहता संजय ए-462, ग्राउण्ड तल, भगवती अपार्टमेंट-2, विद्रुत नगर, अजमेर रोड, जयपुर - 302017
34	078328	मि० बजाज रंगनाथ 18 बीकानेरिया बास, पाली मारवाड - 306401	43	079706	मि० बेताला अरविन्द 11 उषागंज, छववानी, इन्दौर - 452001
35	078632	मिस मुहनोट डोनी पुत्री श्री डी एम मुहनोट पी एन 387 लक्ष्मी नगर, पोयटा बी रोड, जोधपुर - 342010	44	079754	मिस गुप्ता गौरी 64 सकुलर रोड, रौंची - 834001
36	078817	मि० अग्रवाल नितिन 204, गनपति टावर, 1, सेन्ट्रल स्पाइन, विधयाधर नगर, जयपुर - 302012	45	079927	मि० गांधी सचिन कुमार 175 विष्णुपुरी एनेक्स, ए बी रोड, इन्दौर - 452017
37	078901	मि० चोपरा श्रनिक 101, क-42 लक्ष्मी विहार अपार्टमेंट्स, हाथी बाबू मार्ग, बनी पार्क, जयपुर - 302001	46	082171	मि० वादेन्द्र सुनील ए-633 सेक्टर 19, नोएडा - 201301
38	078940	मि० गुप्ता प्रमोद कुमार मार्फत राम विशाल गुप्ता, 333 गोपाल गंज, मुनि मंदिर के पीछे, उरई, जालौर, उरई - 285001	47	089932	मि० गुप्ता रवी शंकर मेसर्स डोमिनोस पिज्जा इण्डिया लि० प्लॉट नं० 1 ए सेक्टर 16 ए, इन्स्टीट्यूशनल एरियास, नोएडा - 201301
39	079059	मि० जोशी मित्रसेन ए-578 सेक्टर 19, नोएडा - 201301	48	092916	मि० गुप्ता राजीव कुमार 377 विनोभा बस्ती, श्रीगंगानगर - 335001
40	079296	मि० अग्रवाल केशव दि बैंक आफ राजस्थान लि० एफ एण्ड ए डिपार्टमेंट, सी-3, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 334001	49	094649	मि० साहू अक्षय कुमार एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर ग्राम मनदयानी पंचनाल, हिरी माइन्स, छत्तीसगढ़, बिलासपुर - 495222
41	079380	मि० विशनोई विभोर वाई-292-ए, सेक्टर-12, नोएडा - 201301	50	095791	मि० अग्रवाल आशीष ए-19, सेक्टर 27 (यू०पी०) नोएडा - 201301
			51	097448	मि० सुधासु 120-ए, शिप्रा सन सिटी, इन्दिरापुरम, माजियाबाद - 201001



क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
52.	098775	मि० भार्गव असीम एकाउण्ट्स आफिसर इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, बरोनी रिफाइनरी, बरोनी, बेगूसराय - 851114	61.	400337	मि० भण्डारी मधुर सी-115 सावित्री पथ, बापूनगर, जयपुर - 302015
53.	099032	मि० मून प्रवीन सी-478, सेक्टर 19, यू०पी० नोएडा - 201301	62.	400364	मिसोज महेश्वरी नीतिका मेसर्स भारत मेडिकल्स, माधव नगर, फ्रीगंज, उज्जैन - 456001
54.	400007	मि० खण्डेलवाल विकास 6/144 विद्याधर नगर, जयपुर - 302012	63.	400542	मि० शुक्ला यशवर्धन 111ए/79 अशोक नगर, कानपुर - 208012
55.	400022	मि० मिश्रा मुकेश मार्फत बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, यूनिट - बबनान, गोण्डा - 271001	64.	400617	मि० झुनझुनवाला विवेक मार्फत बिजय झुनझुनवाला, केशव राय लेन, चौक पटना सिटी, पटना - 800008
56.	400069	मिस जैन शिल्पा ब्लेसिंगटन हाउस, कान्को रोड, रौंघी - 834008			
57.	400095	मि० जैन अमित एस बी-165 बापू नगर, टोन्क रोड, जयपुर - 302015			
58.	400147	मि० सुद्रानिया नीलेश कुमार 2255, एक हाईलेण्ड एबीड, अपार्टमेंट 102, लोमार्ड आइएल 60148, लोमार्ड, यूएसए			
59.	400226	मि० टोटला आसुतोष 6/98 सेक्टर-6, प्लॉट-98, विद्याधर नगर, जयपुर - 302023			
60.	400270	मि० शर्मा कमल कान्त 18 मङ्गलपुरा, बी/एच बाइबिल चर्च, अजमेर रोड, जयपुर - 302006			

अशोक हात्तिया  
( डा० अशोक हात्तिया )  
सचिव

## भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

मुंबई-400 005, दिनांक 19 जून 2003

सूचना  
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3 डब्ल्यूसीए (5)/2/2002-2003 इस संस्थान की अधिसूचना नं. 3 एनसीए (4)/1/2001-2002 दिनांक 21 नवम्बर 2001, 3 डब्ल्यूसीए (4)/1/2000-2001 दिनांक 15 जनवरी 2001, 3 डब्ल्यूसीए (4)/1/2001-2002 दिनांक 7 जनवरी 2002, 3 डब्ल्यूसीए (4)/1/2002-2003 दिनांक 10 फरवरी 2003, 3 एनसीए (4)/1/2001-2002 दिनांक 21 नवम्बर 2001, 3 डब्ल्यूसीए (4)/1/2000-2001 दिनांक 15 जनवरी 2001, 3 डब्ल्यूसीए (4)/1/2001-2002 दिनांक 7 जनवरी 2002, 3 डब्ल्यूसीए (4)/1/2002-2003 दिनांक 10 फरवरी 2003, संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान चरिफ्ट ने अपने सरकारी रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1. 001706	श्री कपूर सूरज प्रकाश, एफसीए 28 ए-11 तक्षशिला, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400093	17/05/2002
2. 002794	श्री भटनागर जगदीश स्वरूप एफसीए 608, ए रहेजा टाउनशिप, पंचशील -2, मलाड (पूर्व), मुम्बई-400097	01/04/2002
3. 004156	श्री वैकटेशन पी. एन. एफसीए 324, समुद्र महल, डॉ. एनी बेसेन्ट रोड, मुम्बई-400018	28/06/2002
4. 005405	श्री बनराज रजनीकान्त एफसीए मल्लिकार्जुन, सी/ओ. कैलेश आर. मरचेन्ट, वि. प्रसाद खिमजी का बंगला, वसन्ती लालजी बादीवली (पश्चिम), मुम्बई-400067	03/07/2002
5. 005558	श्री आद कान्ति लाल पारेख एफसीए वात्सल्य प्रफुल्ल कालोनी, जी. ई. पी. स्कूल के पीछे, वडोदरा-390015	30/04/2002
6. 006334	श्री शाह सी. एस., एसीए 903, चन्दनवाला, आर. आर. ठक्कर मार्ग, मुम्बई-400006	07/11/2002
7. 007202	श्री कतरक दिनशा होमी, एसीए सी/ओ. एल्सटोम आस्ट्रेलिया लिमिटेड, 3, ब्रिज स्ट्रीट, एनएचडब्ल्यू 2073, आस्ट्रेलिया	19/08/2002

8. 007546	श्री ललनी जगमोहन दलीचन्द एफसीए जे. डी. ललनी एण्ड कम्पनी वाडिया हाउस, तीसरी मंजिल, कमरा नं. 709-बी, कवासजी पटेल सेन्ट फोर्ट, मुम्बई-400001	08/12/2000
9. 007784	श्री विलास विष्णु जोशी तन्वी एफसीए हीरे नगर, पूने रोड, नासिक-422011	12/04/2002
10. 008184	श्री वासुदेव जगदीश रमाकान्त एसीए 62 मेनोर, डॉ. प्रिंसटोन, एनजी. 08540, यूएसए-0	08/12/2000
11. 010198	श्री जाला जयवंत सिंह सरदार सिंह एसीए 83, जीवन आकाश बिल्डिंग, भाटिया हॉस्पिटल के पास, फारजेट हिल रोड, तारडियो, मुम्बई-400036	17/10/2002
12. 010294	श्री चंद्रकांत शांतीलाल शाह एसीए 303, अनुपम, अंधेरी वरसोवा रोड, दोदाभाई क्रोस रोड नंबर 2, अंधेरी (पश्चिम) मुम्बई-400058	22/05/2002
13. 010407	श्री मौज फखरुद्दीन पंच एफसीए सनफ्लोर फ्लोर नंबर 2, बारहवीं मंजिल कफी परेड मुम्बई-400005	29/07/2002
14. 010561	श्री चोव्सी कृष्णकांत, एफसीए जयंतिलाल राम निवास, दूसरा फ्लोर, प्लॉट नंबर 3 स्वर्ण नगर सोसायटी, एन एस रोड नंबर 5 विले पारले (पश्चिम) मुम्बई-400056	31/05/2002
15. 011257	श्री रामाबदरान वीर राघवन एसीए सी/ओ एम.आर.एस.एन.टी.दमनिया शापन बोग, वी ब्लोक, फ्लेट 12/ए चौथी मंजिल, वी. पी. रोड मुम्बई-400004	07/06/2002
16. 011618	श्री विजयकुमार वमन कोरके एफसीए 3/4, लव कुश अपार्टमेंट्स, आनंद पार्क, चिंतामनी नगर के पास औंध पुणे-411007	24/09/2002
17. 011934	श्री कृष्ण एस.आर., एफसीए जनरल मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चंद्रमुखी, नारीमान पोइंट, मुम्बई-400021	23/10/2002
18. 012306	श्री हरिशंकर, एफसीए सनवरमलकियाल दफ्तरी रोड, मलाद (पूर्व) मुम्बई-400097	17/05/2002

19. 012330 श्री बी.एच.श्रीधर, एसीए 30/04/2002  
यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्लेट  
नंबर 2/बी, लेकशोर मेनर अपार्टमेंट्स नंबर 112,  
गन गधारा शेड्डी रोड, अलसर, बेंगलोर-560042
20. 012780 श्री दिनेश चंद्र ओच्छवलाल पिटेलवाला 26/06/2002  
एसीए  
15, अक्शनीम नेहरू फाऊंडेशन के सामने,  
वस्त्रपुर रोड, अहमदाबाद-380015
21. 012974 श्री मन्मथ लालशर्मा, एसीए 1/07/2002  
ई/73, तक्षशिला वस्त्रपुर अहमदाबाद-380015
22. 013941 श्री अशोक बालकृष्ण खादिलकर 10/01/2001  
एफसीए  
466 शनिवार पेठ वमन निवास पुणे-411030
23. 014085 श्री रामअनुजम श्रीनिवासन 11/04/2002  
एफसीए  
बी-15 नेल्लई अपार्टमेंट्स स्वास्तिक पार्क, चैम्बर  
मुंबई-400071
24. 014191 श्री शाह लक्ष्मी चंद रतनशी 26/04/2002  
एफसीए  
बिलक्यूस मेशन, दूसरी मंजिल, 261/63, डी.एन.  
रोड, फोर्ट, मुंबई-400001
25. 015197 श्री देवीदास वसंत गायटोंड, एसीए 06/05/2002  
डी/21 मांगीरीश सोसाइटी एल.जे.रोड,  
एक्स चोटानी रोड महिम मुंबई-400016
26. 015641 श्री कुलकर्णी सुहास गजानन 20/12/2000  
एसीए  
5/116, सागर को-ओपरेटिव सोसाइटी,  
रहेजा हॉस्पिटल के पास, महिम मुंबई
27. 015859 श्री चंद्रकांत शांतीलाल शाह 26/12/2002  
एसीए  
प्लेट नंबर 8 लाला लाजपत राय मार्ग,  
विले-पारले (पश्चिम), मुंबई-400056
28. 016186 श्री रामचंद्र राव मधु, एफसीए 10/04/2002  
शंगरी-ला होटल रिसोर्ट, 21 एफ.एल.आर.  
सिटिक टॉवर 1 टिम एम ई आई ऐवेन्यू सेन्ट्रल  
हांगकॉंग-0
29. 016345 श्री एन.आर.संघरजका, एसीए 09/04/2002  
बी-17, रतन पेलेस 186 गरोदिया नगर  
घाटकोपर (पूर्व), मुंबई-400077
30. 016511 श्री हिमांशु भाट्ट भाई देसाई 02/12/2002  
एफसीए  
7, दजे अपार्टमेंट्स पवन बोग रोड, मलाड  
(पश्चिम) मुंबई-400064
31. 016876 श्री अहमद मुस्ताक, एसीए 27/03/2002  
मार्केटिंग और मार्केटिंग रिसर्च पोस्ट बक्स नंबर  
5874 रियाध 11432 सऊदी अरब 0
32. 016941 श्री जैन अनिल कुमार, एसीए 15/01/2001  
डी.वाई जनरल मेनेजर दा कोटन कापोरेशन  
ऑफ इंडिया लिमिटेड कपास भवन प्लोट नंबर 3  
ए सेक्टर 10 सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई-400614
33. 017516 श्री ढोलकिया बंकिमचंद्र बी. 26/06/2002  
एसीए  
बीए 304 आयोजन नगर लिबर्टी गार्डन क्रोस रोड  
नंबर 4, मलाद (पश्चिम), मुंबई-400064
34. 017786 श्री पाधी बी सी, एफसीए 02/03/2000  
डीवाई जी.एम.(एफ और ए) ओ.एन.जी.सी  
लिमिटेड, 228 वासुधर भवन अली यावर  
जंग मार्ग बांद्रा पूर्वी, मुंबई-51
35. 017834 श्री किरन कुमार लक्ष्मणदास शाह 23/05/2002  
एफसीए  
बिल्डिंग 1, विंग ए, प्लेट 2, सोनल अपार्टमेंट्स,  
जयप्रकाश रोड, गौरगाँव (पूर्व), मुंबई-400063
36. 017878 श्री सेठ अब्दुल रहमान अब्दुल रहीम 01/04/2002  
एसीए  
पी.ओ.बॉक्स नंबर 456, जेदाह, के.एस.ए.
37. 017887 श्री विनोद गोरधनदास भंसाली 17/09/2002  
एफसीए  
501, गुलमोहर अपार्टमेंट्स, विंग ए सियेसर रोड,  
अंबोली, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400058
38. 018440 श्री प्रभाकर राव बंतवाल, एसीए 09/10/2002  
पहली मंजिल, भंडारी अपार्टमेंट्स, कमला हाईट्स  
के सामने, 373, सोमवार पेठ, पुणे-411001
39. 020468 श्री जयकुमार बी. एफसीए 10/07/2002  
12, गंगा विहार, आठवां मेन रोड, जैम्बर  
मुंबई-400071
40. 023743 श्री वीरराघवन ए, एसीए 14/05/2002  
बी/11, श्रवन सृष्टि सी.एच.एस.सृष्टि सेक्टर-2  
मोरा रोड, 401 104 थाने
41. 025612 श्री जगदीश कुमार जी, एसीए 13/02/2001  
स्टार इंडिया लिमिटेड मारटरपीस अंधेरी कुरला  
रोड मारोल नाका अंधेरी पूर्वी मुंबई-400059
42. 026731 श्री श्रीकांत जी, एसीए 24/10/2002  
एफ/80, शांती सदन, मेलाकल मेन रोड,  
कोचादई मदुरै (तमिलनाडु) मदुरै-625016
43. 029283 श्री बालरमन के, एसीए 12/07/2001  
प्लोट नंबर-25 चलावा इंडस्ट्रियल ऐस्टेट, चलावा,  
कानो नाइजीरिया
44. 030378 श्रीमति कुंता शंकर गानू, एफसीए 12/07/2002  
गानू एण्ड कंपनी, 202 बलवंत अपार्टमेंट्स छारे  
टाऊन, धरमपेठ नागपुर-440010

45. 030821 श्री अशोक कुमार अजमेर 12/04/2002  
एफसीए  
101 सम्राट ऑफ हिंदुजा हॉस्पिटल एल.टी.पी.  
एन.कोटनिस मार्ग महिम मुंबई-400016
46. 030895 श्री पांडव खिमजी शामजी 08/05/2002  
एफसीए  
7, पार्क एवेन्यू, प्लोट 2-11, सेक्टर-17, नेरूल  
नवी मुंबई-400706
47. 030989 मिस लतिका प्रकाश प्रधान 08/04/2002  
एफसीए  
31, ग्रीन एंके यूनिवर्स पार्क, रोड नंबर 5 खार  
(पश्चिम) मुंबई-400052
48. 031321 श्री बिपिनचंद्र कांतीलाल ठक्कर 06/08/2002  
एसीए  
सी/ओ 203, सेंटर कॉपलेक्स, विजय चार रास्ता  
के पास, नवरंगपुर, अहमदाबाद-380009
49. 031685 श्री मंगल कमल किशोर, एफसीए 10/01/2001  
4ए/54 मनाली एवरशाइन नगर मलाद पश्चिम  
मुंबई-400064
50. 031746 श्रीमति वृंदा शरद बाल, एसीए 21/10/2002  
9 आगरकर भवन एल बी शास्त्री रोड  
पुणे-411030
51. 031868 श्री दोहादवाला जाहद अकबराली 08/12/2000  
एफसीए  
19 फोर बंगलोस 403, विक्रमआदित्या अंधेरी  
(पश्चिम) मुंबई 400053
52. 032051 श्री सुन्दरम मुरलीधरन, एसीए 15/05/2002  
76-ए.ई.सी.एस.लेआउट, दूसरी स्टेज,  
पंद्रहवा क्रोस, बंगलोर-560094
53. 032095 श्री रंग सुभाष विनायक, एफसीए 08/12/2000  
12 विधाता छत्री मंजिल राम मारुति रोड दादर,  
मुंबई-400028
54. 032116 श्री मेहता रघुवेंद्र राज, एफसीए 17/04/2002  
गुजरात पोसित्रा पोर्ट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 207  
बैंक स्ट्रीट क्रोस लेन ऑफिस शहीद भगत सिंह  
मार्ग फोर्ट मुंबई-400002
55. 032137 श्री बगादिया बिपिनचंद्र जिवराभाई 01/08/2002  
एफसीए  
803 अलकनंदा पांचवी मंजिल नीलकंठ वेली  
राजवाडी रोड-7 घाटकोपर-ई, मुंबई-400077
56. 032298 श्रीमति फिरोजी बेजी खान, एसीए 20/12/2000  
सी/ओ इकोब्रिज लिमिटेड 7 आर्नोल्ड क्रिसेंट  
आइसलेवर्थ टी.डब्ल्यू.77 एन.एस यूके
57. 032313 श्री शाह जतिश भारमाल, एसीए 27/08/2002  
पी.ओ.बॉक्स 39203 नैरोबी
58. 032324 श्री जोशी प्रमोद गोविन्द, एसीए 20/12/2000  
फ्लेट नंबर 102, कलपतरु हाइड्स,  
अगरीपद, मुंबई-400011
59. 032663 श्री जलन दीन बंधु, एफसीए 22/07/2002  
504 यूनिट टॉवर कमल क्लब के पास, अंधेरी  
(पश्चिम) मुंबई-400062
60. 032683 श्री दियास मार्क डारिक, एफसीए 31/08/2000  
सी/ओ फरसन ग्रुप ओफोमन ईएनजी एल.एल.  
सी पिन कोड-133 एएल खुवैर मुस्कात 0  
ओमन
61. 032743 श्री धूलिया ललित कुमार नवलचंद 17/05/2002  
एसीए  
पी.ओ.बॉक्स 66588 नैरोबी केन्या
62. 032783 श्री जयंत पुरुषोत्तम टिडके 17/05/2002  
एफसीए  
8 नंदनवन चौथा रोड टी.पी.एस 3,  
सांताक्रूज-(पूर्व), मुंबई-400055
63. 032925 श्री अयैर कुमार सुंदरम, एफसीए 20/05/2002  
त्विगा स्टेशनर्स और प्रिंटेर्स पी.ओ.बॉक्स नं. 18454  
नैरोबी 0 केन्या
64. 033304 श्री मुकुंद गधुकर अरगिकर 23/01/2001  
एफसीए  
सी/5 अस्मिता टी.पी एस छत्र प्लोट नंबर 36/37  
ऑफ सिंकिंग रोड गक्सटर्नल सांताक्रूज पश्चिम,  
मुंबई-400054
65. 033323 श्री हिमानी किरन हरसुख लाल 27/05/2002  
एफसीए  
5/6, गीता बिल्डिंग, देवीदयाल रोड, मुलंद  
(पश्चिम) मुंबई-400080
66. 033465 श्री प्रभू तेंडुलकर नारायण वासुदेव 08/12/2000  
एसीए  
चीफ फाइनेंस ऑफिसर एण्ड कंपनी सेक्रेटरी  
डिजिटल इक्विपमेंट (1) लिमिटेड डिजिटल  
हाऊस, यशवंतपुर II, स्टेज 45/14, तमकर रोड  
बंगलोर-560022
67. 033467 श्री शाह रजनीकांत भिखालाल 01/04/2002  
एफसीए  
बी/3/10, विधुत नगर, पुराना पदरा रोड,  
बडोदरा-390015
68. 033652 मिस नंदिनी रविन्द्र झाला, एसीए 21/06/2002  
209-सी, विकास टॉवर्स, अंबोली रेलवे स्टेशन के  
सामने अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400069
69. 033658 श्री मेनक सूर्यकांत बालकृष्णा 21/05/2002  
एसीए  
10/5, पाम ग्रोव अमृतवन कोम्पलेक्स,  
यशोधरा लेन, गौरेगाँव (पूर्व) मुंबई-400063

70. 033800 श्री पटेल पंकज चंपकलाल, एसीए 05/07/2002  
5/301 'नुपूर' अमृतवन कोम्प्लेक्स यशोधाम रोड,  
दिनदोशी बस डिपो के सामने, गौरेगाँव (पूर्व)  
मुंबई-400063
71. 034158 श्री शाह राजेन्द्र जगजीवन दास 08/12/2000  
एफसीए  
शिवकृपा, 'बी' विंग, ब्लॉक नंबर 203, दूसरी  
मंजिल, पुराना नागर दास रोड, अंधेरी (पूर्व),  
मुंबई-400069
72. 034283 श्री पोरे अनिल शंकर राव 08/12/2000  
एफसीए  
सी/ओ डी.आर.मूनल एम बापत, 25, सागर,  
सरकारी क्वार्टर, बी.रोड, चर्च गेट, मुंबई-400020
73. 034530 श्री मनिअर किरन शांतीलाल 01/10/1999  
एफसीए  
पी देवीदास सिव्यूरिटीस लिमिटेड, बी.बी.गांधी मार्ग  
मुंबई-400023
74. 034544 श्रीमति दीप्ति वसंत संजगिरी, एसीए 30/09/2002  
फ्लेट नंबर 4, 24/ए, नेपेनसिया रोड,  
मुंबई-400036
75. 034627 श्री विजय कुमार हरिवल्लभ शर्मा 10/06/2002  
एफसीए  
पहली मंजिल, 96/ए, पार्क लेन,  
सिकंदराबाद-500003
76. 034909 श्री भिदे सुनील वर्मन, एसीए 08/04/2002  
ओम चैम्बर्स 711 शिवाजी नगर जंगली महाराज  
रोड पुणे-411005
77. 034930 श्री मेहता दौलत मल, एफसीए 15/07/2002  
401, हिमाचल, जूहू लेन, अंधेरी (पूर्व)  
मुंबई - 400058
78. 035280 श्री रंगनाथन के एस, एसीए 20/05/2002  
ए/7, विशरत फ्लेट्स, सुभाष चौक, गुरुकुल एरिया,  
अहमदाबाद - 380052
79. 035284 श्री शाह विरेन रतिलाल, एसीए 21/05/2002  
707, सायाद्री नीलकण्ठ वैली, 7वां रोड, राजावडी  
घाटकोपर (ईस्ट), मुंबई - 400077
80. 035490 श्री फर्नांडीस क्रीसटोफर नैविल 19/06/2002  
एफसीए  
6, सीताराम निवास, 153, एस.बी. रोड, खैर,  
मुंबई-400052
81. 036111 श्री शाह सुरेन्द्र भाईलाल, एसीए 16/04/2002  
282 द्वारका अपार्टमेंट्स, लक्ष्मी  
कालोनी, निकट हवेली, प्रडक्टिविटी रोड,  
वडोदरा-390005
82. 036461 श्री कमलकिशोर धनमल राठी 25/09/2001  
एसीए  
2, गणेश प्रसाद, जयप्रकाश नगर, रोड नं. 1,  
गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063
83. 036480 श्री अय्यर रामनाथ परमेश्वर 02/02/2001  
एसीए  
ई-4, योजना सोसाइटी, नटवर नगर नं. 5,  
जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई-400060
84. 036836 श्री पाण्डेया दिपक लक्ष्मीनारायण 24/04/2001  
एसीए  
ए-135, पवनधाम सोसाइटी, निकट समता फ्लेट्स,  
सुभनपुरा, वडोदरा-390021
85. 036949 श्री मेहता मनीष गिरीचन्द्र 10/05/2002  
एसीए  
रतन निवास, जीवदया लेन, आगरा रोड, घाटकोपर  
(पश्चिम), मुंबई-400086
86. 038066 श्री करकरिया बोमी आरदेशिर 06/11/2002  
एसीए  
300 ए, बिबर्ली पार्क-1, डीएलएफ, फेज-2,  
गुडगांव-122002
87. 038451 श्री पाण्डे माधव धुण्डीराज, एसीए 08/05/2002  
ए/302, दीप्ती ग्रीन, बोम्बे कॉम्बिज स्कूल के  
सामने, ऑफ शहर रोड, तरुन भारत,  
अन्धेरी (पूर्व), मुंबई-400069
88. 038584 श्री धावू चन्द्रशेखर वीरभद्र, एसीए 26/05/2002  
फ्लेट नं. 503, बिल्डिंग नं. ए/7, करिश्मा हाउसिंग  
सोसाइटी, संगम प्रेस रोड, कोठरूड, पुणे-400029
89. 038795 श्री प्रकाश पाण्डुरंग भण्डारे, एसीए 23/09/2002  
फ्लेट नं. सी-20, राठी टावर्स, धर्मेश नगर,  
होटल श्रीमाया बिल्डिंग, बंसीलाल नगर,  
औरंगाबाद-431005
90. 038809 श्री देसाई भारत वलन्तराज 23/08/2002  
एफसीए  
एन 1, अवधूत सीएचएसएल, दत्ता मन्दिर रोड,  
दहनुकर वाडी, कान्हीवल्ली (पश्चिम),  
मुंबई-400067
91. 039079 श्री ईश्वरलाल रंछोदास रावनी 04/05/2002  
एसीए  
301 मारुती सेंटर, गुरुकुल के सामने, डाइव इन  
रोड, अहमदाबाद-280052
92. 039091 श्री रेशन पी. नारायणा, एसीए 19/02/2002  
हेड इंटरनल ऑडिट, गल्फ डीटीएच एलडीसी  
शोर्टाईम, पीओ. बॉक्स 61315, दुबई, यूएई
93. 039231 श्री जयकर राजन, एफसीए 01/10/1999  
3, गोल्डन पेलेस, 191/192 बान्द्रा,  
मुंबई-400050

94.	039379	श्री शाह फागुन हर्षवदन, एसीए 16/05/2002 डी/5, अनुग्रह मतरू स्मृति सोसायटी, निकट उत्कर्ष विद्यालय, वडोदरा-392015	107.	041155	श्री सुनील चन्द्रकान्त गान्धी 01/10/1999 एफसीए 3/बी/5ए रूस्तमजी रिजेन्सी, जे एस. रोड, दहीसर (पश्चिम), मुम्बई-400068
95.	039463	श्री बरपटे दिवाकर विष्णुपन्त 01/10/2001 एफसीए ए-13, जवाहर हाउसिंग सोसाइटी, शोलापुर	108.	041193	श्री कोठारे चन्द्रकान्त धनराजजी 01/10/1996 एसीए 5/238, ठकुद्वार रोड, मुम्बई-400002
96.	039493	श्री महेन्द्र मधुकर जोशी, एसीए 09/04/2002 अयोध्या, 256 एन-3 सिडको, औरंगाबाद-431003	109.	041330	श्रीमति पुष्पा सन्तोष कुमार एसीए 05/12/1994 डीकेटी इण्डिया, 23, शाह इन्डस्ट्रीज एस्टेट, ऑफ वीर देसाई रोड, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400058
97.	039494	श्री पण्डित दीपक रामचन्द्र, एसीए 10/05/2002 15, कान्ति बिल्डिंग, टी. एच. कटारिया रोड, महिम, मुम्बई-400016	110.	041386	श्री फैजी इब्राहिम जोएब, एसीए 09/05/2002 सी/ओ आरएमसी टोपमिक्स एलएलसी, पीओ. बॉक्स/37900, दुबई, यूएई
98.	040024	श्री वीरा हर्षल अक्षय कुमार 18/04/2002 एसीए 512 रहेजा क्लासिक्, बिल्डिंग 2 ए, ओशिवाडा, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400053	111.	041455	श्री सूनावाला शिंयामक ऐदल 30/09/2002 एसीए अर्न्स्ट एण्ड यन, सोक अल सफत, तीसरी मंजिल, अब्दुल्ला मुबारक गली, सफत, कुवैत
99.	040258	श्री अग्रवाल कन्हैयालाल बाबूलाल 03/05/2002 एसीए सी-1 701 स्पेक्ट्रम टॉवर, पुलिस स्टेडियम के सामने, शाहीबाग, अहमदाबाद-380004	112.	041576	श्री राठौड निखिल कान्तिनाथ, एसीए 05/07/2002 अपर टेक्नोलॉजिक्स लिमिटेड, कार्पोरेट पार्क-6, सिओन ट्रॉम्बे रोड, चेम्बर, मुम्बई-400071
100.	040290	श्री रेगे नितिन विनायक, एसीए 03/06/2002 टीएनटी यूएई एलएलसी, पीओ. बॉक्स 50633, दुबई, यूएई	113.	041734	श्री सावरडेकर रामकृष्ण पाण्डुरान 30/05/2002 एसीए जी-4 महेश्वरी नगर, कोन्डीविटा, एमआईडीसी, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400093
101.	040313	श्री बोटाड़ा नितिन, मगनलाल 01/10/1999 एसीए ए-9, महावीर प्रकाश, दूसरी मंजिल, बी. बी. लेन-एक्सटेंशन, घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई-400077	114.	041847	श्री रामचन्द्रन जयशंकर, एसीए 07/02/2001 14 रेनट्री क्रिसेन्ट, फोरमायस गार्डन्स, फेस - 2, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका
102.	040420	श्री भारतवाज सुरेश चन्द्रकला 30/04/2002 एसीए फ्लेट नं. 3, बिल्डिंग नं. 84-बी, वृन्दावन सोसायटी, मांजीवाड़ी, थाने-400601	115.	041922	श्री शाह चेतन रमेशचन्द्र, एसीए 30/09/2002 202, रूषभ जंक्शन, आठवीं और दसवीं मंजिल, खार (पश्चिम), मुम्बई-400052
103.	040919	श्री जोशी प्रद्युम्न महेशचन्द्र 03/09/2002 एसीए 4 हरी निवास इलेक्ट्रीक कम्पनी रोड, सान्ताक्रूज (पूर्व), मुम्बई-400055	116.	041998	श्री अम्बर रमेशचन्द्र दलाल 29/05/2002 एसीए 84/8 नवरंग, पेडर रोड, मुम्बई-400026
104.	040984	श्री रामाकृष्णन बी., एसीए 08/10/2002 ए 1 फैजलिया ग्रुप, रियाध, सऊदी अरब	117.	042136	श्री मारू नियन्त रोहित, एसीए 15/07/2002 ब्लॉक 11, राधानारायन, पटवर्धन मैदान के पीछे, 32 वां रोड, बान्द्रा (पश्चिम), मुम्बई-400050
105.	040998	मिस धाजिफदरबिल्किश हेम, एसीए 13/08/2002 लक्ष्मी बिल्डिंग, फ्लेट नं. 4, ऑफ टर्नर रोड, पटकर बिल्डिंग बान्द्रा (पश्चिम) के पीछे, मुम्बई-400050	118.	042173	श्री पारेख राजेश नरेन्द्र, एसीए 24/04/2002 19 रामनिवास, नवरोजी लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुम्बई-400086
106.	041106	श्री दमनी मिनेश हिमतलाल 01/10/1995 एसीए दमनी शिपिंग प्रा. लि., 205, 206, वर्मा चेम्बर्स, 11, होमजी स्ट्रीट फोर्ट, मुम्बई-400001	119.	042189	श्री सिंह प्रवीन चन्द्र, एसीए 01/10/1996 401, तशकेन्त बिल्डिंग, प्रतमेश कोम्प्लेक्स, वीर देसाई रोड, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400053
			120.	042366	मिस विजयलक्ष्मी देवराजन, एसीए 15/05/2002 3, बालाजी प्रसाद, आर बी मेहता मार्ग, घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई-400077

121. 042619 श्री रामकृष्णन शंकर अय्यर 30/05/2002  
एसीए  
ही-3 राधेश्याम, विष्णु नगर, नौपाड़ा, थाने  
(पश्चिम), थाने-400602
122. 042728 श्री सन्दीप अनिल प्रेसवाला 08/04/2002  
एफसीए  
इन्वेस्ट स्मार्ट इण्डिया लिमिटेड, आठवीं  
मंजिल आईएल एण्ड एफएस फाइनेन्सियल सेन्टर,  
बान्द्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बान्द्रा (पूर्व),  
मुम्बई-400051
123. 042803 श्री रंजीत हीरानंद आडवानी 13/01/2001  
एसीए  
10 सिन्धु ज्योती सोसायटी, जी-वार्ड, कुबेरनगर,  
अमदाबाद-382340
124. 042870 श्री शाह धिलानी नरेश, एसीए 13/08/2002  
ब्लॉक डी/2, फ्लेट नं. 26, भारत नगर,  
मुम्बई-400007
125. 043018 मिस शाह अमीषा धीरजलाल 03/10/2002  
एसीए  
512, समृद्धि अपार्टमेंट्स, टीपीएस लेन, रोड नं.  
51, त्र्योरीवली (पश्चिम), मुम्बई-400092
126. 043031 श्री मिस्त्री दशयुश धुंजीराव, एसीए 30/04/2002  
सी/ओ एमीरेट्स, एयरलाईन्स, मैनेजर एकान्त,  
पीओ. बॉक्स 686, दुबई
127. 043091 श्री सौम्य रमन विठलदास, एसीए 08/12/1997  
27, बुन्दावन, खेतवाड़ी, 12वीं लेन,  
मुम्बई-400004
128. 043136 श्री शास्त्री उमेश रामास्वामी, एसीए 11/07/2002  
बी-7, अमन अपार्टमेंट्स, 152, दहानुकर  
कालोनी, कोठरूड, पूने-411029
129. 043300 श्री आदी दत्ता परशुराम, एफसीए 8/12/2000  
एफ/3 मीरा, पाजोफोन्ड, मारगाओ,  
गोआ-403601
130. 043320 श्री जवादवाला शम्बीर रतूलभाई 01/10/1999  
एसीए  
केपीएमजी पीओ. बॉक्स 641, रूवी 112,  
मस्कट-0, सल्तनत ऑफ ओमान
131. 043349 श्री सरदेसाई सन्दीप अविनाश 26/04/2002  
एसीए  
7020 ली मीरागा, 14वां रोड, खार (पश्चिम),  
मुम्बई-400052
132. 043409 श्री मोदानी अनिल कुमार, एसीए 18/12/2000  
जनरल मैनेजर, विंडियोकॉन नर्मदा ग्लास,  
(डिविजन ऑफ विल), चवज, भरूच-392002
133. 043688 श्री डिमेलो रोनाल्ड जोसेफ, एसीए 17/01/2001  
फ्लेट नं. 502 जेनेसिस अपार्टमेंट्स,  
सेन्ट फ्रांसिस एवेन्यू, सान्ताक्रूज (पश्चिम),  
मुम्बई-400054
134. 043851 मिस शेदटी सुप्रिता गोविन्द, एसीए 04/04/2002  
14, जयमित्र कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी,  
प्रगति नगर, गौरेगांव (पश्चिम), मुम्बई-400062
135. 044046 श्री शकील शम्सुद्दीन, एसीए 08/12/2000  
सी एण्ड एम हाउस, हरियाली चेम्बर्स, एन. डी.  
पटेल रोड, नासिक-422001
136. 044419 श्री चन्दनवानी नरेश अर्जुनदास 28/05/2002  
एसीए  
बैंक मस्कट, पीओ. बॉक्स 134, पीएल 112,  
रूवी-0, सल्तनत ऑफ ओमान
137. 044439 श्री नवलकिशोर मोदी, एसीए 10/06/2002  
218, पंचरत्न, जीआईडीसी, चार रास्ता, डिस्ट्रिक्ट,  
वलसाद, वापी-396195
138. 044955 श्री मेहता किर्ती टी, एफसीए 27/05/2002  
7/24 मलाड कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, पौदा  
रोड, मलाड (पूर्व), मुम्बई-400097
139. 045063 श्री रेगे मुनालिनी सुरेन्द्रनाथ, एसीए 01/10/1998  
18, शिवानी, स्टेट बैंक कालोनी, पार्वती दर्शन,  
पूने-411009
140. 045173 श्री सुरेश पी आर नारायण अय्यर 18/12/2000  
एसीए  
1313 लूनु रोड, सी/ओ रेडियन स्टोर्स लिमिटेड,  
पीओ. बॉक्स 30318, लुसाका, जाम्बिया -0,  
साउथ अफ्रीका
141. 045300 श्री पंजाबी निरंजन ठाकुरदास 21/05/2002  
एसीए  
35 लक्ष्मीनारायण सोसायटी, मलाड (पूर्व),  
मुम्बई-400097
142. 045314 ठाकुरदेसाई मन्दर मनोहर, एसीए 08/12/2000  
16, राजलक्ष्मी अपार्टमेंट्स, सीटीएस नं. 37,  
प्रोस्पेरिटी सीएचएस, कार्वे नगर, पूने-411052
143. 045356 श्री रामप्पा अन्वचन वासुदेव, एसीए 02/04/2002  
15 पारा अपार्टमेंट, एन. दत्ता, निकट गुड शेफर्ड  
चर्च, 4 खंगला अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400053
144. 045434 श्री उष्मल मोहित, एसीए 08/12/2000  
मकान नं. 1, पॉम कोर्ट, 9वां रोड, अलमिडा पार्क,  
बांद्रा पश्चिम, मुम्बई - 400050
145. 045479 श्री शेख आरिफ अली, एसीए 01/10/2000  
दस्तगीर हाऊस, 4 मराठा मन्दिर मार्ग,  
भू-तल, मुम्बई- 400008
146. 045569 श्री देसाई विपुल, एसीए 08/12/2000  
बलवन्त राय, 204, ज्योती पार्क 'ए', एम.जी.  
क्रॉस रोड नं. 1, कान्दीवली (पश्चिम)  
मुम्बई - 400067
147. 045687 श्रीमति वीना श्रीराम, एसीए 04/06/2002  
के/ओ. श्री श्रीरामायर, पी.ओ. बॉक्स- 999,  
दुबई

148.	045724	श्री चेतन कुमार, एसीए सी/602, श्रीजी टावर, ड्राईव इन रोड, अहमदाबाद - 380052	25/01/2001	161.	047003	श्री खन्ना राजन, एसीए सी-501, आईएसएम हाउस, प्लोट नं. 818/ए, ठाकुर विलेज, कान्दीवली (पूर्व), मुम्बई-400101	23/09/2002
149.	045920	श्री आरती वेद्यानाथन, एसीए 11/304, तुलसीधाम कल्याणी सी.एच.एस. निकट: तत्वज्ञान विद्यापीठ, घोडबन्दर रोड, थाने (पूर्व) थाने- 400607	01/10/1998	162.	047028	मिस गगनदीप दीपक खन्ना, एसीए 27/05/2002 एफ-25 न्यू एम्बीवली सीएचएस, ऑफ लिक रोड, एनआईआईटी के सामने, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400053	
150.	045995	श्री धनंजय प्रवीन चन्द्रा जानी एफसीए रिलायंस बैंक लिमिटेड, 142, अहमदू बैलू वे, विक्टोरिया आईसलैण्ड, वेस्ट अफ्रीका, लेगोस-0, नाईजिरिया	01/10/1996	163.	047121	श्री अय्यर कृष्णन पद्मनाभन एसीए टाटा फाइनेन्स लिमिटेड, छठी मंजिल, बेजोला कॉम्प्लेक्स, वी.एन. पूर्व मार्ग, चेम्बूर, मुम्बई-400071	29/01/2001
151.	046008	श्री कोठरी प्रसन्ना ईश्वरलाल एसीए 217 पूर्णिमा टॉवर, शंकर सेठ रोड, पूने-411037	01/10/2001	164.	047142	श्री गुप्ता संजय कुमार मोहनलाल एसीए तृफान इन्फोटेक इण्डिया प्रा. लि., समृद्धि वेन्चर पार्क, एमआईडीसी, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400093	01/10/1999
152.	046193	श्री अनिल पीटर, एसीए 19 धनराज पार्क, कालेवाड़ी फट्टा, वकाड, पूने-411027	30/09/2002	165.	047192	श्री स्वादी प्रशान्त सुभाष, एसीए बी/75, श्रवस्ति, ऑफ लिंक रोड, मलाड (पश्चिम), मुम्बई-400064	01/10/2001
153.	046277	श्री खुराना विपिन सुदर्शन, एसीए 13/401 गार्डन एस्टेट, ऑफ पोकरण रोड 2, थाने (पश्चिम), थाने-400601	08/02/2001	166.	047200	श्री सोमानी प्रशान्त, एसीए डी 3-74 ग्रीन फील्ड्स, महाकाली केक्स रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400093	16/08/2002
154.	046650	श्री शर्मा अतुल कुमार सीताराम एसीए श्रद्धान्जली, गुरुद्वारा के सामने, शास्त्री नगर, खोपली-410203	09/05/2002	167.	047205	श्री पारिख संदीप महेन्द्र, एसीए बी/403, कोकील कुन्ज, एमजी. क्रॉस रोड नं. 4, कान्दीवली (पश्चिम), मुम्बई-40067	08/12/2000
155.	046686	श्री थांगदुरई जोन्सन, एफसीए पेन्डियन, सी-1, जयहिन्द कालोनी, नानेपाडे रोड, मुलुंद (पूर्व), मुम्बई-400081	01/10/1999	168.	047269	श्री जैन अजय कुमार विक्रम डी मेहता एसीए एच-2 एवरैस्ट नगर विलिडिंग, टारडियो रोड, मुम्बई-400034	04/01/2001
156.	046857	मिस कुलकर्णी निलीमा दीपक एसीए 3, ज्योती अपार्टमेंट्स, पाटील कालोनी लेन नं. 3, कॉलेज रोड, नासिक-422005	10/05/2002	169.	047317	श्री कुलकर्णी संजय गोपाल, एसीए 9 सैली अरूणोदय सोसायटी, एम. फूले रोड, विष्णु नगर, डोम्बीवली (पश्चिम), डोम्बीवली-421202	01/10/2001
157.	046858	श्री डोसा राजेश दिलीप, एसीए स्टोक एस्सचेंज, रोटोंडा बिल्डिंग पीजी. 12 ग्राउंड फ्लोर, बोम्बे समाचार रोड, मुम्बई-400023	01/10/2001	170.	047323	श्री चूनावाला गजला अजीज एसीए टी. पी. एस. 3, 14वां रोड, बिल्डिंग मेरीलेण्ड, तीसरी मंजिल, प्लेट नं. 14, बान्द्रा, मुम्बई-400050	26/04/2002
158.	046902	श्री राजूभाई श्यामलाल जरीवाला एसीए 8/357, पहली मंजिल, क्षत्रिय मठ, कोटसाफल रोड, सूरत-395002	08/12/1997	171.	047624	श्री रोदटी प्रशान्त डोडना, एसीए 5/304 अनमोल मेरोला, पाईप लाईन, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400059	01/10/1999
159.	046928	श्री झनवर देव किशन, एसीए सी/60, प्लेट नं. 204, सेक्टर नं. 10, शान्ति नगर, मीरा रोड (पूर्व), मीरा रोड-401107	01/10/1995	172.	047701	श्री निजिन कुमार रमेशचन्द्र पटेल एसीए केशव लक्ष्मी, एवरयेल प्लेट्स के सामने, अंकुर रोड, नारनपुरा, अहमदाबाद-380013	01/10/1999
160.	046993	श्रीमति सुमित्रा विकास जोशी, एसीए बी-304 'एट्रीयम', 49 कलाक्षेत्र रोड, चेन्नई-600041	08/12/2000				



173. 047739 श्री मिलीन्द कान्तीलाल मेहता 12/07/2002  
एसीए  
श्री के. सी. मेहता, 24 एन. सी. वनिक निवास,  
गुरुकुल लेन, तिलक रोड, घाटकोपर (पूर्व),  
मुम्बई-400077
174. 047762 श्री महावीर सुभाषचन्द्र गांधी 01/10/2001  
एफसीए  
301, एल्मस्ट रोड, माउंट प्रोस्पेक्ट, आईएल.,  
यूएसए
175. 047859 श्री हवेली सुनिल सोमनाथ, एसीए 17/06/2002  
सोमरसेट एम. ओ. मिक सिटी, 8 ए,  
एनजीवीवाईईएन बिल्डिंग, केएचआईईएम एसटी  
डिस्ट्रिक्ट 1, एचसीएमसी, मिक सिटी-411030,  
वियतनाम
176. 047940 श्री मरचेन्ट मुफजल सैफुद्दीन 03/06/2002  
एसीए  
32, सुतर चौल, फजल मंजिल, छठी मंजिल,  
मुम्बई-400002
177. 048272 श्री एड्रियन फर्नांडीज जे, एसीए 26/04/2002  
ए-16 रत्नम पार्क, गोत्री, वडोदरा-390021
178. 048336 श्री जोशी आशिष रजनीकान्त, एसीए 01/10/1999  
8-बी, तीनमूर्ती पार्क सोसायटी, गुलाबी टेकरा,  
अहमदाबाद-380015
179. 048373 मिस सेठ नन्दीनी चेतन, एसीए 01/10/1999  
तीसरी मंजिल, निशत टावर, एमजी. रोड, अकोला,  
अकोला-444001
180. 048521 श्री स्वामी सन्तोष, एसीए 01/10/2001  
15/464, शास्त्री नगर, गोरेगांव (पश्चिम),  
मुम्बई-400104
181. 048731 मिस अनहिता आशिष कपाड़िया 08/12/2000  
एसीए  
एम्बियन आईएनसी., 213 बुडवर्ड एसटी,  
सुइट-200, टेक्सास-78744, यूएसए
182. 048737 श्री वी आनन्द, एसीए 01/10/1999  
सी-10 नई श्रेणिक सोसायटी, अशोक नगर, नहर  
रोड, मुलुंद (पश्चिम), मुम्बई-400080
183. 048761 श्री जैन जितेन्द्र कुमार, एसीए 01/10/1995  
पीओ. नॉक्स 27241, दुबई-0, यूईई
184. 048763 श्री दलाल बिरेन रमेश, एसीए 05/04/2002  
ए/11, बुन्दावन सोसाइटी, कोल्डोंगरी सहर रोड,  
अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400069
185. 048947 श्री शर्मा राजेश बोरबल, एसीए 01/07/2000  
7416 कोटेज एवेन्यू, नोर्थ बर्जन, एनजे. 07047,  
यूएसए
186. 049147 श्री सुमेश कुमार, एसीए 07/05/1999  
सी/ओ. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि., पहली मंजिल, अहमदा  
सेन्टर, एमआईडीसी ऑफिस के सामने, अन्धेरी  
(पूर्व), मुम्बई-400093
187. 049246 श्री राजेश बंसल, एसीए 18/04/2002  
5666 गोडी रोड, दहोड-400093
188. 049609 श्री मवलंकर अनमेश सुरेश चन्द्र 30/05/2002  
एसीए  
सी/ओ प्रोक्टर एण्ड गोम्वल एआईएसए पीटीई  
लि., 19वीं मंजिल पेट्रोल मेगाप्लाजा, गिल पुराना  
एवेन्यू, मकाटी, मनीला-0, फिलीपिन्स
189. 049731 श्री सतीश राघवन, एसीए 12/04/2002  
आर एच 4, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर नं. 2 प्लॉट  
नं. 69, कोणारखराने, नवी मुम्बई-4000701
190. 049773 श्री बनवारी गिरिश पम्पन, एसीए 05/02/2001  
202 ए पल अपार्टमेंट्स, तामरी क्रॉस लेन,  
लोखण्डवाला कोणारखराने, अन्धेरी (पश्चिम),  
मुम्बई-400053
191. 049843 श्री पन्चोली अश्वय कुमार पारसमल 01/10/1998  
एसीए  
ए1803/1804, गोकुल गार्डन सीएचएस लि.,  
ठाकुर विलेज, कान्दीवली (पूर्व), मुम्बई-400101
192. 049878 मिस नायक तेजल कालीदास 19/12/2000  
एसीए  
711, लोइसाना स्ट्रीट, सुइट 1300, हाउस्टन-77002,  
यूएसए
193. 049932 श्री सुमीर नर्मा, एसीए 13/08/2000  
सी/ओ. कनन देसाई, 2/6, एलएनएचओ एस्टेट  
नं. 5, के. एम. मुंशी मार्ग, मुम्बई-400007
194. 049986 श्री माधवाना मनीष धीरजलाल 09/07/2002  
एसीए  
601 अनमोल डाय पार्क, 95-बी, देसाई रोड,  
मुम्बई-400026
195. 050034 श्री राम रमेश, एसीए 05/06/2002  
पीटी सुरीसबूमी टेक्नाइडल्स, मनेरा बटाबिया लेवला  
16, जी के एच मोस मेन्स्यू केव 126, जकार्ता  
10220, इण्डोनेशिया
196. 050687 श्री अशोक कुमार जैन, एसीए 29/04/2002  
धवलगिरी फ्लैट नं. 401, पप्तासवाडी नानाचौक,  
गोल्डन क्राउन रेजिडेंस के पीछे, ग्रान्ट रोड,  
मुम्बई-400036
197. 050701 श्री निरंजन भट्टाचारजी, एसीए 01/10/1999  
एयर इण्डिया, आल्फ एयरपोर्ट, कलिना,  
मुम्बई-400029
198. 052505 श्री मयंक भण्डारी, एसीए 12/08/2002  
बीएनपी परोबस, फ्रान्स टावर, तीसरी मंजिल,  
25/26 कॉलेज रोड, चेन्नई-600006

199. 052871 श्री मेहरोत्रा जयन्त, एसीए 24/05/2002  
बी-29 आशियाना (गोलेवसी सोसायटी), सेन्ट जोन्स  
पेट्रिस्ट रोड, बान्द्रा (पश्चिम), मुम्बई-400050
200. 054011 श्री नन्दी अमित, एसीए 08/12/2000  
नोबल अजानिया इन्वेस्टमेन्ट्स लि., पोस्ट बॉक्स  
20066, डीएआर एस सलाम, तन्जानिया-00
201. 054538 श्री कविता ठाकर, एसीए 18/04/2002  
सी/ओ मेजर एनएल करिया, 404 श्री रामदेव बाबा  
अपार्टमेन्ट्स, 304/4, बजाज नगर,  
नागपुर-440010
202. 055018 श्री दिप्ता भानु गुप्ता, एसीए 21/05/2002  
सीनियर ऑफिसर (इन्टरनल ऑडिट), एम/एस.  
एच.डी.एफ.सी.लिमिटेड रमन हाऊस, 169, बेकबे  
आरईसीएलएम मुंबई-400020
203. 055239 श्री अग्रवाल सुनील, एफसीए 01/10/2001  
सी/ओ सतीश अग्रवाल सेंचुरी टेक्सटाईल और  
इंडिया लिमिटेड सेंचुरी भवन डॉक्टर ऐनी बेसंत  
रोड वरली मुंबई-0
204. 055878 श्री बिमल भट्टाचार्य, एसीए 08/12/1997  
सी/ओ यूटीआई बैंक लिमिटेड 131, मेकर टॉवर  
एफ कफी परेड मुंबई-400005
205. 058951 श्री सेनगुप्ता स्वाधीन, एसीए 01/10/2001  
फ्लेट नंबर 2624 बिल्डिंग नंबर-207 केन नगर  
एंटोप हिल सेक्टर-6 मुंबई-400037
206. 070755 श्री माथुर विक्रम, एसीए 01/10/1996  
9/20 जीएनएफ टाऊनशिप पी ओ नर्मदा नगर  
भरूच-392015
207. 071519 श्री राम अवतार राठी, एफसीए 10/04/2002  
501/9 फ्लावर वेली ऐस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे थाने  
पश्चिम थाने-400601
208. 071812 श्री सुंदर सनमुखानी, एफसीए 18/04/2002  
19/16डी फोर्ट मेशन ऑफ ब्रिटिश होटल लेन बोम्बे  
समाचार मार्ग फोर्ट मुंबई-400023
209. 072980 श्री अशोक ठाकर, एफसीए 08/12/2000  
महेश्वरी इंडस्ट्रियल ऐस्टेट दूसरी मंजिल  
महाकाली केव रोड पेपर बॉक्स के सामने अंधेरी  
(पूर्व), मुंबई-400093
210. 073012 श्री रविन्द्र सिंह सिंघवी, एफसीए 18/04/2002  
एसआर वाईस प्रेसिडेंट (कमर्शियल), एम/एस सुपर  
सिन्कोटेक्स इंडिया लि., खरी का लाम्बा, डिस्ट्रीक्ट  
भिलवाड़ा, गुलाबपुरा-311021
211. 074764 श्री राधे श्याम वैश्य, एसीए 01/10/1999  
सी/ओ गजेन्द्र टटवेदी, ए-238, शास्त्री नगर,  
जोधपुर 342003, राजस्थान,
212. 075823 श्री राज कुमार सिन्धी, एसीए 21/05/2002  
504, स्पेक्टर, 5वीं मंजिल, प्रथमेश काम्पलेक्स,  
वीर देसाई रोड (एक्स.), अन्धेरी (पश्चिम),  
मुम्बई-400053
213. 077509 मिस गर्ग भावना, एसीए 01/10/2001  
81, चन्द्र नगर, देहरादून-248001
214. 077888 श्री विवेक सक्सेना, एसीए 01/10/2001  
आरेकल इण्डिया प्रा. लि., चौथी मंजिल, एस.  
विंग, साइबर गेटवे, माधपुर, हैदराबाद-81
215. 077992 श्री गौरव गुप्ता, एसीए 18/09/2002  
डी-162 सेक्टर 27, नौएडा-201301
216. 079067 श्री विक्रम जयसिंधानी, एसीए 08/12/2000  
चम्बल फरटीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि., 6  
देविका टावर्स, नेहरू पेलिस, नई दिल्ली
217. 083907 श्री मेहरा राजेश, एसीए 31/05/2002  
ए-703 मेरी एलन, ऑफ केसर रोड, अन्धेरी  
(पश्चिम), मुम्बई-400058
218. 084678 श्री सूर्यकान्त दवे, एफसीए 31/05/2002  
52 जूहू विक्रान्त समर्थ रामदास मार्ग,  
गुलमोहर/जेवीपीडी, मुम्बई-400049
219. 084952 श्री बहुगुना विनायक, एसीए 01/10/1999  
सी/ओ स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, 90 एम. जी. रोड,  
मुम्बई-401105
220. 086344 श्री कृष्णलाल, एसीए 02/09/2002  
219/18 मौहल्ला डोगसन, हिसार-125001
221. 086834 श्री आशु गुलाटी, एफसीए 26/12/2000  
41 न्यू क्लोथ मार्किट, अहमदाबाद-380002
222. 090848 श्री गोविन्द बन्सल, एसीए 13/12/2000  
112/340 स्वरूप नगर, कानपुर-208002
223. 093042 श्री तरुण नहर, एसीए 28/05/2002  
बिरला टेक्नोलोजी लि., सी विंग तीसरी मंजिल,  
322-223 महाकाली केव्स रोड, अन्धेरी (पूर्व),  
मुम्बई-400093
224. 094627 श्री जैन शालीन, एसीए 03/09/2002  
आर-9 एमएलएस यूनिवर्सिटी कैम्पस,  
उदयपुर-313001
225. 097677 मिस महेश्वरी बिन्द्या, एसीए 05/07/2002  
516/517 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाराखम्बा लेन, नई  
दिल्ली-110001
226. 100175 मिस पारिया नीलम, एसीए 18/11/2002  
सी/ओ एल. एस. कोठारी, 205 राजनिकेतन ए,  
महिन्द्रा गार्डन्स एस. वी रोड के पीछे, गोरेगांव वेस्ट,  
मुम्बई-0
227. 100261 श्री जैन विनोद कुमार, एसीए 01/10/1999  
जे के फाईल्स एण्ड टूल्स, (डिविजन ऑफ रेमन्ड  
लि.), पी. ओ. जेकोग्राम, थाने-400606

228. 100630 श्री माने प्रशान्त मनोहर, एसीए 12/04/2002  
ए-302 शिवछाया कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी,  
दीवानमन नवयुग नगर, वसाई रोड (पश्चिम),  
वसाई-401202
229. 100792 श्री शाह अनिश दिनेश, एसीए 15/05/2002  
119/5, मस्कटी महल, लोहर चौक,  
मुम्बई-400002
230. 100836 श्री बालाजी कृष्णमूर्ति रमन 08/12/2000  
एसीए  
पी. ओ. बॉक्स 3229, दरेस सलाम, तन्जानिया-0
231. 100841 मिस सलिमा हसनली रूपानी 08/12/2000  
एफसीए  
धर्मशाला रोड, बिल्खा-362110
232. 101157 मिस दामोदर मेधा गजानन, एसीए 19/01/2001  
311 गीतान्जली अपार्टमेंट्स, हॉल 3 स्टेज,  
थिप्पेन्द्र रोड, बंगलौर-560075
233. 101370 श्री आनन्द श्रीनिवासन, एसीए 12/06/2002  
सी/ओ एन के. श्रीनिवासन, 6/764 विशाल, 65  
स्ट्रीट सेक्टर 10, के.के. नगर, चेन्नई-600078
234. 101498 श्री सोमानी रोहित जयप्रकाश 29/04/2002  
एसीए  
114/118, मानक भवन, केवल एसटी,  
मुम्बई-400002
235. 101534 श्री भाविन शाह, एसीए 27/06/2002  
901/ए, शास्त्री हॉल, नवी मंजिल, जे. डी. रोड,  
नानाचौक, मुम्बई-400007
236. 101663 श्री तम्हने गणेश प्रभाकर, एसीए 27/05/2002  
503 ए विंग एवन प्लाजा, ठाकुर कॉम्प्लेक्स,  
कान्दीवली (पूर्व), मुम्बई-400207
237. 101743 श्री भण्डारी नील राजवीर, एसीए 27/05/2002  
उदय पी. नानावती एण्ड एसोसिएट्स, 7/2651,  
वैद शेरी, निकट महालक्ष्मी मन्दिर, सैयदपुर,  
सूरत-395003
238. 101778 श्री खन्ना धीरज आर., एसीए 08/05/2002  
मेरी एलन बिल्डिंग 702/बी, महातरपाड़ा रोड,  
ऑफ सिजर रोड, अम्बोली, अन्धेरी (पश्चिम),  
मुम्बई-400058
239. 102152 श्री मित्तल आशिष, एसीए 02/05/2002  
सी/ओ केविन एक्सपोर्ट्स, डी-11/1, रोड नं. 21,  
एमआईडोसी, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400093
240. 102311 श्री अहमद एफ मरचेन्ट, एसीए 02/08/2002  
सी/ओ एच. एफ मरचेन्ट, ई. एम. पेलेस, बी305,  
साईनगर, वसाई (पश्चिम), वसाई-401202
241. 102331 श्री पारसगामपुरिया सुनिल सत्यनारायन 19/09/2001  
एसीए  
3/16 पिताम्बर विले, निकट प्रताप सिनेमा, खोपत,  
थाने-400604
242. 102980 श्री दर्शन दीपक देसाई, एसीए 10/06/2002  
9-बी/4, अनमोल नगर, नयागांव (पश्चिम),  
नयागांव-401207
243. 103292 श्री सूरज लखानी, एसीए 01/10/2002  
बंगला नं. 10, वैकुण्ठ कोपरेटिव सोसायटी, चेम्बूर,  
मुम्बई-400071
244. 103305 श्री जवेरी मिलन हिमतलाल 01/10/1999  
एसीए  
335, जवेरी निवास, टेलंग रोड, नपू हॉल के सामने,  
माटुंगा (सी आर), मुम्बई-400019
245. 103339 श्री दिनेश कुमार लोधा, एसीए 10/04/2002  
फ्लेट नं. 403, ग्रान मिडोस, लोखण्डवाला  
टाउनशिप, कान्दीवली (पूर्व), मुम्बई-400101
246. 103838 श्री अनिल कुमार बाबूलाल मेहता 27/05/2002  
एसीए  
ई-205 सूरत अपार्टमेंट, सत्यगढ़ छावनी के सामने,  
निकट जज बंगला, बोडकदेव, हमदाबाद-380054
247. 103935 श्री सोमेश महेन्द्र सावू, एसीए 06/05/2002  
901 एकमे एकलेव ऑफ गौरीगाँव मलद लिंक  
रोड गौरीगाँव पश्चिम मुम्बई-400062
248. 104045 श्री सुमित पुश्कर भाई जवेरी 03/06/2002  
एसीए  
ताज कोनेमारा दा इंडियन होटल कंपनी  
लिमिटेड, विनी रोड, चेन्नई-600002
249. 104071 मिस मनीषा जगदीश गजरिया 08/05/2002  
एसीए  
रेडिफ कोम इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, महालक्ष्मी  
इंजीनियरिंग एस्टेट, एल.जे. प्रथम क्रॉस रोड, महिम,  
मुम्बई - 400016
250. 104433 श्री लोधा निर्मल रमेश चन्द्र, एसीए 19/06/2002  
46/ए, ग्वालिया टैंक रोड, प्रथम तल,  
ए.के. मार्ग, मुम्बई - 400036
251. 104527 श्री संजय त्रिपती, एसीए 22/05/2002  
302 5/डी, ग्रीन मिडोस लोखण्डवाला कॉम्प्लेक्स,  
कान्दीवली - (पूर्व) मुम्बई 400101
252. 104689 श्री गोरव गोगरी, एसीए 25/09/2002  
टैम्पलैटन, ऐसट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, प्रथम  
तल, सखार भवन, 230 नारीमन पॉइंट,  
मुम्बई 400021
253. 104768 श्री दिपेश विनी कुमार पटेल 08/04/2002  
एसीए  
2/बी, विसन्दी पार्क, नयेगांव क्रॉस रोड, मुम्बई 400011
254. 104816 श्री अत्रोले नितिन, एसीए 10/07/2000  
अथूर एंडरसेन एण्ड कंपनी, द्वितीय तल, कंपिटल  
कोर्ट, एल.एस. सी. फेस - 3, ऑल ऑफ  
पॉम मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067

255. 105224 श्री विमल कृष्णा दास शाह, एसीए 01/10/1999  
डो-312, मतरू आशिष, चन्द्रावरकर रोड,  
बोरिवली (पश्चिम), मुम्बई- 400092
256. 105242 श्री गौंधी प्रियूष चावुलाल, एसीए 23/01/2001  
अम्बूजा सीमेंट, राजस्थान लिमिटेड,  
एकाउंट डिपार्टमेंट, पी.ओ. रबरियावास, टी ए  
केतरनडिस्टिक- पाली, राजस्थान - 0,
257. 105404 मिस हौलिडे ~~वीजू~~ ~~एसीए~~ 30/04/2002  
001, एक्सोटिका, आई.सी. कालोनी, बोरिवली  
(पूर्व) मुम्बई - 400103
258. 105432 श्री कौशिक तनमुखराय गौंधी 18/04/2002  
एसीए  
शॉप नं० 2, राजदीप कस्तूरबा एक्स रोड नं० ए  
बोरिवली (पश्चिम), मुम्बई - 400066
259. 105444 श्री शैलेश लवू पैन्डनेकर 05/07/2002  
एसीए  
S, डी आर टाकूर बिल्डिंग, राम नगर,  
डोंबिवली- 421201
260. 105568 मिस शर्मा रितिका बाबू लाल 29/05/2002  
एसीए  
4010 बी, किंग्सगेट प्लेस, चरलौटे,  
नोर्थ कनाडा, 28105, यूएसए
261. 105572 श्री सुधीर पुरुषोत्तम ताओरी 24/04/2002  
एसीए  
फ्लेट नं० 2, बोर्से बिल्डिंग, कोथरूड पोस्ट  
ऑफिस के ऊपर, कोथरूड बस स्टैंड,  
पुणे-411038
262. 105941 श्री मन्नी राजीव, एसीए 22/04/2002  
के./ओ. इन्टरनेशनल डिस्ट्रिब्यूटर, (1) लिमिटेड,  
युनाईटेड इंडी. नं० 21, केडनिक्स मिल्स काम्प्लेक्स,  
462, सेनापति बाघत मार्ग, लोअर परेल,  
मुम्बई - 400013
263. 106199 श्री सबजीकुमार गोविन्द भाई सुखडिय 01/10/1999  
एसीए  
2 गोल्डन छात्र अपार्टमेंट्स, भाई काका नगर,  
थाल तेज रोड, अहमदाबाद-380051
264. 106666 श्री गोकुल कृष्णा नन्दा शानभाग 08/04/2002  
एसीए  
3/36, कौंडाजी बिल्डिंग, प्रथम तल, जे. डब्ल्यू रोड,  
एन.आर., टाटा हॉस्पिटल परेल, मुम्बई - 400012
265. 106753 श्री . शैलेश श्रीधर पालव 08/05/2002  
एसीए  
बो/1/11 एण्ड, बरह सौदामिनी  
काम्प्लेक्स, भुसरो कालोनी, पौध रोड,  
पुणे-411038
266. 106887 श्री अश्विनी अग्रवाल, एसीए 19/08/2002  
एम. 01, मुंद्राकॉम्प्लेक्स, एन.आर. केनरा बैंक,  
एन.आर. केनरा बैंक, सिलवस्सा- 396230
267. 107620 श्री सुरेश कुमार सेलवा राज यादव 14/06/2002  
एसीए  
23 सरगम पार्क, पार्श्वनाथ टाउनशिप रोड,  
कृष्णा नगर के पीछे, सर्ईस पुर, भोगा,  
अहमदाबाद - 382346
268. 107888 श्री राजेन्द्र एम दूंगरवाला, एसीए 08/12/2000  
असिस्टेंट जनरल मेनेजर, मार्केटिंग एण्ड  
सेल्स एकाउन्ट, वीडियोकोन इंटरनेशनल लिमिटेड,  
आन्ध्रा बैंक के सामने, एनआर संगम सिनेमा,  
अंधेरी कूरला रोड, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400093
269. 107984 श्री कैहर आशिष, एसीए 27/05/2002  
तैब बैंक ईसी, सेहल सेन्टर, डिप्लोमेटिक एरिया,  
पी.ओ.बॉक्स-2020485, मनामा,  
मनामा - 400101, वैहरें
270. 108015 श्री किशोर कुमार, एसीए 08/12/2000  
सी/ऑफ कल्याणी मेटरनिटी एण्ड नर्सिंग  
होम, राणा भवन, पीडब्ल्यूडी ऑफिस कम्पाउंड,  
दिवाकर ऑटो वर्क्स, पद्मपुरा,  
औरंगाबाद- 431005
271. 108018 श्री नूरानी करीम कवीर, एसीए 08/12/2000  
19/305 सुल्तानाबाद भुवन, बैहराम बंग रोड,  
जोमेश्वरी पश्चिम, मुम्बई 400102
272. 108045 श्री सुधीर गोपालदास कावरा 08/12/2000  
एसीए  
502 गोविन्द गौरव अपार्टमेंट्स, स्वानन्द सोभाईटी,  
लेन नं० 1, शंकरनगर नं० 2, पुणे - 411009
273. 108084 श्री आनन्द कुमार, एसीए 12/04/2002  
आई.सी.आई.सी.आई. लिमिटेड, यान्द्रा कृष्णा  
काम्प्लेक्स, यान्द्रा पूर्व, मुम्बई - 400051
274. 108331 श्री भारद्वाज भारत, एसीए 05/06/2002  
सी/ओ. केन्द्र एन वेथेला, 7 कृष्णाधान  
अपार्टमेंट्स, निकट: पुनीत आश्रम कनकेरिया,  
मनीनगर, अहमदाबाद - 380009
275. 108332 श्री उमेश मोहन जादव, एसीए 09/04/2002  
15/47 प्रोग्रेसिव बिल्डिंग, डेक्कन कम्पाउंड,  
चिंचवड, मुम्बई 400012
276. 108482 श्री रघुपैर कीर्तीनाथ आवेरी 06/06/2002  
एसीए  
पी.सी. हंसोतिया एण्ड कम्पनी, महहोत्रा हाऊस,  
चतुर्थ तल, जी.पी.ओ. के सामने,  
मुम्बई - 400001
277. 108842 श्री श्रीनिवासन रामामूर्तीयर, एसीए 14/05/2002  
फ्लेट नं० 9/5, सेक्टर 18, स्क्रीम नं० 1, महात्मा  
फूले नगर, चिंचवड, पुणे 411019

278.	109001	श्री कौशिक कुमार शाह, एसीए 03/05/2002 बी/402, गोपीनाथ टैरेस, सत्या नगर, श्रीपाल नगर के सामने, बी एच साईबाबा नगर, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई - 400092	280.	203876	श्री जी चन्द्रामोहन, एसीए 30/10/2002 कमर्शल बैंक ऑफ कुवैत, रिस्क मैनेजमेन्ट डिविजन 7वीं फ़्लोर, पी ओ. बॉक्स 2861, सफेत 13029, कुवैत - 0
279.	101629	श्री सुभरामानयन के, एसीए 18/06/2002 पी.ओ. बॉक्स 47- पीसी 327 शहर इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, सुल्तानते ऑफ ओमान - 0	281.	205387	श्री मनीकरनायक सम्पत श्रीकान्त 28/08/2002 एसीए सी/ओ. श्री सम्पत कुमारन 608 शास्त्री किरन अपार्टमेन्ट्स, 18वीं फ़्लोर मल्लेश्वरम, पश्चिम, बैंगलोर - 560055

*अशोक हल्दिघा*

डा० अशोक हल्दिघा  
(सचिव)

मुम्बई-400 005, दिनांक 24 जून 2003

(चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स)

3 डब्ल्यूसीए (8)/2/2002-2003 :- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10(1) खण्ड (तीन) के अनुसारण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गये प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रेक्टिस प्रमाण पत्र को को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	002894	श्री मेहता घनश्याम गिरधरलाल एफसीए जी. जी. मेहता एण्ड कं., रूम नं. 10ए, पारेख-वोरा चेम्बर्स, 66 नगीनदास मास्टर रोड फोर्ट, मुम्बई-400023	01/04/2002
2.	003829	श्री जोशी विनायक वासुदेव एफसीए लक्ष्मी सदन पहली मंजिल, प्लोट नं. 69, डॉ. एम. बी. रौत रोड, दादर, मुम्बई-400028	31/03/2003
3.	004253	श्री झवेरी जितेन्द्र भोगीलाल एफसीए 101, कश्यप कोम्पलेक्स, प्रोडक्टिविटी रोड, वडोदरा-390007	01/04/2001
4.	004652	श्री हुक्कावाला इस्माइल उमरभाई एफसीए सी/ओ यूनाइटेड टोरिंग कंपनी, (अरबिया), एल.एल.सी., पोस्ट बॉम-29470, दुबई-0, यूएई	01/04/2002
5.	005710	श्री केस्कर नारायण गणेश एफसीए फ्लेट 302-ए, ओमकार, 88, बाल गोविन्दास रोड, महिम, मुम्बई-400016	01/04/2002
6.	005935	श्री त्रिवेदी प्रद्युम्न दामोदरदास एफसीए 6, मिलन पार्क, निजामपुरा, वडोदरा-390002	01/04/2002
7.	006851	श्री कन्नन के., एफसीए 576 बी महेश, जामे जमशेद रोड, माटुंगा, मुम्बई-400019	01/04/2002
8.	007506	श्री वघेला विजय सिंह, एसीए 204 अवनीश अपार्टमेंट्स, देवदीप कमर्शियल कोम्पलेक्स के पीछे, निजामपुरा, वडोदरा-390002	01/04/2002

9.	008872	श्री सम्पत विठ्ठलदास पुरुषोत्तमदास एफसीए मेघदीप, फ्लेट नं. 3, 47 स्वास्तिक सोसायटी, एन. एम. रोड, जे. बी. पी. डी. स्कीम, विले पारले (पश्चिम), मुम्बई-400056	25/10/2002
10.	009202	श्री देसाई अनिल कुमार मगनलाल एफसीए अनिल देसाई एण्ड कंपनी, एफएफ-26, अविष्कार कोम्पलेक्स, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा-390015	01/01/2003
11.	009253	श्री कृष्णमूर्ति वी, एफसीए सी/ओ प्राइम बैंक लिमिटेड, केनिनदिया हाउस, 8वीं मंजिल, लोटिया स्ट्रीट, पोस्ट बॉक्स नं. 43825, नेराबी-400058	04/01/2002
12.	009485	श्री मोहनोज निहालचन्द जे. एफसीए 302 अन्शुमन, 49 सी. डी. भारतीवाला मार्ग, (जुहू लेन) अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400058	01/07/2002
13.	009718	श्री शाह विजय शान्तिलाल एफसीए वी. एस. शाह एण्ड कंपनी, 9 कृष्णा कोम्पलेक्स, अम्बाराय रोड, संगली-416416	29/07/2002
14.	010008	श्री त्रिलोकी नाथ बंसल, एफसीए 202, शैलेश टावर्स, 'बी' विंग सेक्टर 19ए, नेरूल, नवी मुम्बई-400706	03/09/2002
15.	013694	श्री सोनी जेठ मल, एफसीए सी/ओ गुजरात कोपरेटिव मिल्क मार्केटिंग, फेडरेशन लिमिटेड, अमूल डेयरी रोड, गुजरात, आनन्द-3888001	01/04/2002
16.	014660	श्री यारदी माधव भास्कर एफसीए एफ-1 आदीनाथ चेम्बर्स लिमिटेड, शेख मिसरी रोड, अन्तोप हिल वडाला, मुम्बई-400037	01/09/2002
17.	017710	श्री विजयकुमार श्यामलाल चौस्की बी/106, दत्तानी नगर, बिल्डिंग 3, एस. बी. रोड, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई-400092	10/02/2002
18.	017734	श्री शिंदेरीवाला रामकरन एफसीए 201-ए, गौतम नगर, दत्ता मन्दिर रोड, मलाड (पूर्व), मुम्बई-400097	24/06/2002
19.	022674	श्री के. कान्तीकुमार, एसीए मफतलाल बरंलीगटन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, अप्सरा हाउस, पहली मंजिल, 7 एस. बी. रोड, सान्ताक्रूज (पश्चिम), मुम्बई-400054	17/06/2002

20. 024969 श्री जेरी कुरियन, एफसीए 10/06/2002  
हाउस नं. 7-1-414/23/ए, प्लोट नं. 34, श्रीनिवास  
कालोनी (पूर्व), एस. आर. नगर,  
हैदराबाद-500038
21. 026929 श्री एस. जी. कुरुवती, एसीए 31/03/2002  
8/503 तुलसीधाम, घोदबुन्दर रोड, थाने  
(पश्चिम), थाने-400607
22. 031033 श्री फरीद मोहम्मद इखलास 30/07/2002  
मुश्ताक अहमद, एफसीए  
एमजीआर फाइनेन्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, खालिद  
एलेक एण्ड मैकेनिस्म (केम्को), पी ओ. बॉक्स  
2642, दोहा-0
23. 031258 श्री शाह विनोदकुमार मंगनलाल 17/06/2002  
एसीए  
802 आशुतोष बिल्डिंग, 8वीं मंजिल, कुर्ली टर्मिनस  
रोड, न्यू तिलक नगर, चेम्बूर, मुम्बई-400089
24. 031522 मिस देसाई उषाप्रभा कृष्ण 01/04/2002  
एफसीए  
फ्लेट नं. 6, बी बिल्डिंग, मौर्य विहार, कोठरूड,  
पूने-411029
25. 031644 श्री तलवार सुबोध सदानन्द 24/06/2002  
एफसीए  
एस. एस. तलवार एण्ड कंपनी, 401 बेन्लीज डॉ.  
पोटर डायस रोड, बान्द्रा (पश्चिम),  
मुम्बई-400050
26. 031657 श्री शाह चैतन्य सोमालाल, एसीए 01/04/2002  
बालकृष्ण निवास, तीसरी मंजिल, एल. एन. रोड,  
माटुंगा सेन्ट्रल रेलवे, मुम्बई-400019
27. 032895 श्री सुहास जगन्नाथ अहिरराव 01/07/2002  
एसीए  
बी/11, आनन्दवन हेरीगेज, आनन्द नगर, सिंगड  
रोड, पूने-411051
28. 033320 श्री वेङ्कटेश्वरन रामचन्द्रन 04/03/2002  
एफसीए  
24/104 अनन्त, वसन्त विहार, 2 पोकरन रोड,  
थाने-400601
29. 034131 श्री ध्रुव राजेश हासुभाई, एफसीए 02/07/2002  
220 "अमृत", सरदार नगर मेन रोड,  
राजकोट-360001
30. 034489 श्री देसाई अतुल भुपतलाल 01/04/2002  
एफसीए  
फ्लेट नं. ए/11 जय अम्बे ज्योत, दूसरी मंजिल,  
प्लोट नं. 154, गरोडिया नगर, घाटकोपर (पूर्व),  
मुम्बई-400077
31. 034675 श्री काबरा शान्तिलाल, एफसीए 01/10/2002  
डी/102, "आकाश" जज बंगला रोड, बोडकदेव,  
अहमदाबाद-400077
32. 034969 श्री पारेख प्रेमल विरेन्द्र, एफसीए 06/08/2002  
अर्नस्ट एण्ड यंग प्राईवेट लिमिटेड, एक्सप्रेस  
टावर, 18वीं मंजिल, नारीमन पोइंट, मुम्बई-400021
33. 035241 श्री सम्पत जयेश रमेश, एफसीए 20/11/2002  
तेजपाल बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, रूम नं. 1,  
पान गली, हगेस रोड, मुम्बई-400007
34. 036545 श्री बिनानी कमलकुमार शंकरलाल 24/02/2003  
एफसीए  
53 हनुमान बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, सेन्ट्रल लाइब्रेरी  
के सामने, फोर्ट, मुम्बई-400001
35. 036564 श्री विजयंगर सुनील पदमनाथ 31/03/2003  
एसीए  
बी/2, गंगा एस्टेट, अतुर पार्क, चेम्बूर,  
मुम्बई-400071
36. 037153 श्री पालकर अभय विठल 01/04/2002  
एफसीए  
ए. बी. पालकर एण्ड कंपनी, बी-42 उत्तरा  
अपार्टमेंट्स, निकट जनकल्याण नगर, मारवे रोड,  
मलाड (पश्चिम), मुम्बई-400095
37. 037550 श्री राघवन वेंकटेश्वरन, एसीए 12/03/2003  
एम/एस बी. राघवन एण्ड एसोसिएट्स,  
सी/24-104, अनन्त, वसन्त विहार, पोखरन नं. 2  
थाने-400601
38. 037614 श्री नौशिर होमी इंजीनियर, एसीए 01/04/2002  
एम/एस. एन. एच. इंजीनियर एसोसिएट्स,  
ओरिकन हाउस, चौथी मंजिल, 14, के. दुभाष मार्ग,  
मुम्बई-400023
39. 037669 श्री काटकोरिया दीपक अमृतलाल 09/07/2002  
एफसीए  
15 पिरोजा मेन्शन, ग्रान्ज रोड (पूर्व) के सामने,  
मुम्बई-400007
40. 038115 श्री ज्वेरी पारुल धानेशभाई 28/03/2002  
एसीए  
बी/307, "गीतान्जली", वासवानी मार्ग, सेवन  
बंगला, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400053
41. 038205 श्री देशमुख समीर आनन्त 11/10/2002  
एसीए  
ए3/101, हारासिद्ध पार्क, पोकरन रोड नं. 2, थाने  
(पश्चिम), थाने-400601
42. 038318 श्री शैलेश के. भायानी वैभव 27/03/2002  
एफसीए  
2 ए, ए विंग, दूसरी मंजिल, 140 एस. बी. रोड,  
इरला नर्सिंग होम के सामने, विले पारले (पश्चिम),  
मुम्बई-400056

43. 038476 श्री पंकज धनसुखलाल दानी 01/04/2001  
एफसीए  
402 अंकुर अपार्टमेंट्स, 51 जूहू लेन, अन्धेरी  
(पश्चिम), मुम्बई-400058
44. 039333 श्री कुलकर्णी अजय बालचन्द्र 16/01/2003  
एफसीए  
14, दया, एस. बी. आई. कालोनी, एस. बी. रोड,  
थाने-400602
45. 039382 श्री अय्यर गणेश सुब्रमन्यनम 01/04/2002  
रामामूर्ति, एसीए  
बी-707 और 708, मबगलम अपार्टमेंट्स, ठाकुर  
कोम्प्लेक्स, वेस्टर्न, एक्सप्रेस हाइवे, कान्दीवली  
(पूर्व), मुम्बई-400101
46. 039512 श्री छेदा रमेश दमजी, एसीए 01/12/2002  
रमेश डी. छेदा एण्ड कंपनी, राधा अपार्टमेंट्स,  
भूतल, ऑफिस नं. 1, बारवे मार्ग, निकट कुरला  
बस डिपो सिग्नल, कुरला (पश्चिम),  
मुम्बई-400070
47. 040040 मिस गीता सुबोध कछेला, एसीए 01/04/2002  
ए/11 केशव अपार्टमेंट्स एस., निकट मानव  
मन्दिर, हेमनगर, अहमदाबाद-380052
48. 040133 श्री भट्ट धनल यागनेश, एफसीए 01/04/2002  
39 उषादीप सोसायटी, अहमदाबाद-380015
49. 040582 श्री भेदा सुधीर शिवजी, एफसीए 01/12/2002  
फ्लेट नं. 12, श्री साई दर्शन अपार्टमेंट्स, अकबर  
एलेस के ऊपर, एस. बी. रोड, सान्ताक्रूज  
(पश्चिम), मुम्बई-400054
50. 040989 श्री मुनोत चेतन प्रकाश, एसीए 27/03/2003  
ए/12 नन्द धाम, बंगुर नगर, गोरेगांव (पश्चिम),  
मुम्बई-0
51. 041068 श्री शाह दिलिपकुमार जयन्तीलाल 30/09/2002  
एसीए  
9, रूबी मेन्शन, फोरजीत स्ट्रीट, गोवालिया टैंक,  
ग्रान्ट रोड, मुम्बई-400036
52. 041624 श्री बक्शी धवल गिरीश, एसीए 13/03/2003  
के. 66-67 गोल्ड कोइन रेस्टोरेन्ट के पीछे,  
मोता बाजार, गान्धी मार्ग, जिला- आनन्द, वल्लभ,  
विद्यानगर-388120
53. 041823 श्री जतिन कुमार भारत कुमार 01/04/2002  
जरीवाला, एसीए  
2 परशवा नगर सोसायटी, न्यू शारदा मंदिर रोड,  
अहमदाबाद-380007
54. 041826 श्री शाह जयेश हसमुखलाल 09/12/2002  
एफसीए  
15-ए भारती निवास सोसायटी, निकट नगरी आई  
होस्पिटल, ऐलिस्ब्रिज, अहमदाबाद-380006 ✓
55. 041893 श्री पराग आनन्तराय व्यास 01/04/2002  
एफसीए  
12 बेस्ट व्यू, राघवजी रोड, गोवालिया टैंक,  
मुम्बई-400036
56. 042018 श्री बगरेचा आनन्दकुमार 03/01/2003  
एफसीए  
सी/ओ एम/एस. सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, 5वीं  
मंजिल, गोदरेज मिलेनियम, 9 गोरेगांव पार्क रोड,  
पूने-411001
57. 042258 मिस पारेख जास्मिन भावेश 21/01/2003  
एफसीए  
140 प्रिंसिपल स्ट्रीट, शामलदास गांधी मार्ग, पार्व  
दीप, चौथी मंजिल, मुम्बई-400002
58. 042457 श्री बोरीचा महेन्द्र विरजीभाई 25/02/2003  
एफसीए  
196, गुरुसेवक कुटीर, स्टेशन रोड, वडाला,  
मुम्बई-400031
59. 042824 श्री जसुजा समीर, एसीए 01/04/2002  
सी-8, वसन्त कुंज (सी/8), नोर्थ एवन्यू, सान्ताक्रूज  
(पश्चिम), मुम्बई-400054
60. 043184 श्री कुमार परमेश्वरन अय्यर 01/04/2002  
एफसीए  
301 ईआई वेली टावर्स, अग्रवाल एस्टेट, एस. बी.  
रोड, मनपड़ा, थाने-400607
61. 043206 श्री मेहता हितेन पी., एसीए 28/09/2000  
बिल्डिंग नं. 80 बी, फ्लेट नं. 14, वृन्दावन सोसायटी,  
थाने (पश्चिम), थाने-400601
62. 044016 श्री अलवानी अनिल रामचन्द्र 01/04/2002  
एसीए  
71-2, ए-1 अपार्टमेंट्स, 270, वालकेश्वर  
रोड, मुम्बई-400006
63. 044122 श्री मेहता दिव्येश प्रवीनचन्द्र 26/12/2002  
एफसीए,  
ए-2, 404, साकेत कोम्प्लेक्स, माजीवाड़े, थाने  
(पश्चिम), थाने-400601
64. 044157 श्री तोशानीवाल ब्रिज मोहन 11/11/2002  
एफसीए  
जी-5, सतया नारायण भवन, डॉ. आर. जी.  
थाडानी मार्ग, ऑफ वरली सी फेस,  
मुम्बई-400018
65. 044436 मिस सुतरिया चेतना परेश 16/01/2003  
एफसीए  
सुतरिया एसोसिएट्स, बी-2 और 3, सत्यम  
शॉपिंग सेन्टर, मेज फ्लोर, एम. जी. रोड,  
घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई-400077



66. 044509 श्री जैन सुशील सयरचन्द, एसीए 11/11/2002  
702 राधा कुंज 'बी', निवेदिया रोड, मलाड  
(पूर्व), मुम्बई-400097
67. 044663 श्री हितेश नरेन्द्र कुमार शाह 01/04/2002  
एफसीए  
33 गुरुकृपा अपार्टमेंट्स, 9वीं मंजिल, एन. सी.  
केलकर रोड, दादर (पश्चिम), मुम्बई-400028
68. 044699 मिस पोपट वर्षा इन्दुकुमार 20/09/2002  
एफसीए  
मतरू-स्मृति, एस. बी. एस. स्ट्राफ सोसायटी,  
सहकार नगर मेन रोड, निकट आमरपाली  
सिनेमा, राजकोट-360001
69. 044727 श्री जयेश चन्द्रवदन कन्नरा 09/07/2002  
एसीए  
303/ए कौजी इलेम, औवरी पाडा, श्रमदान रोड,  
दहीसर (पूर्व), मुम्बई-400068
70. 044799 मिस वसुधा एस. कोरके, एफसीए 24/03/2003  
1246, ए आपटे रोड, शिवाजी नगर, पूने,  
पूने-411004
71. 044877 श्री अतुल बाबूलाल शाह, एसीए 15/05/2002  
महावीर धाम ए/1ए, 48/51, गोरडिया नगर,  
घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई-400077
72. 045070 श्री मलकानी सुरेश नारायणदास 31/03/2002  
एफसीए  
3 मेहता मेन्शन, सितलदेवी टेम्पल रोड, महिम,  
मुम्बई-400016
73. 045081 श्री जयन्तीलाल डांगी, एफसीए 01/04/2002  
ए/14 प्रार्थना बिल्डिंग, स्वागतम कॉम्प्लेक्स,  
जेसल पार्क, भयंदर (पूर्व), भयंदर-401105
74. 045095 मिस संगीता अनिलकुमार पोद्दार 16/07/2002  
एसीए  
303-बी, पायल, आशा नगर, कान्दीवली  
(पूर्व), मुम्बई-400101
75. 045179 श्री मखीजा महेश मोतीलाल 24/03/2003  
एसीए  
ए-2/7, कृष्ण चम्प, एस. बी. रोड, इरला, विले  
पारले (पूर्व), मुम्बई-400056
76. 045446 श्री फर्नांडिस केजेटन फ्रांसिस 01/12/2002  
60-डी, ट्रिंकल, कलीना चर्च क्रोस रोड,  
सान्ताक्रूज (पूर्व), मुम्बई-400029
77. 045492 श्री रघुनाथ सुब्रमन्यम, एसीए 23/12/2002  
फ्लेट नं. 9, गायत्री, 140 ए लोकमान्य तिलक  
रोड, मुलुंद (पूर्व), मुम्बई-400081
78. 045585 श्री अन्जरिया धायवट ए, एसीए 01/04/2002  
13/401 महादा कोम्प्लेक्स, ओशीवाडा पुलिस  
स्टेशन के सामने, ऑफ लिंक रोड, अन्धेरी  
(पश्चिम), मुम्बई-400053
79. 045704 श्री मोहम्मद सलीम उमरभाई 01/04/2002  
मकवाना, एफसीए  
अस्मक इन्टरनेशनल, फिश फार्मिंग को. पी. जे.  
एस. सी., पी. ओ. बॉक्स 32872, दुबई-0,  
यूएई
80. 046181 श्री गूजर किरण गोवर्धन, एफसीए 01/04/2002  
बी/202 पी. एण्ड टी. सोसाएटी, तरुण भरत,  
चकाला, सहार, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400099
81. 046398 श्री देओरा दिनेश कुमार 14/06/2001  
विश्वमहल, एसीए  
सी-22, पनोरमा पार्क, शिव वल्लभ रोड,  
अशोक वन, दहीसर (पूर्व), मुम्बई-400068
82. 046539 श्री अग्रवाल शशिकान्त राधेश्याम 09/09/2002  
एफसीए  
अग्रवाल कोम्प्लेक्स के सामने, लोहा ओली,  
इतवारी, नागपुर-440002
83. 046739 श्री धूपर नरेन्द्र, एफसीए 18/10/2002  
709 हेमकूट कोम्प्लेक्स, नेहरू ब्रिज के सामने,  
आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009
84. 047353 श्री जयन्तीलाल बाबूलाल जैन 01/04/2002  
एसीए  
302 गिरनार टावर, सेठ मोतीशं लेन (लव  
लेन), मन्नावं टेलीफोन एक्सचेंज के आगे,  
बायकुला, मुम्बई-400010
85. 047722 श्री चांदीरमानी सुनील रेवाचन्द 19/09/2002  
एफसीए  
3/3-ए, स्काई स्क्रैपर, बी देसाई रोड, बान्द्रा,  
मुम्बई-400050
86. 047793 मिस डिसिल्वा एडल मैरी क्लेयर 01/05/2001  
एफसीए  
201 क्राउन पेलेस, 23 रोड, बान्द्रा,  
मुम्बई-400050
87. 048026 श्री दिलीप कुमार बी मेहता 23/08/2002  
एसीए  
101 चारकोप श्री स्वामी चेम्बर्स लिमिटेड,  
प्लोट नं. 220, सेक्टर 5, चारकोप, कान्दीवली  
(पश्चिम), मुम्बई-400067
88. 048111 श्री मोहता नवीन, एसीए 01/04/2002  
सी/ओ राजारतन आर. मोहता,  
राजा बहादुर कम्पाउंड, नि.  
मंजिल फोर्ट, मुम्बई-
89. 048261 श्री केतन राव 01/04/2002  
बी-3/1, नि.  
मंजिल फोर्ट, मुम्बई-

- |      |        |  |      |        |  |
|------|--------|--|------|--------|--|
| 90.  | 048692 | श्री मोरे राजेश कृष्णा, एसीए 13/03/2003<br>6, ओमविवेकानन्द, सी. एच. एस. शिव श्रष्टि,<br>कुर्ला (पूर्व), मुम्बई-400024  | 102. | 075437 | मिस गुप्ता प्रीती, एसीए 01/08/2002<br>बी 604 बालेरिना सी. एच. एस., 3 क्रोस रोड,<br>लोखण्डवाला, अन्धेरी (पश्चिम),<br>मुम्बई-400053                          |
| 91.  | 048824 | मिस पदमा सोपान शिन्दे, एसीए 13/09/2002<br>सी-103/104, रवि एस्टेट, ऑफ पोखरन रोड,<br>नं., देव दयानगर के सामने, थाने (पश्चिम),<br>थाने-400606   | 103. | 075508 | श्री संजय कुमार धोका, एसीए 20/12/2002<br>सी/ओ एचजीआई इन्डस्ट्रीज लिमिटेड., निकट<br>बसका, हलोल-389350, गुजराज   |
| 92.  | 049059 | श्रीमति ज्योती राजीव वालुंज 17/07/2002<br>एसीए<br>206/2 राजश्री शाहू चेम्बर्स, साने गुरुजी नगर,<br>90 फुट रोड, मुलुंद- (पूर्व), मुम्बई-400081  | 104. | 075624 | श्री सतीश कुमार खण्डेलवाल 01/04/2002<br>एफसीए<br>एफ-401 श्रीनन्दनगर पार्ट-2, वेजलपुर,<br>अहमदाबाद-380051   |
| 93.  | 049116 | श्री करमरकर नितिन सुधाकर 22/11/2002<br>एसीए<br>ई-7, हाईवे रेजीडेंसी, बड़ागांव (बी),<br>पूने-411041   | 105. | 075664 | श्री राजमल नाहर, एफसीए 06/11/2001<br>ए 403 सोनी पार्क 1, चीकूवाडी, सिम्रपोली<br>विलेज, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई-400092                                     |
| 94.  | 049305 | श्री दिनेश्वर सन्दीप गणेश, एसीए 11/09/2002<br>ए-1, भास्कर कोपरेटिव सोसायटी, मुरलीधर<br>लेन, तिलक चौक, कल्याण-421301  | 106. | 077028 | श्री शेखर भण्डारी, एसीए 30/03/2002<br>सी/ओ डॉ. विनोद सी. मेहता, नवीन चन्द्र<br>बिल्डिंग, 78 विट्ठल वाडी, कालबादेवी रोड,<br>मुम्बई-400002                   |
| 95.  | 049447 | श्रीमति पूनम सुनील बाजपेयी 21/12/2001<br>एसीए<br>ए-9/101 लोकनगरी, एमआईडीसी रोड,<br>अम्बरनाथ (पूर्व), थाने-421506   | 107. | 077072 | श्रीमति सुनिता जैन, एसीए 01/04/2002<br>फ्लेट नं. 402, मंगलपुरी कोपरेटिव हाउसिंग<br>सोसायटी लिमिटेड, आनन्द महल रोड, वीर<br>अर्जुन मार्ग, अदाजन, सूरत-395009 |
| 96.  | 049542 | श्री तोशनीवाल रमेश चन्द्र, एसीए 09/07/2002<br>ए/303 आदेश्वर कृपा, शान्ति पार्क, मीरा रोड<br>(पूर्व), मीरा रोड-401107   | 108. | 079366 | श्री बंसल राकेश, एसीए 01/04/2002<br>भारती सेलुलर लिमिटेड, भारती हाउस, निकट<br>इंकम टेक्स ऑफिस, आश्रम रोड,<br>अहमदाबाद-380009                               |
| 97.  | 049808 | मिस मनीषा गौतम पन्सारे, एसीए 01/01/2003<br>917/19 बी, एफ. सी. रोड, निकट ब्रिटिश<br>हाइब्रेरी, पूने-411004  | 109. | 079668 | श्री मंगल मुकेश, एसीए 19/03/2003<br>सी/ओ मि. पी. एम. मंगल, 49 ए मंगल कुंज,<br>श्रीराम मार्ग पाल रोड, जोधपुर-0  |
| 98.  | 049830 | श्री ठक्कर योगेश जयन्तीलाल 12/08/2002<br>एसीए<br>सोहनी एसडी/एस 102, पी. एन. 156 खरे<br>टाउन, नागपुर-440022   | 110. | 100017 | श्री दवे समीर जितेन्द्र, एसीए 07/03/2003<br>ए/6 केसरबन सोसायटी, 4 रोड, टी. पी. एस. 3,<br>सान्ताक्रूज (पूर्व), मुम्बई-400055                                |
| 99.  | 056484 | मिस सिन्हा चैताली, एसीए 01/04/2002<br>फ्लेट नं. 702, विल्लोमोना, 62-बी पाली हिल<br>रोड, बान्द्रा, मुम्बई-400050  | 111. | 100626 | श्री पाण्डया जिगनेश घनश्याम 14/02/2003<br>एसीए<br>ए-24 मिरानी नगर, गणेश गावदे रोड, मुलुंद<br>(पश्चिम), मुम्बई-400080                                       |
| 100. | 058217 | श्री बापना संजीव, एसीए 30/04/2002<br>सी/ओ कानू सिवा ट्रेडिंग डब्ल्यू एल. एल., पी.<br>ओ. बॉक्स नं. 54771, जे. सी. पेनी कलेक्शन,<br>सीफ माल, बाहरेन-0  | 112. | 100745 | मिस मीना बालकृष्ण सालंखे 01/11/2001<br>एसीए<br>145/4940, शरायू तीर्थ नेहरू नगर कुरला पूर्व<br>मुंबई-400024   |
| 101. | 060211 | श्री बहेती पंकज, एसीए 30/03/2003<br>सी/ओ आर. आर. महेश्वरी, बी-405/406<br>बलारिना, लोखण्डवाला कॉम्पलेक्स, क्रोस रोड<br>नं. 3, निकट हाई पोइन्ट रेस्टोरेन्ट, अन्धेरी<br>(पश्चिम), मुम्बई-400053 | 113. | 100983 | श्री भास्कराज राजेश कुमार 21/03/2003<br>दिलीप कुमार, एसीए<br>सी-9 कमला अपार्टमेंट्स शरियास क्रोसिंग के<br>पास अंबावदी अहमदाबाद-380015                      |
|      |        |  | 114. | 101060 | श्री योगेश संतोष पटकी, एसीए 21/03/2003<br>8 पूर्ति सेनापति बपत मार्ग माटुंगा मुंबई-400016  |

कल्याण-0  
404 विदर्भा देवग, कल्याण, (पुणे)  
"श्री गुरांग, पुणे  
-400023  
कल्याण नं. 5, चौक  
देवग, पुणे  
107/2001

115. 101294 मिस गिरा कानूभाई गाँधी, एसीए 01/04/2002  
फ्लेट नंबर 11 सप्तश्रृंग, 7, प्रतापगंज,  
वडोदरा-390002
116. 101691 श्री सामंत नितिन श्यामसुंदर, एसीए 31/03/2002  
403, बी/2, रूतुपार्क, वृंदावन बस स्टॉप के पास  
मसिवदा, थाने पश्चिम, थाने-400601
117. 101788 मिस तृप्ति भविन शाह, एसीए 01/04/2002  
विसामो, जैन उपसर्ग के पास, लाल बाग के  
पास चौदी बाजार जामनगर-361001
118. 102217 श्री देसाई राजेश बाबूराव, एसीए 31/03/2002  
5/503, बी विंग सपरेम केमिकल्स लिमिटेड श्री  
लक्ष्मी पार्क फेस 1 लोकमान्या नगर नंबर 2  
थाने-400606
119. 102394 श्री त्रिवेदी नमित समीरभाई, एसीए 25/11/2002  
एवरशाइन मिलेनियम पेराडाईज़ ऐम्पोरियम  
01/201 मर्करी ठाकुर विलेज कांदिवली पूर्व  
मुंबई-400101
120. 102409 मिस पारेख चारु संजय, एसीए 31/03/2002  
7, मयूर पंख, एन.एस.  
रोड, मलंद-पश्चिम, मुंबई-400080
121. 102684 श्रीमति समिधा समीर पंडित 14/02/2002  
एसीए  
9आईएम, रूम नंबर 17, दूसरी मंजिल  
कोलिवदी फनसवादी सीताराम पोटदर मार्ग  
मुंबई-400002
122. 103083 मिस मूलचंदानी अनिता अर्जुन 19/03/2003  
एसीए  
63, जुहू गौरव, गुलमोहर क्रॉस रोड नंबर 11,  
जेवीपीडी स्कीम, मुंबई-400049
123. 103096 श्री अरोड़ा नरेन्द्र लक्ष्मण, एसीए 01/04/2001  
1, अंजुरकर हाऊस, धोबी अली थाने-400601
124. 103423 श्री तालेकर स्वापनिल श्रीकांत 05/12/2002  
एसीए  
32, 'सौरभ' बिल्डिंग, तीसरी मंजिल हरगोविंददास  
सेनितोरियम लेन अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व  
मुंबई-400069
125. 103472 श्री सपरे केदार विठ्ठल, एसीए 01/04/2002  
फ्लेट नंबर ए.एफ6 अन्नपूर्णा अपार्टमेंट्स  
गोमंतक प्रेस के पास, एसटी.आई.एनईजेड  
पणजी गोआ-403001
126. 103481 मिस शाह नेहल कीर्ति कुमार 09/10/2002  
एसीए  
बी/11, विमल अपार्टमेंट्स, जुहू लेन,  
अंधेरी-पश्चिम, मुंबई-400058
127. 103528 श्री नागोरी प्रदीप रूपलाल 20/03/2003  
एसीए  
353, शनिवार पेठ सतारा-415002
128. 103539 श्री जोशी महेश माधव, एसीए 01/04/2002  
9, न्यू सावित्री निवास भिमानी स्ट्रीट मादुंगा  
(सी.आर.) मुंबई-400019
129. 103540 मिस दिवाकर गौरी रमेश, एसीए 01/04/2002  
अमृत कुंभ सोसाइटी चित्रा ए-4, भवानी शंकर  
रोड, दादर मुंबई-400028
130. 103612 मिस मोहिले शुभादा मधुकर 17/09/2002  
एसीए  
303, दफ्फोदी 2ए लोखंडवाला कोम्प्लेक्स  
अकरूली रोड, कांदिवली पूर्व मुंबई-400101
131. 103915 श्री अजय शशिकांत अगासे 01/04/2002  
एसीए  
बी-5, रघुवीर सोसाइटी तिलक नगर  
थाने-400603
132. 104122 श्री अग्रवाल विकास पुरुषोत्तम 16/09/2002  
24 कार्नेक साइडिंग रोड सक्कर गली आएन  
मार्केट मुंबई-400009
133. 104617 श्री राजेश आर महेशचरी, एसीए 01/04/2002  
एन8/13, गणपति निवास बंगर नगर गौरेगाँव  
पश्चिम मुंबई-400090
134. 105085 श्री संजय पुखराज जैन, एसीए 07/09/2001  
302, शिवनेरी, खादिसकर रोड मुंबई-400004
135. 105113 श्री राहुल सुभाष बहेटी, एसीए 30/12/2002  
858, कस्बा पेट पुणे-411011
136. 105148 श्री रंजन बालकृष्ण प्रभु, एसीए 01/04/2002  
बी-701 मंगल मूर्ति लिबर्टी गार्डन रोड नंबर 1  
मलद पश्चिम मुंबई-400064
137. 105241 श्री दीपक बाबूलाल भवसार 28/05/2002  
एसीए  
26 तुलसी विहार सोसाइटी खानपुर के पास  
अहमदाबाद-380001
138. 105482 श्री चेतन विष्णु अग्रवाल, एसीए 11/10/2002  
सी-207 अनुभव को-ओपरेटिव एचएसजी  
सोसाइटी लिमिटेड राजा इंडस्ट्रियल ऐस्टेट के  
सामने पी के रोड ऐक्सटेंशन सर्वोदय नगर मलंद  
पश्चिम मुंबई-400080
139. 105552 मिस सैलाता गोपालन, एसीए 31/03/2002  
ए-604 कृष्णा टॉवर्स जय नगर लिंक रोड ऑफ  
सी.एस रोड 2 दहीसार पूर्व मुंबई-400068
140. 105588 श्री जयदेव रमेश शुक्ला, एसीए 14/08/2001  
फ्लोट नंबर 13 रविका, गुलमोहर रोड जे.वी.पी.  
डी. स्कीम मुंबई-400049
141. 105732 श्री गिरीश कुमार राधेश्याम दारक 27/03/2002  
एसीए  
रिलायंस इनफोरकोम लिमिटेड एमसीएन केएच  
नंबर 156 158, कृषि उपज मंडी के सामने  
दीनदयाल उपाध्याय वार्ड माधो ताज मनमोहन  
नगर जबलपुर

142. 105736 श्री शर्मा प्रमोद, एसीए 18/09/2002  
सी/ओ दिनेश हिसारिया रोड लैंड, होली क्रोस  
रोड आई.सी. कॉलोनी बॉरीवली पश्चिम  
मुंबई-400103
143. 106080 श्री मंदर सुरेन्द्र पटनकर, एसीए 18/02/2003  
बी-52 इंद्रावती कोम्प्लेक्स जे.के. सावंत मार्ग  
दादर पश्चिम मुंबई-400028
144. 106100 श्री नरेंद्र सुरेश जोशी, एसीए 02/09/2002  
बी-8/003 अशोकवन बॉरीवली पूर्व  
मुंबई-400066
145. 106106 श्री रजनी सुरेश नेकुमल, एसीए 15/02/2003  
सी 7/37 लॉरेस रोड केशवपुरम नई  
दिल्ली-110035
146. 106166 श्री शेलेश अनंत महेदले, एसीए 31/05/2001  
17/385, विजय नगर सोसाइटी एस.एन.रोड  
अंधेरी पूर्व मुंबई-400069
147. 106256 श्री नीलम सांताराम सावंत 25/02/2003  
एसीए  
16 क्रांतिवीर वीर राजगुरु मार्ग गिरगाँव  
मुंबई-400004
148. 106349 श्री मधुर रमेश गुन्डेचा, एसीए 01/04/2002  
2 मेचदूद 80, केनल रोड, रामदास पीठ,  
नागपुर-440010
149. 106380 श्री मनीष अनन्तराय जोशी, एसीए 17/01/2003  
13/102, आनन्द नगर, नेहरू रोड, सान्ताक्रूज  
(पूर्व), मुंबई-400055
150. 106476 श्री धर्मेरा कुमार विनोदचन्द्र कपाडिया 01/04/2002  
एसीए  
1/5 लेम्बी ड्राइव, मानीकुंज ऑकलैंड-1702,  
न्यूजीलैंड-0, यूएसए
151. 106523 श्री कौशिक सुरेश गगलानी 11/09/2002  
एसीए  
20/3 यमुना सोसायटी, आजाद रोड, अन्धेरी  
(पूर्व), मुंबई-400069
152. 106602 श्री देवांग सुशील कुमार दोशी 24/12/2002  
एसीए  
4/7 भाटूरछाया निवास, गोखले रोड, विले  
पारले (पूर्व), मुंबई-400057
153. 106696 श्री संतोष कुमार, एसीए 05/07/2002  
सी/ओ एम/एस जे. सी फेब्रीक्स, करसन दास  
मूलजी बिल्डिंग, शोप नं. 13, दूसरी मंजिल,  
पहली क्रोस लेन, ए-1, ओल्ड हनुमान,  
कलबादेवी रोड, मुंबई-400002
154. 107106 श्री सिंह मनोज, एसीए 23/10/2002  
टाइप 3बी, 470 एच ए एल टाउनशिप ओझर,  
नासिक-422207
155. 107261 श्री धर्मेरा पुरुषोत्तमभाई पटेल 28/02/2002  
एसीए  
एम-262/3139 सुन्दरवन अपार्टमेंट, सोला  
रोड, नरनपुर, अहमदाबाद-380061
156. 107373 श्रीमति दीपाली श्रीदत्त पेण्डेकर 01/04/2002  
एसीए  
ए-10, जी. एच. कुलकर्णी कोम्प्लेक्स, निकट  
सहावर चौक, निकट विठ्ठल मंदिर, कारवे नगर,  
मुंबई-400052
157. 107434 श्री खानचन्दानी कमलेश, एसीए 27/01/2003  
706, सिन्धी कालोनी, सेकण्ड फ्लोर, कटरक  
रोड, वडाला, मुंबई-400031
158. 107460 श्रीमति बरनाली स्वपनिल तालेकर 05/12/2002  
एसीए  
704 योगायोग, 7वीं मंजिल, परांजपे नगर, ऑफ  
एल. टी. रोड, बोरीवली (पश्चिम),  
मुंबई-400092
159. 107589 श्रीमति दीपाली आनन्द अफाले 12/03/2003  
एसीए  
2, गुरुकृपा, बाबरेकर मार्ग, गोखले रोड-एन,  
दादर, मुंबई-400028
160. 107793 श्री हितेश रविन्द्र त्रिपाठी, एसीए 29/04/2002  
सी/40/104 सेक्टर 10, श्री पूजा शान्तिनगर  
चेम्बर्स लिमिटेड, शान्ति नगर, डिस्ट्रीक थाने,  
मीरा रोड (पूर्व), मीरा रोड-401107
161. 107974 श्री प्रसन्ना प्रशाम फदनीस, एसीए 17/03/2003  
डी/4 शीतल सी. एच. एस. लिमि., निकट के.  
जी. हाई स्कूल, अगाशी विहार (पश्चिम), ताल  
वसई-अगाशी, वसई-401301
162. 108137 मिस अश्विन मेघना मुरारी 02/09/2002  
एसीए  
सी/ओ एम. एस. बेमावा, फ्लेट नं. जी/2  
उज्जवल नगर, एस. टी. स्टैंड के सामने,  
अहमदनगर-414001
163. 108195 श्री अश्विन बालकृष्ण पिल्लई 16/08/2002  
एसीए  
कारपोरेशन बैंक, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट  
डिविजन, पी. बी. नं. 88 मंगलदेवी टेम्पल रोड,  
मैंगोलोर-575001
164. 108341 श्री केदार वी. बदे, एसीए 29/04/2002  
8 सभाकुंज नं. 4, ब्राह्मण सभा रोड, मलाड  
(पश्चिम), मुंबई-400064
165. 108492 श्री नीरज ओंकारनाथ खंडेलवाल 23/08/2002  
एसीए  
15/53 त्रिवेणी कोपोरेटिव हाउसिंग सोसायटी,  
आदर्श नगर, कामत क्लब के सामने, न्यू लिंक  
रोड, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई-400102

166. 108494 श्री नितीन किसानमल मेहता 18/06/2002  
एसीए  
6 प्रेमचन हाउस, हाई कोर्ट वे, आश्रम रोड,  
अहमदाबाद-380009
167. 108637 मिस अमीरा प्रवीणचन्द शाह 31/03/2002  
एसीए  
202 देवांगन अपार्टमेंट्स, नबरद विहार बिल्डिंग  
के सामने, 58 सरदार पटेल नगर, एलिसब्रिज,  
नवरंग पुरा, अहमदाबाद-380006
168. 108751 श्री सचिन अशोक कुमार मेहता 19/06/2002  
एसीए  
12 हेम स्मृति, एलआईसी कालोनी, डॉ. आर.  
पी. रोड, मुलंद (पश्चिम), मुम्बई-400080
169. 108968 श्री मरतुजा शम्मीर मास्टर, एसीए 27/09/2002  
6 मोहम्मदी मंजिल, सैफी सोसायटी, सरसपुरी,  
अहमदाबाद-380018
170. 109148 श्री प्रत्यूष शशिकुमार लोहाकरे 10/02/2003  
एसीए  
प्लॉट नं. 141, भू साहेब करवे नगर, रिंग रोड,  
नागपुर-440022
171. 109175 श्री रमन अय्यास्वामी अय्यर 05/06/2002  
एसीए  
3 श्री अपार्टमेंट, निकट बैंक ऑफ महाराष्ट्र,  
ठाकुरली (पूर्व), डोम्बीवली-421201
172. 109201 मिस किंजल मनोज शाह, एसीए 31/03/2002  
121 विद्या अपार्टमेंट, चौपाटी, बैंडस्टैंड,  
मुम्बई-400006
173. 109239 श्री हेमन्त सिंघवी, एसीए 30/06/2002  
39, चन्द्र महल, ठाकुर द्वार सिग्नल, चरनी रोड,  
मुम्बई-400002
174. 109320 श्री उदया शेटी के, एसीए 21/05/2002  
रूम नं. 4, भैर कालोनी, संगम हाउसिंग सोसायटी,  
चिंचवाड, पुणे-411033
175. 109426 श्री हरिश कुमार जयंती लाल शाह 16/08/2002  
एसीए  
सी/503 गुलमोहर, पूनम कोम्प्लेक्स,  
90 फुट रोड, ठाकुर कोम्प्लेक्स, कान्दीवली  
(पूर्व), मुम्बई-400101
176. 109503 श्री अश्विन सोमा सुवर्णा, एसीए 01/11/2002  
15/12 कलिका निवास, दूसरी मंजिल, जे. बी.  
नगर, अन्वरी (पूर्व), मुम्बई-400059
177. 109523 श्री काशिक याहा हुसैन, एसीए 28/06/2002  
सुलेमन बिल्डिंग, पहली मंजिल, बदर बाग,  
ग्रान्ट रोड, मुम्बई-400007
178. 109606 श्री भरत कुमार, एसीए 20/09/2002  
मनसुखलाल जिंजुवाडिया, 237, सेक्टर 1,  
निर्जय नगर, अहमदाबाद-382481
179. 109737 श्री राजेश कान्हीलाल ककरिया 01/04/2002  
एसीए  
10 ए पहिलाज कुंज, भूतल, लोहर अली,  
क्रिकेट लक्ष्मी बुक डिपो, थाने (पश्चिम),  
थाने-400601
180. 109800 श्री कविश ईश्वरप्रसाद शर्मा 31/03/2002  
एफसीए  
44 बाबुलनाथ चौल, चौपाटी, मुम्बई-400007
181. 109810 मिस वैशाली विनायक महाजन 07/03/2003  
16/2, संत कृपा, महारें नगर, ऑफ राजाजी  
पथ, डोम्बीवली (पूर्व), थाने-421201
182. 109940 श्री मौनिक मनहरभाई रावल 20/01/2003  
एसीए  
ए-68 श्रीनाथधाम डूपलेक्स, बी/एच दिनेश मिल्स,  
वडोदरा-390007
183. 109977 श्री मन्वीराम ई, एसीए 01/04/2002  
रूम नं. 17 मंगतराम कालोनी, जीकेडब्ल्यू  
स्टाफ क्वार्टर के सामने, एल. बी. एस. मार्ग,  
बन्दूप (पश्चिम), मुम्बई-400087
184. 110079 श्री अली अस्गर मोहम्मद रजा श्रोफ 31/03/2002  
एसीए  
सी/ओ अल-हसन कम्पेनिस ग्रुप, पी. ओ.  
बॉक्स 1948, रूवी, मस्कट-112, ओमान
185. 110148 सुप्रियो सुशिल कुमार घोष 20/08/2002  
एसीए  
बी/19 त्रिभुक्ति बिल्डिंग, 3 क्वार्टर रोड, पोस्ट  
आफिस के सामने, बोरीवली (पूर्व),  
मुम्बई-400066
186. 110196 श्री राहुल ताम्बी, एसीए 10/03/2002  
102 गोपिवल्लभ एवेन्यू, टाइम्स ऑफ इंडिया  
रोड, सेटेलाइट वैजलपुर, अहमदाबाद-380015
187. 110297 श्री मौलिक कालूभाई तेजानी 29/05/2002  
एसीए  
301 गुरुकृपा फ्लेट्स, बी/एच सेन्ट्रल बैंक ऑफ  
इंडिया, भूदेरपुरा ब्रांच, मानक विहार,  
अहमदाबाद-380015
188. 110382 श्री अनिरुद्ध बालचन्द्र कुलकर्णी 26/04/2002  
एसीए  
प्लॉट नं. 50, बिल्डिंग नं. 4, रूनवाल पार्क,  
मार्केट यार्ड, पुणे-411037
189. 110601 श्री अरुनवा चक्रवर्ती, एसीए 04/05/2002  
60ए/1 नरेन्द्र नगर, पी.ओ. बेल्लारिया,  
कोलकाता - 700056
190. 110942 श्री महदेव गणेश छिताले, एसीए 31/05/2002  
निकट किशनेश्वर मन्दिर, जोशी आली, पण  
चिपलन, जिला-रत्नागिरी, चिपलन - 415605

191.	110989	श्री अब्बासी नोमानभाई रंगवाला एसीए डी/8, आठवी मंजिल, फिरदौस फ्लेट्स, खानपुर, अहमदाबाद - 380 001	06/02/2003	205.	112240	श्री कुलदीप विलास जाधव, एसीए 10/12/2002 डोस बिल्डिंग, सी ब्लॉक आर नं० 52-53/3 डोंगरी डा० मिशरी रोड, डोंगरी, मुम्बई- 400009
192.	111138	श्री विक्रम मागो, एसीए नोरथर्न्ड, 7, एम एल दहानकुकर मार्ग, मुम्बई - 400026	09/08/2002	206.	112521	श्री प्रशान्त कानू पंगम, एसीए 31/12/2002 39/2857 एम एच बी कालोनी, अभयुद्धा नगर, कॉटन ग्रीन (पश्चिम), मुम्बई - 400033
193.	111142	श्री अर्पित भगवतीप्रसाद पटेल एसीए 275, प्रेमचन्द नगर, जजीस बंगलो रोड, बोडकदेव अहमदाबाद - 380015	31/03/2002	207.	112576	श्री चिरन्जीव अब्मेरा, एसीए 27/02/2003 बी 234, संजय कालोनी, भिलवाड़ा - 311001
194.	111333	श्री सिद्धार्थ रमनकुमार ग्रोवर एसीए फ्लेट नं० 1, प्रेमपैलेस, प्लॉट नं० 129130, वस्तु उद्योग, पिम्परी, पुणे - 411018	15/02/2003	208.	112639	श्री आशिष अर्जुन कुमार राठी एसीए आई-5, शिवानी अपार्टमेन्ट्स, निकट आजाद सोसायटी, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद - 380015
195.	111339	श्री विवेक आनन्द हेब्बर, एसीए एक्मोर्ट इम्पोर्ट ऑफ इण्डिया, रामानाश्री आर्केड, चतुर्थ मंजिल, 18 एम जी रोड, बेंगलोर-560001	24/06/2002	209.	113066	श्री राम मधुकर भगत, एसीए 08/02/2003 सी/ओ. श्री संजय एम जोशी, बी-4-8 हिल व्यू हॉउसेस, सिद्धिविनायक नगरी, अप्पूधर निगदी के पीछे, पुणे- 411044
196.	111444	मिस मिरिनल मनोहर जोशी एसीए 24 श्री स्वामी समर्थ मुकुंद कूप, एवएसजी एसओओएन-2 डी 7 किडको, ओरंगाबाद-431210	25/02/2003	210.	113223	मिस दीप्ती जयन्त, एसीए 24/12/2002 ईभाई गोंधी, टी/30 शान्तीनगर सोसायटी, उसमानपुरा, अहमदाबाद - 380013
197.	111471	श्री हेमन्त अशोक पंचाकशरी एसीए 12 वर्षाजली अपार्टमेन्ट्स, गंगानगर रोड, पम्पिंग स्टॉप, नासिक - 422013	29/01/2003	211.	113341	श्री आनन्द शरद लक्ष्मेश्वर एसीए बी-1/101 जम्बू दर्शन, कोलडोंगरी दर्शन, कोलडोंगरी रोड नं० 2, अन्धेरी (पूर्व) मुम्बई- 400069
198.	111607	श्री वैभव विष्णुदास टोटला, एसीए आर-2/7 सुन्दर नगर, एस.वी. रोड, मलाड (डब्ल्यू) मुम्बई - 400064	11/08/2002	212.	113368	मिस आरती सुभाष पार्श्वानी, एसीए 03/12/2002 118, नाना पेठ, निकट अशोक चॉल, पुणे-411002
199.	111687	श्री पथिक चन्द्रकान्त शाह, एसीए 404 महावीर अपार्टमेन्ट्स, निकट: रचना अस्पताल जे एन बी हाई स्कूल रोड, सुरेन्द्रनगर - 363001	16/09/2002	213.	200369	श्री विश्वनाथन बी, एसीए 24/03/2003 फ्लेट नं० ए-3, अनुपा का-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी, देवी चौक, शास्त्री नगर, डोम्बोवली (पश्चिम), डोम्बोवली - 421202
200.	111700	श्री नितिन मनोहर जुमानी, एसीए बी-1, 15/16, कुबेर गार्डन, एन.आई.बी.एम रोड कोन्दवा (खुर्द), पुणे - 411048	31/10/2002	214.	202812	मिस बी सुमथि, एसीए 19/09/2002 सी/ओ. एन बी पन्त, बी4/19 सिद्धेश्वर नगर, टिंगरे नगर रोड, विशरान्त वाड़ी, पुणे - 411015
201.	111865	श्री थॉमस जोसे पल्लीथनम, एसीए 105 बी चॉइस आर्केड, रूबी हॉल अस्पताल के सामने, डोले पाटिल रोड, पुणे- 411001	07/02/2003			
202.	112028	श्री नरेन्द्र कुमार जागीर, एसीए सी/ओ. डी.आर. मेहता, एच-2, एक्वेस्ट बिल्डिंग नोर्बी मंजिल, टारडियो रोड, मुम्बई - 400034	26/08/2002			
203.	112029	श्रीमति टोरल मितेश गोंधी, एसीए 6/34 वर्मा नगर, ओल्ड नगरदास रोड, अन्धेरी पूर्व, मुम्बई - 400069	20/01/2003			
204.	112045	श्री जॉन जॉर्ज, एसीए 302 हिन्द राजस्थान शॉपिंग सेन्टर, सॉयन अस्पताल के निकट, सॉयन, मुम्बई - 400022	06/09/2002			

डा० अशोक हरिदया  
(सचिव)

**स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़।**

ज्ञापन सं. 8(1)/इ 3/पी.जी.आई./2003/1877-- /2003/1877

चण्डीगढ़, दिनांक 06 जून 2003

सा.का.नि. - स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 (1966 का 51) की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ विनियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ (संशोधन) विनियम, 2003 है।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ विनियम, 1967 की अनुसूची 1 में, क्रम सं. 4 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :-

क्रम सं.	शक्ति की प्रकृति	शक्तियों का विस्तार				
		निदेशक	सभापति	शासी निकाय	संस्थान निकाय	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
4	भवनों तथा छोटे-मोटे संकर्मों का अनुरक्षण					
(क)	मूल संकर्म और विशेष मरम्मतें	बिना किसी वार्षिक सीमा के प्रत्येक मामले में रु. 50 लाख तक	प्रत्येक मामले में रु. 1 करोड़ तक	संपूर्ण शक्तियां	-	-
(ख)	साधारण मरम्मतें	संपूर्ण शक्तियां	-	-	-	-
(ग)	वार्षिक मरम्मतें	संपूर्ण शक्तियां	-	-	-	-

संस्थान के प्राधिकारी द्वारा

ए.एस.के. शर्मा

(एस.के. शर्मा)

निदेशक

## छावनी बोर्ड

कण्णूर-670017, दिनांक 18 फरवरी 2003

## उपविधियां

सं. 9. III/भवन आवेदन फीस/2003---छावनी बोर्ड, छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 282 की खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कण्णूर छावनी में भवन नक्शा अनुमोदनार्थ आवेदन फीस और अनुमति फीस उगाही करने के लिए उपविधियां बनाने का प्रस्ताव रखा है।

और जबकि छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 284 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार तारीख 14 जनवरी 2003 को एक लोक-सूचना से.-III/भवन/आवेदन फीस/2000 प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भवन योजना अनुमोदनार्थ भवन फीस और अनुमति फीस अधिरोपित करने के बोर्ड के प्रस्ताव के संबंध में आक्षेप और सुझाव मांगे गए।

और लोक-सूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अतः अब कण्णूर छावनी बोर्ड, छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 282 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी और पुष्टि से कण्णूर छावनी में भवन योजना अनुमोदनार्थ उपविधियों में विनिर्दिष्ट दरों पर आवेदन फीस और अनुमति फीस के अधिरोपण को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित उप-विधियां बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-- (1) इन उप-विधियों का संक्षिप्त नाम कण्णूर छावनी (भवन योजना अनुमोदनार्थ आवेदन फीस और अनुमति फीस की वसूली और उगाही का विनियम) उपविधियां, 2002।

2. परिभाषाएं :--इन उपविधियों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित न हो,

(क) "बोर्ड" से अभिप्राय है--कण्णूर छावनी बोर्ड।

(ख) "कार्यपालक अधिकारी" से अभिप्राय है छावनी कार्यपालक अधिकारी, कण्णूर।

(ग) "अधिनियम" से अभिप्राय है छावनी अधिनियम 1924।

(घ) "भवन योजना" से अभिप्राय है भवन निर्माण या भवन पुनर्निर्माण की सूचनार्थ तैयार की गई योजना।

3. फीस की मात्रा :--

छावनी क्षेत्र में आवेदन फीस की दरें :--

क्रम सं.	विषय	फीस
1	2	3
1.	50 वर्गमीटर तक की क्षेत्रफल वाली झोपड़ी	कुछ नहीं
	50 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली झोपड़ी	5 रु.
2.	बाड़ा या दीवार का घेरा, फाटक या जंगला सहित	15 रु.

1	2	3
3.	अतिरिक्त भवन	15 रु.
4.	परिवर्तन या किवाड़ का संस्थापन	15 रु.
5.	कुँआ	30 रु.
6.	50 वर्गमीटर तक का भवन क्षेत्रफल	15 रु.
7.	50 वर्गमीटर से अधिक का भवन क्षेत्रफल और 100 वर्गमीटर तक और सहित	30 रु.
8.	100 वर्गमीटर से अधिक का भवन क्षेत्रफल और 150 वर्गमीटर तक और सहित	75 रु.
9.	150 वर्गमीटर से अधिक का भवन क्षेत्रफल और 200 वर्ग मीटर तक और सहित	100 रु.
10.	200 वर्गमीटर से अधिक का भवन क्षेत्रफल और 300 वर्ग मीटर तक और सहित	175 रु.
11.	300 वर्ग मीटर से अधिक का भवन क्षेत्रफल और 500 वर्गमीटर तक और सहित	300 रु.
12.	500 वर्गमीटर से अधिक का भवन क्षेत्रफल और 1000 वर्गमीटर तक और सहित	300 रु. वृद्धि 30 रु. प्रति 50 वर्गमीटर के लिए जो कि 500 वर्ग मीटर से अधिक है।
13.	1000 वर्गमीटर से अधिक का भवन क्षेत्रफल और 5000 वर्गमीटर तक और सहित	जैसा कि क्रम संख्या 12 में दिया गया। वृद्धि 75/- रु. प्रति वर्गमीटर के लिए जो कि 1000 वर्गमीटर से अधिक है।
14.	5000 वर्गमीटर से अधिक का भवन क्षेत्रफल	जैसा कि क्रम सं. 13 में दिया गया है वृद्धि 150/- रु. प्रति 50 वर्गमीटर के लिए जो कि 5000 वर्गमीटर से अधिक है।

## II. अनुमति फीस:--

यह फीस उगाही छावनी क्षेत्र में स्थित भवनों को अनुमति प्रदान करने के लिए है:--



क्रम सं.	विषय	फीस	1	2	3
1	2	3			
1.	छप्पर बंद या टाइल्ड भवन	0.50 रु. प्रति वर्ग मीटर	5.	झोंपड़ी	8.00 रु. प्रति वर्गमीटर
2.	100 वर्गमीटर तक का कंक्रीट एक मंजिला भवन	1.00 रु. प्रति वर्ग मीटर	6.	योजनात्मक भवन	4.00 रु. प्रति वर्गमीटर
3.	100 वर्गमीटर से अधिक भवन क्षेत्रफल लेकिन 150 वर्गमीटर (कितनी भी मंजिलों वाली) से अधिक नहीं:--		7.	अतिरिक्त भवन	15.00 रु. प्रति वर्गमीटर
(i)	तहखाना या निचली मंजिल	1.50 रु. प्रति वर्गमीटर	8.	कुँआ	75.00 रु. प्रति इकाई
(ii)	पहली मंजिल	2.00 रु. प्रति वर्गमीटर	9.	गुसलखाना, शौचालय	80.00 रु. प्रति इकाई
(iii)	दूसरी मंजिल और ऊपर	3.00 रु. प्रति वर्गमीटर	10.	परिवर्तन या किवाड़ का संस्थापन	150.00 रु. प्रति इकाई
4.	150 वर्गमीटर से अधिक भवन क्षेत्रफल (कितनी भी मंजिलों वाली):--		11.	बाड़ा या दीवार का घेरा, फाटक या जंगला सहित	1.00 रु. प्रति मीटर लम्बाई
(i)	तहखाना या निचली मंजिल	6.00 रु. प्रति वर्गमीटर	12.	छत का परिवर्तन	30.00 रु. प्रति वर्गमीटर
(ii)	पहली मंजिल	8.00 रु. प्रति वर्गमीटर			
(iii)	दूसरी मंजिल	12.00 रु. प्रति वर्गमीटर			
(iv)	तीसरी मंजिल और छठी मंजिल तक या सहित	40.00 रु. प्रति वर्गमीटर			
(v)	छठी मंजिल से ऊपर	75.00 रु. प्रति वर्गमीटर			

प्राधिकार:--भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, महानिदेशक, रक्षा संपदा, नई दिल्ली पत्र संख्या 12/2/सी/डी.ई./2001 दिनांक 11 दिसम्बर 2002।

ए. आर. कुरेशी  
छावनी कार्यपालक अधिकारी कण्णूर

RESERVE BANK OF INDIA  
CENTRAL OFFICE  
URBAN BANKS DEPARTMENT

Mumbai-400 018, the 18th June 2003

CO. BP. 794/16.43.06/2002-2003

In pursuance of Sub-Section (2) of Section 36A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that The Lunawada and Khanpur Taluka Prathmik School Teachers' Co-operative Credit Society Ltd., Lunawada, Dist. Panchmahal, Gujarat State has ceased to be a co-operative bank within the meaning of the said Act.

(S. Karuppasamy)  
Chief General Manager-in-Charge

**Union Bank of India  
Central Office  
239, Vidhan Bhavan Marg,  
Mumbai – 400 021**

No. OSR/19

Mumbai, dated the 18<sup>th</sup> June, 2003

In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Union Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend further the Union Bank of India Officers' Service Regulations, 1979 namely :-

**1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT**

- (1) These Regulations may be called Union Bank of India Officers' Service (Amendment) Regulations, 2003.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Bank of India Officers' Service Regulations, 1979 for regulation 38 after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that where an officer leaves or discontinues his services by resignation on or after 1<sup>st</sup> April, 2001 after giving due notice under sub-regulation 2 of Regulation 20, he may be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of the privilege leave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service, subject to maximum of 120 days".


  
**K. L. GOPALAKRISHNA  
GENERAL MANAGER (HRM)**

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 19th June 2003

No. N-15/13/16/3/98-P&D: In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2003 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Haryana Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 19 55 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Haryana namely

"Areas comprising the revenue village - Sarhaul,  
the  
Had Bast No.70, in District of Gurgaon."




(R.C.SHARMA)  
JOINT DIRECTOR (P&D)

New Delhi, the 23rd June 2003

No. N-15/13/8/1/2003-P&D: In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2003 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Madhya Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 19 54 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Madhya Pradesh namely


"Village-Lohar Piplia in the  
District of Dewas."



(R.C.SHARMA)  
JOINT DIRECTOR (P&D)

New Delhi, the 16th June 2003

No. U-16/53/2002/Med.II(Guj.):— In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI(General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No.1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise Dr. I.K. Parmar PTMR PTMR to function as Medical Authority for Jamalpur centre Gujrat for the period of one year from 1.8.2003 to 31.7.2004 for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner(NWZ) Ahmedabad for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

  
(DR.(MRS.)S. SINGH )  
MEDICAL COMMISSIONER.

**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION**  
**HEAD OFFICE - BHAVISHYANIDHI BHAWAN**  
**14- BHIKAIJI CAMA PLACE**

New Delhi, the 24th June 2003

No. Conf. 5(23) 2002/Pondicherry—22739


No. ----- In pursuance of Sub-paragraph(1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employee' Provident Fund Scheme 1952, hereafter referred as "Scheme", the Chairman, Central Board of Trustees, Employees' Provident fund hereby sets up a Regional Committee for the Union Territory Pondicherry consisting of the following persons namely:-

Sl. No.	Name & Designation	Appointed by Chairman of Central Board of Trustees(Employees' Provident Fund)
1	The Secretary to the Government of Pondicherry, Department of Labour, Chief Sectt. Building, Pondicherry.	Chairman [under para 4(1)(a)]
2	Commissioner of Labour, Labour Department Complex, Vazhudavur Road, Gandhi Nagar, Pondicherry-605 009.	<u>Official Members</u> [under para 4(1)(b)]
3	Deputy Secretary (Finance), 'A' Block, IIInd Floor, Chief Secretariat, Pondicherry.	
4	Thiru. George Kutty Abraham, President, Pondicherry Industries Association, No. 6, II Main Road, Ilango Nagar, Pondicherry-11.	Employer's Representatives [Under para 4(1)(c)]
5	Thiru. P. Radhakrishnan, Secretary, Pondicherry Drug Manufacturers Association, No. 58, III Cross Street, Jawahar Nagar, Boomiyampet, Pondicherry-5	
6	Thiru R. Balaraman, Secretary, Indian National Trade Union Congress, 237, Cuddalore Road, Mudaliarpet, Pondicherry-4.	Employees' Representatives [under Para 4(1)(d)]
7	Thiru V.S. Abishegam, General Secretary, Pondicherry State Trade Union Council, 49, Rodier Mill Street, Mudaliarpet, Pondicherry-04	

The Officer in- Charge of the Sub-Regional Office, Pondicherry shall be the Secretary of the Regional Committee.

The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the official Gazette. However, every member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

This will come into force with immediate effect.

  
(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

**BHAKRA BEAS MANAGEMENT BOARD  
19-B MADHYA MARG**

Chandigarh, the 20th June 2003

No. 21984/BBMB/ALO/523(2)—

In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 79 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Bhakra Beas Management Board with the approval of the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Bhakra Beas Management Board No.20500/BBMB/ALO/523(2) dated the 17<sup>th</sup> September, 2002, namely :-

In the said notification after serial number 27 and entries relating thereto, the following Sr. Nos and entries shall be added, namely :

Sr.No.	Name of the Officer	Jurisdiction
28	Chief Engineer, Beas Dam	Cases pertaining to the Beas Dam Administration
29	Deputy Chief Engineer / Superintending Engineer, Pong Dam Circle	Cases pertaining to the Pong Dam Circle Administration
30	Deputy Chief Engineer / Superintending Engineer, Talwara Circle	Cases pertaining to the Talwara Circle Administration
31	Deputy Chief Engineer / Superintending Engineer, Pong Power Houses Circle, Talwara	Cases pertaining to the Pong Power Houses Circle Talwara Administration
32	Deputy Chief Engineer / Superintending Engineer, Dehar Power House Circle, Slapper	Cases pertaining to the Dehar Power Houses Circle Slapper Administration."

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

(ANIL ARORA)  
Secretary

Bhakra Beas Management Board  
Chandigarh

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**16/77 -B, CIVIL LINES,**

Kanpur-208 001, the 10th June 2003

(Chartered Accountants)

3CCA(8) (3)/2002-2003 :-

In pursuance of Regulation 10(1) (iv) read with Regulation 10(2) (b) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from 01 Oct. 2002, as they had not paid their annual fees for Certificate of Practice.

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
1.	008861	Mr. NAND KISHORE 443, HARMUKH PURI, MODI NAGAR, (U.P.) GHAZIABAD - 201201	8.	055872	Mr. BAID VINOD KUMAR AB 64 CHANAKYA MARG, NIRMAN NAGAR, NEAR ROMA NURSING HOME ON JAIPUR AJMER ROAD, JAIPUR-302020
2.	010838	Mr. JAIN PARAS MAL MEHTA CHAMBER, 34 SIYAGANJ, INDORE-452007	9.	056005	Mr. MANDHANA OM PRAKASH 131/5 M.P. NAGAR, ZONE II, BHOPAL- 462011
3.	011704	Mr. MAJUMDAR KALYAN C/o. M/s. U NARAIN & CO. TRINITY COMPLEX 1st FLOOR, No.6 H.B. ROAD, RANCHI-834001	10.	057343	Mr. KOTHARI SASHIKANT FLAT No. 516, CANARA BANK APARTMENTS, E-4 SECTOR 26, NOIDA-201301
4.	045682	Mr. MEHTA CHETAN KUMAR S/o. SH HANUMAN SINGH MEHTA, B-96 PREM NAGAR, ZAWAR MINES, UDAIPUR-313901	11.	058659	Ms. LAHA GHOSH DEBJANI 4 BARA SUPERVISORY FLAT P.O. AGRICO SIDHGORA, DT JHARKHAND, JAMSHEDPUR - 831009
5.	051985	Mr. PODDAR GOBIND RAM #80-41 MARYLAND POINT, 35 AMBER GARDENS, SINGAPORE - 0	12.	070194	Mr. JHALA ANIL JEET J/46 KRISHNA MARG, C SCHEME, JAIPUR - 302001
6.	053506	Mr. JHA ARBIND KUMAR DY FINANCE MANAGER, QTR. C2-27 SECTOR-X, KOYALA NAGAR, DHANBAD-828005	13.	070628	Mr. JAIN MAHENDRA KUMAR 202 ROYAL HOUSE, 9/1 SOUTH TUKOGANJ, INDORE - 452001
7.	055541	Mr. JALAN SANDEEP KUMAR C.K. 13/41, SUKHLAL SAO GATE, CHOWK, VARANASI-221001	14.	070852	Mr. BHARGAVA RAJIV KUMAR S-51, ARVIND MARG, C-SCHEME, JAIPUR - 302001

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
15	071076	Mr. JOSHI AJAY KUMAR CHIEF MANAGER (WORKS ACCOUNTS), J K INDUSTRIES LTD., JAY KAY GRAM, RAJSAMAND, KANKROLI - 313342	24	074770	Mr. AGARWAL MOHIT 632 DEEPU PALACE, THE MALL, KANPUR - 208001
16	071447	Mr. TANDON MUKESH CHANDRA C-20, K ROAD, MAHANAGAR EXTENSION, LUCKNOW - 226006	25	074876	Mr. GUPTA ANIL KUMAR DEVYANI FOODS LTD, 12 KMS DISTANCE STONE, AGRA DELHI HIGHWAY AGRA - 282001
17	072132	Mr. RAJPURWALA MAHESH KUMAR MAHESHAM, MAHAVIR COLONY, AJMER ROAD, KISHANGARH - 305801	26	074878	Mr. GUPTA SNEHANGSHU HORIZON PULP & PAPER, 10 ANIJA ROAD, KEHRA - 74305, ESTONIA
18	072225	Mr. JAIN ASHOK KUMAR A - 84, VIDHIYA NAGAR, JAGATPURA, JAIPUR - 302017	27	075289	Mr. FARSAIYA AKHIL 33/6, SAHJAY PLACE, AGRA - 282002
19	072437	Mr. ANIL KUMAR A - 8 MAHESH MARG, NR POLICE STATION, MODINAGAR - 201204	28	075406	Mr. PHALOD GIRIRAJ D-30 DEV NAGAR, TONK ROAD, IN FRONT OF GLASS FACTORY JAIPUR - 302018
20	072490	Mr. BHANDARI SUSHIL KUMAR 12/18 MALVIYA NAGAR, JAIPUR - 302017	29	076327	Mr. AGARWAL MANOJ KUMAR 26, ARYA NAGAR, SCHEME NO. 1, ALWAR - 301001
21	073080	Mr. BANSAL ALOK 7/108 - A SWAROOP NAGAR, KANPUR - 208002	30	076866	Mr. JAIN SANJAY KUMAR B-34 SHAKTI NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR - 302018
22	073346	Mr. GOKHROO ARUN KUMAR S - 2 MAHAVIR NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR - 302018	31	077038	Mr. JAIN RAJ KUMAR G-4-25, NAND NIKETAN, ESSAR TOWNSHIP, 27 K M HAZIRA SURAT ROAD, GUJRAT, HAZIRA - 394270
23	074109	Mr. KEDIA RAJESH KUMAR S/O SHRI B.L. KEDIA, CENTURY CEMENT, P.O. BAIKUNTH, RAIPUR - 493116	32	077167	Mr. TANEJA SAMIR F & A DEPT., TEHRI HYDRO DEVELOPMENT CORPORATION LTD. GANGA BHAWAN BYE PASS ROAD, UTTRANCHAL, RISHIKESH - 249201



Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
33.	078092	Mr. KASLIWAL VIRENDRA KUMAR B-15 GOVIND DEV COLONY, GANGORI BAZAR, JAIPUR 302001	42.	079686	Mr. MEHTA SANJAY A-462, GROUND FLOOR, BHAGWATI APARTMENT-II VIDYUT NAGAR, AJMER ROAD, JAIPUR - 302017
34.	078328	Mr. BAJAJ RANGNATH 18 BIKANERIYA BAS, PALI MARWAR - 306401	43.	079706	Mr. BETALA ARVIND 11 USHAGANJ, CHHAWWANI INDORE - 452001
35.	078632	Ms. MUHNOT DONI D/O SHRI D M MOHNOT, P N 387 LAXMI NAGAR, POATA B ROAD, JODHPUR - 342010	44.	079754	Ms. GUPTA GOURI 64 CIRCULAR ROAD, RANCHI - 834001
36.	078817	Mr. AGGARWAL NITIN 204, GANPATI TOWER, 1, CENTRAL SPINE, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR - 302012	45.	079927	Mr. GANDHI SACHIN KUMAR 175 VISHNUPURI ANNEX, A B ROAD, INDORE - 452017
37.	078901	Mr. CHOPRA SHRANIK 101, D-42 LAXMI VIHAR APARTMENTS HATHI BABU MARG, BANI PARK, JAIPUR - 302001	46.	082171	Mr. VADEHRA SUNIL A-633 SECTOR 19, NOIDA - 201301
38.	078940	Mr. GUPTA PRAMOD KUMAR C/O RAM VISHAL GUPTA, 333 GOPAL GANJ BEHIND MUNI MANDIR, ORAI JALOUN, ORAI - 285001	47.	089932	Mr. GUPTA RAVI SHANKER M/S DOMINOS PIZZA INDIA LTD., PLOT NO. 1 A SECTOR 16 A, INSTITUTIONAL AREAS, NOIDA - 201301
39.	079059	Mr. JOSHI MITRA SEN A-578 SECTOR 19, NOIDA - 201301	48.	092916	Mr. GUPTA RAJEEV KUMAR 377 VINOBA BASTI, SRIGANGANAGAR - 335001
40.	079296	Mr. AGARWAL KESHAV THE BANK OF RAJASTHAN LTD. F & A DEPTT, C-3, SARDAR PATEL MARG, C-SCHEME, JAIPUR - 334001	49.	094649	Mr. SAHOO AKSHAYA KUMAR ADMINISTRATIVE OFFICER VILL. MANDYANI PACHNAL, HIRRI MINES, CHHATISGARH, BILASPUR-495222
41.	079380	Mr. VISHNOI VIBHOR Y-292-A, SECTOR - 12, NOIDA - 201301	50.	095791	Mr. AGRAWAL ASHISH A-19, SECTOR 27 (U.P.), NOIDA - 201301
			51.	097448	Mr. SUDHANSHU 120-A, SHIPRA SUN CITY, INDIRAPURAM, GHAZIABAD - 201001

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
52.	098775	Mr. BHARGAVA ASEEM ACCOUNTS OFFICER, INDIAN OIL CORPORATION, BARAUNI REFINERY, BARAUNI, BEGUSARAI - 651114	61.	400337	Mr. BHANDARI MADHUR C-115 SAVITRI PATH, BAPUNAGAR, JAIPUR - 302015
53.	099032	Mr. MOON PRAVEEN C-478, SECTOR - 19, U.P., NOIDA - 201301	62.	400364	Ms. MAHESWARI NEETIKA M/S BHARAT MEDICALS, MADHAV NAGAR, FREEGANJ, UJJAIN - 456001
54.	400007	Mr. KHANDELWAL VIKAS 6/144 VIDHYA DHAR NAGAR, JAIPUR - 302012	63.	400542	Mr. SHUKLA YASHVARDHAN 111 A/79 ASHOK NAGAR, KANPUR - 208012
55.	400022	Mr. MISHRA MUKESH C/O BALRAMPUR CHINI MILLS LTD., UNIT : BABHNAN, GONDA - 271001	64.	400617	Mr. JHUNJHUNWALA VIVEK C/O BIJAY JHUNJHUNWALA, KESHO RAI LANE, CHOWK PATNA CITY, PATNA - 800008
56.	400069	Ms. JAIN SHILPA BLESSINGTON HOUSE, KANKE ROAD, RANCHI - 834006			
57.	400095	Mr. JAIN AMIT S B 155 BAPU NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR - 302015			
58.	400147	Mr. SUDRANIA NILESH KUMAR 2255, S HIGHLAND AVE., APT. 102, LOMBARD, IL 60146, LOMBARD, USA			
59.	400226	Mr. TOTLA ASHUTOSH 6/98 SECTOR-6, PLOT-98, VIDYADHAR NAGAR, JAIPUR - 302023			
60.	400270	Mr. SHARMA KAMAL KANT 18 MADRAMPURA, B/H BIBLE CHURCH, AJMER ROAD, JAIPUR - 302006			



(Dr. ASHOK HALDIA)  
SECRETARY

# THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Mumbai-400 005, the 19th June 2003

(Chartered Accountants)

3WCA(5)/2002-2003: With reference to this Institute's Notification Nos. dated, 3NCA(4)/1/2001-2002 dated 21 Nov 2001, 3WCA(4)/1/2000-2001 dated 15 Jan 2001, 3WCA(4)/1/2001-2002 dated 07 Jan 2002, 3WCA(4)/1/2002-2003 dated 10 Feb 2003, 3NCA(4)/1/2001-2002 dated, 21 Nov 2001, 3WCA(4)/1/2000-2001 dated 15 Jan 2001, 3WCA(4)/1/2001-2002 dated 07 Jan 2002, 3WCA(4)/1/2002-2003 dated 10 Feb 2003 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members:-

S.No.	MRN	Name & Address	Restore
1	001706	Mr. KAPUR SURAJ PRAKASH 28A-11, TAKSHILA MAHAKALI CAVES ROAD ANDHERI (EAST) MUMBAI 400093	FCA17/05/2002
2	002794	Mr. BHATNAGAR JAGDISH SWARUP 608, A RAHEJA TOWNSHIP PANCHSHEEL II MALAD EAST MUMBAI 400097	FCA01/04/2002
3	004156	Mr. VENCATESAN P N 324, SAMUDRA MAHAL, DR. ANNIE BESEANT ROAD, MUMBAI 400018	FCA28/06/2002
4	005405	Mr. VANRAJ RAJNIKANT MERCHANT C/O KAILESH R MERCHANT GOKULDAS KHMJI'S BUNGLOW, VASANJI LALJI ROAD, KANDIVALI (WEST) MUMBAI 400067	FCA03/07/2002
5	005558	Mr. PRAHLAD KANTILAL PARIKH VATSALYA PRAFUL COLONY, BEHIND G.E.P. SCHOOL, VADODARA 390015	ACA30/04/2002
6	006334	Mr. SHAH C S 903, CHANDANBALA R.R. THAKKAR MARG MUMBAI 400006	ACA07/11/2002
7	007202	Mr. KATRAK DINSHAW HOMI C/O ALSTOM AUSTRALIA LTD., 3, BRIDGE STREET, NSW 2073 AUSTRALIA	ACA19/08/2002
8	007546	Mr. LALANI JAGMOHAN DALICHAND J D LALANI & CO WADIA HOUSE III FLOOR ROOM NO 70 9-B CAWASJI PATEL ST FORT MUMBAI 400001	FCA08/12/2000

9	007784	Mr. VILAS VISHNU JOSHI TANVI, HIRAY NAGAR, PUNE ROAD, NASHIK 422011	
10	008184	Mr. VASUDEV JAGDISH RAMAKANT 62 MANOR DR PRINCETON NG 08540 USA 0	ACA08/12/2000
11	010198	Mr. ZALA JAYAVANTSINH SARDARSINH 83, JEEVAN AKASH BUILDING, NR. BHATIA HOSPITAL, FORJET HILL ROAD, TARDEO, MUMBAI 400036	ACA17/10/2002
12	010294	Mr. CHANDRAKANT SHANTILAL SHAH 303, ANUPOM, ANDHERI VERSOVA ROAD, DODABHAI CROSS ROAD NO.2, ANDHERI (WEST) MUMBAI 400058	ACA22/05/2002
13	010407	Mr. MOIZ FAKHRUDDIN PANCH SUNFLOWER FLAT NO. 2 12TH FLOOR, CUFEE PARADE MUMBAI 400005	FCA29/07/2002
14	010561	Mr. CHOKSI KRISHNAKANT JAYANTILAL RAM NIVAS, 2ND FLOOR, PLOT NO 3 SUVARANAGAR SOCIETY, N S RD NO 5 VILE PARLE(W) MUMBAI 400056	FCA31/05/2002
15	011257	Mr. RAMABADRAN VEERA RAGHAVAN C/O MRS. N.T. DAMANIA SHAPUR BAUG, B BLOCK, FLAT 12/A 4TH FLOOR, V P ROAD MUMBAI 400004	ACA07/06/2002
16	011618	Mr. VIJAYKUMAR WAMAN KORKE 3/4, LAV KUSH APARTMENTS, ANAND PARK, NR. CHINTAMANI NAGAR, AUNDH PUNE 411007	FCA24/09/2002
17	011934	Mr. KRISHNAN S R GENERAL MANAGER, CENTRAL BANK OF INDIA, CHANDER MUKHI, NARIMAN POINT, MUMBAI 400021	ACA23/10/2002
18	012306	Mr. HARISHANKER SANWARMALKYAL DAFTARY ROAD, MALAD (EAST), MUMBAI 400097	FCA17/05/2002

19	012330	SHRI B H SRIDHARA UNITED INDIA INSURANCE CO LTD FLAT NO.2-B, LAKESHORE MANOR APARTMENTS NO.112,GAN GADHARA SHETTY ROAD, ULSOOR, BANGALORE 560042	ACA30/04/2002	30	016511	Mr. HIMANSHU BATUBHAI DESAI 7, DAZE APARTMENTS, PAWAN BAUG ROAD, MALAD (WEST) MUMBAI 400064	FCA02/12/2002
20	012780	Mr. DINESHCHANDRA OCHCHHAVLAL PITOLWALA 15, AKASHNEEM OPP. NEHRU FOUNDATION VASTRAPUR ROAD, AHMEDABAD 380054	ACA26/06/2002	31	016876	Mr. AHMED MUSHTAQ MARKETING & MARKET RESEARCH POST BOX NO.5874 RIYADH 11432 SAUDI ARABIA 0	ACA 27/03/2002
21	012974	Mr. MAKKHAN LALSHARMA E/73, TAKSHSHILA VASTRAPUR AHMEDABAD 380015	ACA01/07/2002	32	016941	Mr. JAIN ANILKUMAR DY GENERAL MANAGER THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD KAPAS BHAVAN PLOTNO 3A SECTOR 10 CBD BELAPUR NAVI MUMBAI 400614	ACA15/01/2001
22	013941	Mr. ASHOK BALKRISHNA KHADILKAR 466 SHANIWAR PETH WAMAN NIWAS PUNE 411030	FCA10/01/2001	33	017516	Mr. DHOLAKIA BANKIMCHANDRA B BA 304 AYOJAN NAGAR LIBERTY GARDEN CROSS RD NO 4, MALAD-WEST- MUMBAI 400064	ACA26/06/2002
23	014085	Mr. RAMANUJAM SRINIVASAN B-15 NELLAI APTS SWASTIK PARK CHEMBUR MUMBAI 400071	FCA 11/04/2002	34	017786	Mr. PADHY B C DY G M (F & A) O.N.G.C. LTD., 228 VASUDHARA BHAVAN ALI YAVAR JUNG MARG BANDRA EAST MUMBAI 400051	FCA02/03/2000
24	014191	Mr. SHAH LAXMICHAND RATANSHI BILQUEES MANSION, 2ND FLOOR, 261/63,D.N. ROAD, FORT, MUMBAI 400001	FCA26/04/2002	35	017834	Mr. KIRANKUMAR LAXMANDAS SHAH BLDG. 1, WING A, FLAT 2, SONAL APARTMENTS, JAYPRAKASH ROAD, GOREGAON (EAST), MUMBAI 400063	FCA23/05/2002
25	015197	Mr. DEVIDAS VASANT GAITONDE D/21 MANGIREESH SOCIETY L J ROAD X CHOTANI ROAD MAHIM MUMBAI 400016	ACA 06/05/2002	36	017878	Mr. SHIETH ABDULRAHMAN ABDULRAHIM P.O. BOX NO.456, JEDDAH, K.S.A.	ACA01/04/200
26	015641	Mr. KULKARNI SUHAS GAJANAN 5/116,SAGAR CO OP SOCIETY NEAR RAHEJA HOSPITAL MAHIM MUMBAI 400016	ACA20/12/2000	37	017887	Mr. VINOD GORDHANDAS BHANSALI 501, GULMOHAR APPTT. WING 'A', CEASER ROAD, AMBOLI, ANDHERI (WEST) MUMBAI 400058	FCA17/09/2002
27	015859	Mr. CHNADRAKANT SHANTILAL SHAH GHANSYAN DARSHAN FLAT NO. 8 LALA LAJPATRAI MARG VILE-PARLE(W) MUMBAI 400056	ACA26/12/2002	38	018440	SHRI PRABHAKAR RAO BANTWAL 1ST FLOOR, BHANDARI APARTMENTS, OPP. KAMLA HIGHTS, 373, SOMWAR PETH, PUNE 411001	ACA09/10/2002
28	016186	Mr. RAMACHANDRA RAO MADHU. SHANGRI-LA HOTEL RESORT, 21 FLR. CITIC TOWER 1 TIM MEI AVENUE CENTRAL HONGKONG 0	FCA10/04/2002	39	020468	Mr. JAYAKUMAR B 12, GANGA VIHAR, 8TH MAIN ROAD, CHEMBUR MUMBAI 400071	FCA10/07/2002
29	016345	Mr. N R SANGHRAJKA B-17,RATAN PALACE 186 GARODIA NAGAR GHATKOPAR (EAST), MUMBAI 400077	ACA09/04/2002	40	023743	Mr. VEERARAGHAVAN A B/11, SHRAVAN SRISHTI C.H.S. SRISHTI SECTOR-II MIRA ROAD, 401 104 THANE,	ACA14/05/2002

41	025612	Mr. JAGDISH KUMAR G STAR INDIA LTD THE MARTERPIECE ANDHERI KURLA ROAD MAROL NAKA ANDHERI EAST MUMBAI 400059	ACA13/02/2001	52	032051	Mr. SUNDARAM MURALIDHARAN 78-A.E.C.S. LAYOUT, IIND STAGE, 15TH CROSS, BANGALORE 560094	ACA15/05/2002
42	026731	Mr. SRIKANTH G F/80, SHANTI SADAN, MELAKKAL MAIN ROAD, KOCHADAI MADURAI (TAMIL NADU) MADURAI 625016	ACA24/12/2002	53	032095	Mr. REGÉ SUBHASH VINAYAK 12 VIDHATA 6TH FLOOR RAM MARUTI.ROAD DADAR MUMBAI 400028	FCA 08/12/2000
43	029283	Mr. BALARAMAN K PLOT NO.25, CHALLAWA INDUSTRIAL ESTATE, CHALLAWA, KANO NIGERIA	ACA12/07/2001	54	032116	Mr. MEHTA RAGHVENDRA RAJ GUJRAT POSITRA PORT INFRASTRUCTURE LTD., 209, BANK STREET CROSS LANE, OFF. SHAHID BHAGAT SINGH MARG, FORT MUMBAI 400002	FCA17/04/2002
44	030378	Mrs. KUNDA SHANKAR GANU GANU & CO., 202 BALWANT APTS., KHARE TOWN, DHARAMPETH NAGPUR 440010	FCA12/07/2002	55	032137	Mr. BAGADIA BIPINCHANDRA JIVRAJBHAI 803 ALAKNANANDA 5TH FLOOR NEELKANTH VALLEY RAJAWADI ROAD -7 GH/TKOPAR-E MUMBAI 400077	FCA01/08/2002
45	030821	Mr. ASHOK KUMAR AJMERA 101 SAMARTH OFF HINDUJA HOSPITAL LT.P.N KOTNIS MARG MAHIM MUMBAI 400016	FCA12/04/2002	56	032298	Mrs. FIRUZI BEJI KHAN C/O.ECOBRIDE LTD 7 ARNOLD CRESCENT ISLEWORTH TW77NS UK	ACA 20/12/2000
46	030895	Mr. PANDAV KHAMJI SHAMJI 7, PARK AVENUE C.H.S. PARK AVENUE, PLOT 2-11, SECTOR-17, NERUL NAVI MUMBAI 400706	FCA 08/05/2002	57	032313	Mr. SHAH ATISH BHARMAL P.O. BOX 39203 NAIROBI	ACA27/08/2002
47	030989	Ms. LATIKA PRAKASH PRADHAN 31, GREEN ACRE UNION PARK, ROAD NO 5 KHAR (WEST) MUMBAI 400052	FCA08/04/2002	58	032324	Mr. JOSHI PRAMOD GOVIND FLAT NO.102, KALPATARU HEIGHTS, AGRIPADA, MUMBAI 400011	ACA20/12/2000
48	031321	Mr. BIPINCHANDRA KANTILAL THAKKAR C/O 203, CENTAUR COMPLEX, NR.VIJAY CHAR RASTA, NAVRANGPURA, AHMEDABAD 380009	ACA06/08/2002	59	032663	Mr. JALAN DEEN BANDHU 504, UNICIFF TOWER, NEAR KAMAT CLUB, ANDHERI (WEST), MUMBAI 400062	FCA22/07/2002
49	031685	Mr. MANGAL KAMAL KISHORE 4A/54 MANALI EVERSHINE NAGAR MALAD WEST MUMBAI 400064	FCA10/01/2001	60	032683	Mr. DIAS MARK DERRICK C/O. PERSONS GROUP OFOMAN ENG L L C P O BOX 795 P CODE 133 AL- KHUWAIR MUSCAT O OMAN	FCA31/08/2000
50	031746	Mrs. VRINDA SHARAD BAL 9 AGARKAR BHAVAN L B SHASTRI ROAD PUNE 411030	ACA21/10/2002	61	032743	Mr. DHULIA LALITKUMAR NAVALCHAND P O BOX 66588 NAIROBI KENYA	ACA17/05/2002
51	031868	Mr. DOHADWALA ZAHID AKBARALI 19 FOUR BUNGALOWS 403 VIKRAMADITYA ANDHERI (W) MUMBAI 400053	FCA08/12/2000	62	032783	Mr. JAYANT PURUSHOTTAM TIDKE 8 NANDANVAN 4TH ROAD TPS III SANTACRUZ-E- MUMBAI 400055	FCA17/05/2002

63	032925	Mr. IYER KUMAR SUNDARAM TWIGA STATIONERS & PRINTERS P.O. BOX NO.18454 NAIROBI 0 KENYA	FCA20/05/2002	73	034530	Mr. MANIAR KIRAN SHANTILAL P DEVIDAS SECURITIES LTD V B GANDHI MARG MUMBAI 400023	FCA 01/10/1999
64	033304	Mr. MUKUND MADHUKAR ARGIKAR C/5 ASMITA T P S VI PLOT NOS 36/37 OFF SINKING RD EXT SANTA CRUZ WEST MUMBAI 400054	FCA23/01/2001	74	034544	Mrs. DIPTI VASANT SANZGIRI FLAT NO.4, 24/A, NEPEANSEA ROAD, MUMBAI 400036	ACA30/09/2002
65	033323	Mr. HEMANI KIRAN HARSUKHLAL 5/6, GEETA BUILDING, DEVIDAYAL ROAD, MULUND (WEST) MUMBAI 400080	FCA27/05/2002	75	034627	Mr. VIJAYKUMAR HARIVALLABH SHARMA FIRST FLOOR, 96/A, PARK LANE, SECUNDERABAD 500003	FCA 10/06/2002
66	033465	Mr. PRABHUTENDULKAR NARAYAN VASUDEO CHIEF FINANCE OFFICER AND CO SECRETARY DIGITAL EQUIPMENT (I) LTD DIGITAL HOUSE, YASHWANTPUR II STAGE 45/14, TUMKAR ROAD BANGALORE 560022	ACA08/12/2000	76	034909	Mr. BHIDE SUNIL WAMAN OM CHAMBERS 711 SHIVAJINAGAR JANGLI MAHARAJ ROAD PUNE 411005	ACA08/04/2002
67	033467	Mr. SHAH RAJANIKANT BHIKHALAL B/3/10, VIDYUT NAGAR, OLD PADRA ROAD, VADODARA 390015	FCA01/04/2002	77	034930	Mr. MEHTA DAULAT MAL 401, HIMACHAL, JUHU LANE, ANDHERI (WEST) MUMBAI 400058	FCA15/07/2002
68	033652	Ms. NANDINI RAVINDRA JHALA 209-C, VIKAS TOWERS, OPP. AMBOLI RAILWAY STATION ANDHERI (EAST) MUMBAI 400069	ACA21/06/2002	78	035280	Mr. RENGANATHAN K S A/7, VISHRUT FLATS, SUBASH CHOWK, GURUKUL AREA, AHMEDABAD 380052	ACA20/05/2002
69	033658	Mr. MAINAK SURYAKANT BALKRISHNA 10/5, PALM GROVE AMRITVAN COMPLEX, YASHODHAN LANE, GOREGAON (EAST) MUMBAI 400063	ACA21/05/2002	79	035284	Mr. SHAH VIREN RATILAL 707, SAHYADRI NEELKANTH VALLEY, 7TH ROAD, RAJAWADI, GHATKOPAR (EAST), MUMBAI 400077	ACA21/05/2002
70	033800	Mr. PATEL PANKAJ CHAMPAKLAL 5/301 'NOOPUR' AMRITVAN COMPLEX YASHODHAM RD, OPP DINDOSHI BUS DEPOT GOREGAON (EAST) MUMBAI 400063	ACA05/07/2002	80	035490	Mr. FERNANDES CHRISTOPHER NEVILLE 6, SITARAM NIVAS, 153, S.V.ROAD, KHAR, MUMBAI 400052	FCA19/06/2002
71	034158	Mr. SHAH RAJENDRA JAGJIVANDAS SHIVKRUPA, 'B' WING, BLOCK NO.203, IIND FLOOR, OLD NAGARDAS ROAD, ANDHERI (EAST), MUMBAI 400069	FCA08/12/2000	81	036111	Mr. SHAH SURENDRA BHAILAL 202, DWARKA APARTMENTS LAXMI COLONY, NR HAVELI PRODUCTIVITY RD VADODARA 390005	ACA16/04/2002
72	034283	Mr. PORE ANIL SHANKARRAO C/O DR. MRINAL M BAPAT, 25, SAGAR, GOVT. QUARTERS, B ROAD, CHURCHGATE MUMBAI 400020	FCA08/12/2000	82	036461	Mr. KAMALKISHORE THANMAL RATHI 2, GANESH PRASAD, JAIPRAKASH NAGAR, ROAD NO.1, GOREGAON (EAST), MUMBAI 400063	ACA25/09/2002
				83	036480	Mr. IYER RAMNATH PARAMESHWAR E-4, YOJANA SOCIETY NATWAK NAGAR NO 5 JOGESHVARI EAST MUMBAI 400060	ACA 02/02/2001
				84	036836	Mr. PANDYA DIPAK LAXINARAYAN A-135, PAWANDHAM SOCIETY NEAR SAMATA FLATS, SUBHANPURA VADODARA 390021	ACA24/04/2002

85	038948	Mr. MEHTA MANISH GIRISHCHANDRA RATAN NIWAS, JIVDAYA LANE, AGRA ROAD, GHATKOPAR (WEST), MUMBAI 400086	ACA10/05/2002	96	039493	Mr. MAHENDRA MADHUKAR JOSHI AYODHYA, 256 N-3 CIDCO, AURANGABAD 431003	ACA09/04/2002
86	038066	Mr. KARKARIA BOMI ARDESHIR 300A, BEVERLY PARK I, DLF PHASE-II, GURGAON 122002	ACA06/11/2002	97	039494	Mr. PANDIT DEEPAK RAMCHANDRA 15, KANTI BUILDING, T. H. KATARIA ROAD, MAHIM MUMBAI 400016	ACA10/05/2002
87	038451	Mr. PANDE MADHAV DHUNDIRAJ A/302, DIPTI GREEN, OPP BOMBAY CAMBRIDGE SCHOOL, OFF SAHAR RD, TARUN BHARAT ANDHERI-EAST MUMBAI 400069	ACA08/05/2002	98	040024	Mr. VORA HARSHAL AKSHAYA KUMAR 512 RAHEJA CLASSIQUE BUILDING 2A OSHWARA ANDHERI WEST MUMBAI 400053	ACA18/04/2002
88	038584	Mr. DHABU CHANDRASHEKHAR VIRABHADRA FLAT NO.503, BUILDING NO.A/7, KARISHMA HOUSING SOCIETY, SANGAM PRESS ROAD, KOTHRUD PUNE 400029	ACA26/05/2002	99	040258	Mr. AGRAWAL KANAIYALAL BABULAL C-1 701 SPECTRUM TOWER OPP POLICE STADIUM SHAHIBAUG AHMEDABAD 380004	ACA03/05/2002
89	038795	Mr. PRAKASH PANDURANG BHANDARE FLAT NO.C-20, RATHI TOWERS, DHARMESH NAGAR, HOTEL SHREEMAYA BUILDING, BANSILAL NAGAR, AURANGABAD 431005	ACA23/09/2002	100	040290	Mr. REGE NITIN VINAYAK TNT UAE LLC P O BOX 50633 DUBAI U A E	ACA03/06/2002
90	038809	Mr. DESAI BHARAT BALWANTRAI N1, AVADHOOT CHSL DATTI MANDIR ROAD DAHANUKAR WADI KANDIVLI (WEST) MUMBAI 400067	FCA23/08/2002	101	040313	Mr. BOTADRA NITIN MAGANLAL A-9, MAHAVIR PRAKASH, 2ND FLOOR, V.B. LANE - EXTN. GHATKOPAR (E), MUMBAI 400077	ACA01/10/1999
91	039079	Mr. ISHWARLAL RANCHHODDAS RAVANI 301, MARIUTI CENTRE, OPP GURUKUL DRIVE IN ROAD AHMEDABAD 380052	ACA04/05/2002	102	040420	Mr. BHARATHMAJ SURESH CHANDRAKALA, FLAT NO 3, BLDG NO 84-B BRINDAVAN SOCIETY, MAJIWADE THANE 400601	ACA30/04/2002
92	039091	Mr. SESHAN P NARAYANA HEAD INTERNAL AUDIT, GULF DTH LDC SHOWTIME, PO BOX 61315 DUBAI U.A.E.	ACA19/09/2002	103	040919	Mr. JOSHI PRADYUMAN MAHESHCHANDRA 4 HARI NIWAS ELECTRIC CO ROAD SANTACRUZ-E- MUMBAI 400055	ACA03/09/2002
93	039231	Mr. JAYAKAR RAJAN V 3, GOLDEN PALACE 191/192 BANDRA MUMBAI 400050	FCA01/10/1999	104	040984	Mr. RAMAKRISHNAN V A1 FAISALIAH GROUP RIYADH SAUDI ARABIA	ACA08/12/2000
94	039379	Mr. SHAH FALGUN HARSHVADAN D/5, ANUGRAH MATRU SMRUTI SOCIETY, NEAR UTKARSH VIDHYALAYA, VADODARA 362015	ACA16/05/2002	105	040998	Ms. VAZIFDARBILKISH HOME LAXMI BLDG FLAT NO 4 OFF TURNER ROAD BEHIND PATKAR BLDG BANDRA W MUMBAI 400050	ACA13/08/2002
95	039463	Mr. BARPUTE DIVAKAR VISHNUPANT A-13, JAWAHAR HOUSING SOCIETY, SOLAPUR	FCA01/10/2001	106	041106	Mr. DAMANI MINESH HIMATLAL DAMANI SHIPPING PVT LTD 205, 206, VARMA CHAMBERS 11, HOMJI STREET FORT MUMBAI 400001	ACA01/10/1995

107	041155	Mr. SUNIL CHANDRAKANT GANDHI III/8/54 RUSTOMJEE REGENCY J S ROAD DAHISAR (WEST) MUMBAI 400068	FCA01/10/1999	118	042173	Mr. PAREKH RAJESH NARENDRA 19 RAMNIVAS NAVROJI LANE GHATKOPAR WEST MUMBAI 400086	FCA24/04/2002
108	041193	Mr. KOTHARE CHANDRAKANT DHANRAJJI 5/238, THAKURDWAR ROAD MUMBAI 400002	ACA01/10/1996	119	042189	Mr. SINGH PRAVIN CHANDRA 401, TASHKENT BUILDING PRATHMESH COMPLEX VEERA DESAI ROAD ANDHERI (W) MUMBAI 400053	ACA 01/10/1996
109	041330	Mrs. PUSHPA SANTOSH KUMAR DKT INDIA 23, SHAH INDUSTRIAL ESTATE OFF VEERA DESAI ROAD ANDHERI (W) MUMBAI 400058	ACA05/12/1994	120	042366	Ms. VIJAYALAKSHMI DEVARAJAN 3, BALAJI PRASAD R B MEHTA MARG GHATKOPAR (EAST) MUMBAI 400077	ACA15/05/2002
110	041386	Mr. FAIZI EBRAHIM ZOEB C/O RMC TOPMIX LLC P O BOX 37900 DUBAI U A E	ACA 09/05/2002	121	042619	Mr. RAMAKRISHNAN SHANKAR IYER G - 3 RADHESHYAM VISHNU NAGAR NAUPADA THANE - WEST THANE 400602	ACA30/05/2002
111	041455	Mr. SOONAWALLA SHIAMAK EDUL ERNST & YOUNG SOUK AL SAFAT, 3RD FLOOR ABDULLAH MUBARAK STREET SAFAT KUWAIT	ACA30/09/2002	122	042728	Mr. SANDEEP ANIL PRESSWALA INVESTSMART INDIA LTD 8TH FLOOR THE IL&FS FINANCIAL CENTRE BANDRA-KURLA COMPLEX BANDRA EAST MUMBAI 400051	FCA08/04/2002
112	041576	Mr. RATHOD NIKHIL KANTILAL APAR TECHNOLOGIES LTD., CORPORATE PARK - 6, SION TROMBE ROAD, CHEMBUR MUMBAI 400071	ACA05/07/2002	123	042803	Mr. RANJIT HIRANAND ADVANI 10 SINDHU JYOTI SOC G-WARD KUBERNAGAR AHMEDABAD 382340	ACA13/01/2001
113	041734	Mr. SAWARDEKAR RAMKRISHNA PANDURAN G-4 MAHESHWARI NAGAR KONDIVITA, MIDC ANDHERI EAST MUMBAI 400093	ACA30/05/2002	124	042870	Mr. SHAH DHILAN NARESH BLOCK D/2, FLAT NO.26 BHARAT NAGAR MUMBAI 400007	ACA13/08/2002
114	041847	Mr. RAMCHANDRAN JAISHANKAR 14 RAINTREE CRESCENT FOURMAYS GARDENS PHASE II JOHANNESBURG SOUTH AFRICA	ACA07/02/2001	125	043018	Ms. SHAH AMISHA DHIRAJLAL 512, SAMRUDDHI APARTMENTS TPS LANE, 51ST ROAD BORIVLI (WEST) MUMBAI 400092	ACA03/10/2002
115	041922	Mr. SHAH CHETAN RAMESHCHANDRA 202, RUSHABH JUNCTION 8TH AND 10TH FLOOR KHAR - (W) MUMBAI 400052	ACA30/09/2002	126	043031	Mr. MISTRY DARAYUS DHUNJISHAW C/O EMIRATES AIRLINES MANAGER ACCOUNTS P.O. BOX 686, DUBAI	ACA30/04/2002
116	041998	Mr. AMBER RAMESHCHANDRA DALAL 84/8 NAVRANG PEDDER ROAD MUMBAI 400026	ACA 29/05/2002	127	043091	Mr. SOMAIYA RAMAN VITHALDAS 27, BRINDAVAN, KHETWADI 12TH LANE, MUMBAI 400004	ACA08/12/1997
117	042136	Mr. MARU NIYANT ROHIT BLOCK 11, RADHANARAYAN, OPP PATWARDHAN MAIDAN, 32ND RD, BANDRA WEST MUMBAI 400050	ACA15/07/2002	128	043186	Mr. SHASTRY UMESH RAMASWAMY B-7, AMAN APTS., 152, DAHANUKAR COLONY, KOTHRUD PUNE 411029	ACA11/07/2002



129	043300	Mr. AUDI DATTA PARSHURAM FCA08/12/2000 F/3 MEERA PAJIFOND MARGAO GOA 403601	140	045173	Mr. SURESH P R NARAYANAN IYER 1313 LUBU ROAD C/O.RADIAN STORES LTD P.O.BOX 30318 LUSAKA ZAMBIA 0 SOUTH AFRICA	ACA18/12/2000
130	043320	Mr. JAWADWALA SHABBIR ACA 01/10/1999 RASULBHAI KPMG P.O.BOX 641 RUWI 112 MUSCAT 0 SULTNATE OF OMAN	141	045300	Mr. PUNJABI NIRANJAN THAKURDAS 35 LAXMINARAYAN SCTY MALAD EAST MUMBAI 400097	ACA 21/05/2002
131	043349	Mr. SARDESAI SANDEEP ACA26/04/2002 AVINASH 7020LE MIRAGA 14TH ROAD KHAR WEST MUMBAI 400052	142	045314	Mr. THAKURDESAI MANDAR MANOHAR 16,RAJLAXMI APARTMENTS CTS NO.37 PROSPERITY CHS KARVE NAGAR PUNE 411052	ACA08/12/2000
132	043409	Mr. MODANI ANIL KUMAR ACA18/12/2000 GENERAL MANAGER VIDEOCON NARMADA GLASS (A DIV OF VIL) CHAVAJ BHARUCH 392002	143	045356	Mr. RAMAPPA ANCHAN VASUDEV 15 PARA APARTMENT N DUTTA NEAR GOOD SHEPHERD CHURCH FOUR BUNGLOWS ANDHERI WEST MUMBAI 400053	ACA 02/04/2002
133	043688	Mr. D'MELLO RONALD ACA17/01/2001 JOSEPH FLAT NO # 502 GENESIS APARTMENTS ST. FRANCIS AVENUE SANTACRUZ WEST MUMBAI 400054	144	045434	Mr. UPPAL MOHIT HOUSE NO 1 PALM COURT 9TH ROAD ALMEIDA PARK BANDRA WEST MUMBAI 400050	ACA 08/12/2000
134	043851	Ms. SHETTY SUPRITHA ACA 04/04/2002 GOVIND 14,JAIMITRA COOP.HSG.SCY PRAGATI NAGAR GOREGAON (W) MUMBAI 400062	145	045479	Mr. SHAIKH ARIF ALI DASTAGIR HOUSE 4 MARATHA MANDIR MARG GROUND FLOOR MUMBAI 400008	ACA01/10/2001
135	044046	Mr. SHAKIL ISMAIL SHAFI ACA08/12/2000 C & M HOUSE,HARIYALI CHAMBERS N.D. PATEL ROAD, NASHIK 422001	146	045569	Mr. DESAI VIPUL BALVANTRAI 204, JYOTI PARK 'A', M.G.CROSS ROAD NO.1, KANDIVLI (WEST) MUMBAI 400067	ACA08/12/2000
136	044419	Mr. CHANDWANI NARESH ACA28/05/2002 ARJANDAS BANK MUSCAT P O BOX NO 134 P L 112 RUWI 0 SULTANATE OF OMAN	147	045687	Mrs. VEENA SREERAM C/O MR SREERAM IYER P O BOX 999, DUBAI,	ACA04/06/2002
137	044439	Mr. NAWAL KISHOR MODI ACA10/06/2002 218, PANCH RATNA GIDC CHAR RASTA, DISTRICT VALSAD VAPI 396195	148	045724	Mr. CHETAN KUMAR C/602, SHREEJI TOWER DRIVE IN RD AHMEDABAD 380052	ACA25/01/2001
138	044955	Mr. MEHTA KIRTI T FCA27/05/2002 7/24 MALAD CO.OP.HSG.SOCIETY PODAR ROAD, MALAD EAST MUMBAI 400097	149	045920	Ms. AARTI VAIDYANATHAN 11/304,TULSIDHAM KALYANI C.H.S. NR.TATWAGYAN VIDYAPEETH GHODBUNDER ROAD THANE (E) THANE 400607	ACA01/10/1998
139	045063	Mr. REGE MRINALINI SURENDRANATH 18, SHIVANI STATE BANK COLONY PARAVATI DARSHAN PUNE 411009	150	045995	Mr. DHANANJAY PRAVINCHANDRA JANI RELIANCE BANK LIMITED 142 AHMEDU BELLO WAY VICTORIA ISLAND WEST AFRICA LAGOS 0 NIGERIA	FCA01/10/1996

151	046008	Mr. KOTHARI PRASANNA ISHWARLAL 217 POORNIMA TOWERS SHANKERSHETH ROAD PUNE 411037	ACA01/10/2001	162	047028	Ms. GAGANDEEP DEEPAK KHANNA F-25 NEW AMBIVALI CHS OFF LINK ROAD OPP NIIT ANDHERI WEST. MUMBAI 400053	ACA 27/05/2002
152	046193	Mr. ANIL PETER 19 DHANRAJ PAARK KALEWADI PHATTA WAKAD PUNE 411027	ACA30/09/2002	163	047121	Mr. IYER KRISHNAN PADMANABHAN TATA FINANCE LIMITED, 6TH FLOOR, BEZZOLA COMPLEX, V.N.PURAV MARG, CHEMBUR, MUMBAI 400071	ACA29/01/2001
153	046277	Mr. KHURANA VIPIN SUDERSHAN 13/401 GARDEN ESTATE OFF POKHRAN ROAD 2 THANE WEST THANE 400601	ACA08/02/2001	164	047142	Mr. GUPTA SANJAYKUMAR MOHANLAL TUFAN INFOTECH INDIA PVT LTD SAMRUDDHI VENTURE PARK MIDC ANDHERI (E) MUMBAI 400093	ACA01/10/1999
154	046650	Mr. SHARMA ATUL KUMAR SITARAM SHRADDHANJALI OPP GURUDWARE SHASTRI NAGAR KHOPOLI 410203	ACA09/05/2002	165	047192	Mr. SWADI PRASHANT SUBHASH B/75,SHRAVASTI OFF LINK ROAD MALAD (W) MUMBAI 400064	ACA01/10/2001
155	046686	Mr. THANGADURAI JOHNSON PANDIAN C-1, JAIHIND COLONY NANEPADE RD MULUND(EAST) MUMBAI 400081	FCA 01/10/1999	166	047200	Mr. SOMANI PRASHANT D3-74 GREEN FIELDS MAHAKALI CAVES ROAD ANDHERI-EAST MUMBAI 400093	ACA16/08/2002
156	046857	Ms. KULKARNI NILIMA DEEPAK 3, JYOTI APARTMENTS PATIL COLONY LANE NO.3 COLLEGE ROAD NASHIK 422005	ACA10/05/2002	167	047205	Mr. PARIKH SANDIP MAHENDRA B/403, KOKIL KUNJ M.G.CROSS ROAD NO.4, KANDIVLI (W) MUMBAI 400067	ACA08/12/2000
157	046858	Mr. DOSSA RAJESH DILIP STOCK EXCHANGE ROTONDA BUILDING P.G. 12 GROUND FLOOR BOMBAY SAMACHAR ROAD MUMBAI 400023	ACA 01/10/2001	168	047269	Mr. JAIN AJAY KUMAR VIKRAM D MEHTA H-2 EVEREST NAGAR BUILDING TARDEO ROAD MUMBAI 400034	ACA04/01/2001
158	046902	Mr. RAJUBHAI SHYAMLAL JARIWALA 8/357, FIRST FLOOR KSHATRIYA MATH KOTSAFIL ROAD SURAT 395002	ACA08/12/1997	169	047317	Mr. KULKARNI SANJAY GOPAL 9, SAAILEE ARUNODAYA SOC M PHULE ROAD VISHNU NAGAR DOMBIVLI WEST DOMBIVALI 421202	ACA01/10/2001
159	046928	Mr. JHANWAR DEV KISHAN C/60, FLAT NO.204, SECTOR NO.10 SHANTI NAGAR MIRA ROAD (E) MIRA ROAD 401107	ACA 01/10/1995	170	047323	Ms. CHUNAWALA GAZALA AZIZ T P S III 14TH ROAD BUILDING MARYLAND 3RD FLR FLAT NO 14 BANDRA MUMBAI 400050	ACA26/04/2002
160	046993	Mrs. SUMITRA VIKAS JOSHI B-304 'THE ATRIUM' 49 KALASHETRA ROAD CHENNAI 600041	ACA 08/12/2000	171	047624	Mr. SHETTY PRASHANTHA DODDANNA 5/304 ANMOL MAROL PIPE LINE ANDHERI EAST MUMBAI 400059	ACA01/10/1999
161	047003	Mr. KHANNA RAJAN C-501, ISM HOUSE PLOT NO. 818 /A THAKUR VILLAGE KANDIVALI (E) MUMBAI 400101	ACA23/09/2002	172	047701	Mr. NITINKUMAR RAMESHCHANDRA PATEL KESHAV LAXMI, OPP EVERBELLA FLATS ANKUR ROAD NARANPURA AHMEDABAD 380013	ACA01/10/1999

173	047739	Mr. MILLIND KANTILAL MEHTA MR K C MEHTA, 24 NC VANIK NIVAS GURUKUL LANE, TILAK RD GHATKOPAR-E MUMBAI 400077	ACA12/07/2002	185	048947	Mr. SHARMA RAJESH BIRBAL 7416 COTTAGE AVE NORTH BERGEN NJ 07047 U.S.A.	ACA01/07/2002
174	047762	Mr. MAHAVIR SUBHASHCHANDRA GANDHI # 301, ELMERST RD, MT. PROSPECT, IL, USA	FCA01/10/2001	186	049147	Mr. SUMNESH KUMAR C/O GRASIM INDUSTRIES LTD 1ST FLOOR AHURA CENTRE OPP MIDC OFFICE ANDHERI (E) MUMBAI 400093	ACA07/05/1999
175	047859	Mr. HAVELE SUNIL SOMNATH SOMERSET M O MINK CITY 8A NGVYEN BINK KHIEM ST DIST I HCMC MINK CITY 411030 VIETNAM	ACA17/06/2002	187	049246	Mr. RAJESH BANSAL 5666 GODI ROAD DAHOD 389151	ACA18/04/2002
176	047940	Mr. MERCHANT MUFAZZAL SAIFUDDIN 32, SUTAR CHAWL, FAZAL MANZIL, 6TH FLOOR MUMBAI 400002	ACA03/06/2002	188	049609	Mr. MAVLANKAR UNMESH SURESHCHANDRA C/O PROCTER & GAMBLE AISA PTE LTD 19TH FLOOR PETRON MEGAPLAZA GIL PUYAT AVENUE MAKATI MANILA 0 PHILIPPINES	ACA30/05/2002
177	048272	Mr. ADRIAN FERNANDEZ J A-16 RATNAM PARK GOTRI VADODARA 390021	ACA26/04/2002	189	049731	Mr. SATISH RAGHAVAN RH 4, AGRAWAL PLAZA, SECTOR NO 2, PLOT NO 69, KOPARKHAJRAANE, NAVI MUMBAI 400701	ACA12/04/2002
178	048336	Mr. JOSHI ASHISH RAJNIKANT 8-B, TINMURTI PARK SOCIETY, GULBAI TEKRA AHMEDABAD 380015	ACA01/10/1999	190	049773	Mr. VANVARI GIRISH PAMAN 202 A PEARL APARTMENTS 3RD CROSS LANE LOKHANDWALA COMPLEX ANDHERI WEST MUMBAI 400053	ACA05/02/2001
179	048373	Ms. SHETH NANDINI CHETAN 3RD FLOOR, NISHAT TOWER, M.G. ROAD, AKOLA AKOLA 444001	ACA01/10/1999	191	049843	Mr. PANCHOLI AJAYKUMAR PARASMAL A-1803/1804, GOKUL GAGAN CHS LTD THAKUR VILLAGE KANDIVLI (E) MUMBAI 400101	ACA01/10/1998
180	048521	Mr. SWAMY SANTOSH 15/464, SHASTRI NAGAR, GOREGAON WEST MUMBAI 400104	ACA01/10/2001	192	049878	Ms. NAIK TEJAL KALIDAS 711, LOUISIANA STREET SUITE 1300 HOUSTON 77002 U.S.A.	ACA 19/12/2000
181	048731	Ms. ANAHEITA ARSHISH KAPADIA AMBION INC, 213 WOODWARD ST SUITE 200 TEXAS 78744 U.S.A.	ACA08/12/2000	193	049932	Mr. SUMIR VERMA C/O KANAN DESAI 2/6 LNHO ESTATE NO. 5 K.M. MUNSHI MARG MUMBAI 400007	ACA13/08/2002
182	048737	Mr. V ANAND C-10 NEW SHRENIK SOCIETY, ASHOK NAGAR, NAHUR ROAD, MULUND WEST, MUMBAI 400080	ACA01/10/1999	194	049986	Mr. MADHAVANI MANISH DHIRAJLAL 601 ANMOL OOMER PARK 95-B DESAI ROAD MUMBAI 400026	ACA09/07/2002
183	048761	Mr. JAIN JITENDRA KUMAR P.O. BOX 27241 DUBAI 0 UAE	ACA01/10/1995	195	050034	Mr. RAM NARESH PT SUNRISEBUMI TEXTILES MENARA BATAVIA LEVEL 16 JI K H MAS MANSYUR KAV 126 JAKARTA 10220 INDONESIA	ACA05/06/2002
184	048763	Mr. DALAL BIREN RAMESH A/11, BRINDAVAN SOCIETY, KOLDONGRI SAHAR ROAD, ANDHERI EAST MUMBAI 400069	ACA05/04/2002	196	050687	Mr. ASHOK KUMAR JAIN DHAVALGIRI FLAT NO 401 PAPANASWADI NANACHOWK BEHIND GOLDEN CROWN RESTAURANT GRANT ROAD MUMBAI 400036	ACA29/04/2002

197	050701	Mr. NIRANJAN BHATTACHARJEE AIR INDIA OLD AIRPORT KALINA MUMBAI 400029	ACA 01/10/1999	209	072980	Mr. RAVI SHANKER 52 A NANDKISHORE INDUSTRIAL ESTATE II FLOOR MAHAKALI CAVE ROAD OPP PAPER BOX ANDHERI -EAST- MUMBAI 400093	FCA08/12/2000
198	052505	Mr. MAYANK BHANDARI BNP PARIBAS PRINCE TOWERS, 3RD FLOOR 25 / 26 COLLEGE ROAD CHENNAI 600006	ACA12/08/2002	210	073012	Mr. RAVINDRA SINGH SINGHM SR VICE PRESIDENT ( COMM ) M/S SUPER SYNCOTEX INDIA LTD KHARI-KA-LAMBA DIST BHILWARA GULABPURA 311021	FCA18/04/2002
199	052871	Mr. MEHROTRA JAYANT B-29 ASHIANA (GLAXO SCTY) ST JOHN BAPTHST ROAD BANDRA(W) MUMBAI 400050	ACA 24/05/2002	211	074764	Mr. RADHEY SHYAM VAISHNAV C/O.GAJENDRA TATWAVEDI A-238,SHASTRI NAGAR JODHPUR 342003 RAJASTHAN	ACA 01/10/1999
200	054011	Mr. NANDY AMIT NOBLE AZANIA INVESTMENTS LTD POST BOX 20066 DAR ES SALAAM TANZANIA 00	ACA08/12/2000	212	075823	Mr. RAJ KUMAR SINDHI 504, SPECTRE, VTH FLOOR, PRATHMESH COMPLEX, VEERA DESAI ROAD (EXTN), ANDHERI (WEST) MUMBAI 400053	ACA 21/05/2002
201	054538	Ms. KAVITA THACKER C/O MAJOR NL KARIA 404 SRI RAMDEO BABA APARTMENTS 304/4, BAJAJ NAGAR NAGPUR 440010	ACA18/04/2002	213	077509	Ms. GARG BHAWANA 81,CHANDER NAGAR DEHRADUN 248001	ACA01/10/2001
202	055018	Mr. DIPTA BHANU GUPTA SR.OFFICER(INTERNAL AUDIT) M/S. H D F C LTD RAMON HOUSE, 169, BACKBAY RECLM MUMBAI 400020	ACA21/05/2002	214	077888	MR VIVEK SAXENA ORACLE INDIA PVT LTD 4TH FLOOR, S WING CYBER GATEWAY MADHAPUR HYDERABAD 81	ACA 01/10/2001
203	055239	Mr. AGRAWAL SUNIL C/O SATISH AGRAWAL CENTURY TEXTILES & IND LTD CENTURY BHAWAN DR ANNIE BESANT ROAD WORLI MUMBAI 0	FCA01/10/2001	215	077992	MR GAURAV GUPTA D-162 SECTOR 27 NOIDA 201301	ACA 18/09/2002
204	055878	Mr. BIMAL BHATTACHARYYA C/O.UTI BANK LTD 131, MAKER TOWER F CUFFE PARADE MUMBAI 400005	ACA08/12/1997	216	079087	Mr VIKRAM JAISINGHANI CHAMBAL FERTILISERS & CHEMICALS LTD 6 DEVIKA TOWERS NEHRU PLACE NEW DELHI	ACA 08/12/2000
205	058951	Mr. SENGUPTA SWADHIN FLAT NO.2624 BUILDING NO.207 KANE NAGAR,ANTOP HILL SECTOR-VI MUMBAI 400037	ACA01/10/2001	217	083907	Mr. MEHRA RAJESH A-703 MARY ELLAN OFF CAESAR ROAD ANDHERI WEST MUMBAI 400058	ACA31/05/2002
206	070755	Mr. MATHUR VIKRAM 9/20 GNF TOWNSHIP P.O.NARMADA NAGAR BHARUCH 392015	ACA 01/10/1996	218	084673	Mr. SURYAKANT DAVE 52 JUHU VIKRANT SAMARTH RAMDAS MARG GULMOHAR/JVPD MUMBAI 400049	FCA31/05/2002
207	071519	Mr. RAM AVTAR RATHI 501/9 FLOWER VALLEY EASTERN EXPRESS HIGHWAY THANE WEST THANE 400601	FCA10/04/2002	219	084952	Mr. BAHUGUNA VINAYAK C/O. STANDARD CHARTERED BANK 90, M.G. ROAD MUMBAI - 401105	ACA 01/10/1999
208	071812	Mr. SUNDAR SANMUKHANI 19/16D FORT MANSION OFF BRITISH HOTEL LANE BOMBAY SAMACHAR MARG FORT MUMBAI 400023	FCA18/04/2002	220	086344	Mr. KRISHNAN LAL H NO 219/18 MOHALLA DOGSAN HISSAR 125001	ACA 02/09/2002
				221	086834	Mr. ASHU GULATI 41 NEW CLOTH MARKET AHMEDABAD 380002	FCA26/12/2000
				222	090848	Mr. GOVIND BANSAL 112/340 SWAROOP NAGAR KANPUR 208002	ACA13/12/2000

223	093042	Mr. TARUN NAHAR BIRLA TECHNOLOGY LTD C WING 3RD FLOOR 322-323 MAHAKALI CAVES ROAD ANDHERI EAST MUMBAI 400093	ACA 28/05/2002	236	101663	Mr. TAMHANE GUNESH PRABHAKAR 503 A WING AVON PLAZA THAKUR COMPLEX KANDIVALI EAST MUMBAI 400207	ACA 27/05/2002
224	094627	Mr. JAIN SHALEEN R-9, MLS UNIVERSITY CAMPUS UDAIPUR 313001	ACA30/09/2002	237	101743	Mr. BHANDARI NEEL RAJVEER UDAY P. NANAVTI & ASSOCIATES 7/2651, VAYDA SHERI, NEAR MAHALAXMI TEMPLE SAIYEDPURA SURAT 395003	ACA27/05/2002
225	097677	Ms. MAHESHWARI BINDIA 516/517 WORLD TRADE CENTRE BARAKHAMBIA LANE NEW DELHI 110 001	ACA 05/07/2002	238	101778	Mr. KHANNA DHIRAJ R MARY ELLAN BLDG 702/B MAHATARPADA ROAD OFF CEASER ROAD AMBOLI ANDHERI WEST MUMBAI 400058	ACA08/05/2002
226	100175	Ms. PAGARIA NEELAM C/O L S KOTHARI 205 RAJNIKETAN A OPP MAHINDRA GARDENS S V ROAD GOREGAON WEST MUMBAI 0	ACA18/11/2002	239	102152	Mr. MITTAL ASHISH C/O KEVIN EXPORTS D-11/1, ROAD NO 21 M I D C, ANDHERI(E) MUMBAI 400093	ACA02/05/2002
227	100261	Mr. JAIN VINOD KUMAR J K FILES & TOOLS (A DIVISION OF RAYMOND LTD) P O: JEKEGRAM THANE 400606	ACA01/10/1999	240	102311	Mr. AHMEDI F MERCHANT C/O H.F. MERCHANT E.M. PALACE, B305 SAINAGAR, VASAI(W) VASAI 401202	ACA 02/08/2002
228	100630	Mr. MANE PRASHANT MANOHAR A-302 SHIVCHAYA COOP HSG SOC DEWANMAN NAVYUG NAGAR VASAI ROAD WEST VASAI 401202	ACA12/04/2002	241	102331	Mr. PARASRAMPURIA SUNIL SATYANARAYAN 3/16 PITAMBAR VILLE NEAR PRATAP CINEMA KHOPAT, THANE 400604	ACA19/09/2001
229	100792	Mr. SHAH ANISH DINESH 119/5, MASKATI MAHAL LOHAR CHAWL MUMBAI 400002	ACA15/05/2002	242	102980	Mr. DARSHAN DEEPAK DESAI 9-B/4, AMOL NAGAR NAIGAON WEST NAIGAON 401207	ACA10/06/2002
230	100836	Mr. BALAJI KRISHNAMURTHY RAMAN P O BOX 3229 DARES SALAAM TANZANIA 0	ACA08/12/2000	243	103292	Mr. SURAJ LAKHANI BUNGALOW NO. 10 VAIKUNTH COOP. SOCIETY CHEMBUR MUMBAI 400071	ACA 01/10/2002.
231	100841	Ms. SALIMA HASSANALI RUPANI DHARMA SHALA ROAD BILKHA 362110	FCA08/12/2000	244	103305	Mr. ZAVERI MILAN HIMATLAL 335, ZAVERI NIVAS, TELANG ROAD, OPP NAPOO HALL MATUNGA (C R), MUMBAI 400019	ACA 01/10/1999
232	101157	Ms. DAMODARE MEDHA GAJANAN 311 GITANJALI APARTS HAL III STAGE THIPPSANDRA ROAD BANGALORE 560075	ACA19/01/2001	245	103339	Mr. DINESH KUMAR LODHA FLAT NO 403 GREEN MEADOWS LOKHANDWALA TOWNSHIP KANDIVALI [E] MUMBAI 400101	ACA10/04/2002
233	101370	Mr. ANAND SRINIVASAN C/O N K SRINIVASAN 6/764 VISHAL 65TH STREET 10TH SECTOR K K NAGAR CHENNAI 600078	ACA12/06/2002	246	103638	Mr. ANILKUMAR BABULAL MEHTA E-205 SUREL APARTMENT OPP SATYAGRAH CHHAVANI NR JUDGES BUNGLOWS BODAKDEV AHMEDABAD 380054	ACA27/05/2002
234	101498	Mr. SOMANI ROHIT JAYPRAKASH 114/118, MANEK BHAVAN TH FLOOR, CAVEL ST MUMBAI 400002	ACA29/04/2002				
235	101534	Mr. BHAVIN H SHAH 901/A, SHASTRI HALL 9TH FLOOR, J D ROAD NANACHOWK MUMBAI 400007	ACA27/06/2002				

247	103935	Mr. SOMESH MAHENDRA SABOO 901 ACME ENCLAVE OFF GOREGAON MALAD LINK ROAD GOREGAON WEST MUMBAI 400062	ACA 06/05/2002	258	105432	Mr KAUSHIK TANSUKHRAI GANDHI SHOP NO 2, RAJDEEP KASTURBA X RD NO 1 BORIVALI-EAST MUMBAI 400066	ACA18/04/2002
248	104045	Mr. SUMIT PUSHKARBHAI ZAVERI TAJ CONNEMARA THE INDIAN HOTELS CO LTD BINNY ROAD CHENNAI 600002	ACA03/06/2002	259	105444	Mr SHAILESH LAVU PEDNEKAR 8, DR THAKUR BLDG. RAMNAGAR DOMBIVALI 421201	ACA 05/07/2002
249	104071	Ms. MANISHA JAGDISH GAJRIA REDIFF.COM INDIA LTD, 1ST FLOOR MAHALAXMI ENGINEERING ESTATE L J FIRST CROSS ROAD MAHIM MUMBAI 400016	ACA 08/05/2002	260	105568	Ms SHARMA RITIKA BABULAL 4010 B KINGSGATE PLACE CHARLOTTE NORTH CANADA 28105 USA	ACA29/05/2002
250	104433	Mr. LODHA NIRMAL RAMESHCHANDRA 46/A, GOWALIA TANK ROAD 1 FLOOR, A.K. MARG MUMBAI 400036	ACA19/06/2002	261	105572	Mr SUDHIR PURUSHOTTAM TAORI FLAT NO. 2 BORSE BLDG ABOVE KOTHRUD PC STOFFICE KOTHRUD BUS STAND PUNE 411038	ACA24/04/2002
251	104527	Mr SANJAY TRIPATHI 302 5/D GREEN MEADOWS LOKHANDWALA COMPLEX KANDIVALI - EAST MUMBAI 400101	ACA22/05/2002	262	105941	Mr MANTRI RAJEEV C/O INTERNATIONAL DISTILLERS (I) LTD. BLOCK 2D, NO.71, PHENIX MILLS COMPLEX 462, SENAPATI BAPAT MARG LOWER PAREL MUMBAI 400013	ACA22/04/2002
252	104689	Mr GAURAV NAGORI TEMPLETON ASSET MANAGEMENT I PVT LTD 1ST FLOOR SAKHAR BHAVAN 230 NARIMAN POINT MUMBAI 400021	ACA25/09/2002	263	106199	Mr SAVJIKUMAR GOVINDBHAI SUKHADIA 2 GOLDEN SIX APT BHAIKAKA NAGAR THALTEJ ROAD AHMEDABAD 380051	ACA01/10/1999
253	104768	Mr DIPESH KIRTIKUMAR PATEL 2/B VISSANJI PARK NAJGAUM CROSS ROAD DADAR MUMBAI 400014	ACA08/04/2002	264	106666	Mr GOKUL KRISHNANAND SHANBHAG 3/36 KONDAJI BUILDING 1ST FLOOR, J.W.ROAD NR. TATA HOSPITAL, PAREL MUMBAI 400012	ACA 08/04/2002
254	104816	Mr. ATROLEY NITIN ATHUR ANDERSEN & CO 2ND FLOOR, CAPITAL COURT LSC PHASE III, OLOF PALME MARG MUNIRKA NEW DELHI 110067	ACA10/07/2000	265	106753	Mr. SHAILESH SHRIDHAR PALAV B/1/11 & 12 SAUDAMINI COMPLEX BHUSARI COLONY PAUD ROAD PUNE 411038	ACA08/05/2002
255	105224	Mr BIMAL KRISHNADAS SHAH D-312, MATRU ASHISH CHANDAVARKAR ROAD BORIVLI WEST MUMBAI 400092	ACA01/10/1999	266	106887	Mr ASHWINI AGRAWAL M-01 MUNDRA COMPLEX NR CANARA BANK NR CANARA BANK SILVASSA 396230	ACA19/08/2002
256	105242	MR GANDHI PIYUSH BABULAL AMBUJA CEMENT RAJASTHAN LTD ACCOUNT DEPT P O RABRIYAWAS TA KATRAN DIST PALI RAJASTHAN 0	ACA 23/01/2001	267	107620	Mr SURESHKUMAR SELVARAJ YADAV 23 SARGAM PARK PARSHAWNATH TOWNSHIP RD BEHIND KRISHNA NAGAR SAISHPUR BHOGA AHMEDABAD 382346	ACA14/06/2002
257	105404	Ms. HOLLIDAY VINNU 001, EXOTICA, I.C. COLONY, BORIVLI (W) MUMBAI 400103	ACA30/04/2002	268	107888	Mr RAJENDRA M DUNGARWAL ASSTT.GEN.MANAGER-MKTG & SALES ACCTS VIDEOCON INTERNATIONAL LTD OPP ANDHRA BANK, NR SANGAM CINEMAT ANDHERI-KURLA RD, ANDHERI EAST MUMBAI 400093	ACA 08/12/2000

- |     |        |   |                |     |        |  |               |
|-----|--------|---|----------------|-----|--------|--|---------------|
| 269 | 107984 | Mr. KEHAIR ASHISH<br>TAIB BANK EC<br>SEHL CENTRE<br>DIPLOMATIC AREA<br>P O BOX 20485, MANAMA<br>MANAMA 400101<br>BAHRAIN  | ACA27/05/2002  | 280 | 203876 | Mr. G CHANDRAMOHAN<br>COMMERCIAL BANK OF KUWAIT<br>RISK MANAGEMENT DIVISION<br>7TH FLOOR P O BOX 2861<br>SAFAT 13029<br>KUWAIT 0                   | ACA30/10/2002 |
| 270 | 108015 | Mr KISHOR KUMAR<br>RAMRATAN MINİYAR<br>C/O KALYANI MATERNITY & NURSING HOME<br>RANA BHAWAN, PWD OFFICE COMPOUND<br>OPP.DIVEKAR AUTO WORKS<br>PADAMPURA<br>AURANGABAD 431005 | ACA 08/12/2000 | 281 | 205787 | Mr. MANIKARNIKE SAMPATH<br>SHRIKANTH<br>C/O MR M SAMPATHKUMARAN<br>608 SHASTRI KIRAN APARTMENTS<br>18TH CROSS MALLESWARAM WEST<br>BANGALORE 560055 | ACA28/08/2002 |
| 271 | 108018 | Mr NOORANI KARIM KABIR<br>19/305 SULTANABAD BHUVAN<br>BEHRAM BAUG ROAD<br>JOGESHWARI WEST<br>MUMBAI 400102  | ACA 08/12/2000 |     |        |  |               |
| 272 | 108045 | Mr SUDHIR<br>GOPALDAS KABRA<br>502 GOVIND GAURAV APTS SWANAND SOC<br>LANE NO. 1 SAHAKARNAGAR NO. 2<br>PUNE 411009   | ACA 08/12/2000 |     |        |  |               |
| 273 | 108084 | Mr ANAND KUMAR<br>ICICI LIMITED<br>BANDRA KURLA COMPLEX<br>BANDRA EAST<br>MUMBAI 400051   | ACA12/04/2002  |     |        |  |               |
| 274 | 108331 | Mr BHARAKHADA BHARAT<br>C/O NARENDRA N VAGHELA<br>7 KRUSHNADHAM APTS<br>NR PUNIT ASHRAM KANKARIA<br>MANINAGAR<br>AHMEDABAD 380009   | ACA 05/06/2002 |     |        |  |               |
| 275 | 108332 | Mr UMESH MOHAN JADHAV<br>15/47 PROGRESSIVE BUILDING<br>DOCTOR'S COMPOUND<br>CHINCHPOKLI<br>MUMBAI 400012  | ACA09/04/2002  |     |        |  |               |
| 276 | 108482 | Mr RAGHUVIR<br>KIRTILAL JHAVERI<br>P C HANSOTIA AND CO<br>MAHJOTRA HOUSE<br>4TH FLOOR<br>OPP G.P.O<br>MUMBAI 400001   | ACA 06/06/2002 |     |        |  |               |
| 277 | 108842 | Mr SRINEVASAN<br>RAMAMOORTHY IYER<br>FLAT NO 9/5, SECTOR 18<br>SCHEME NO 1, MAHATMA PHULE NAGAR,<br>CHINCHWAD,<br>PUNE 411019   | ACA14/05/2002  |     |        |  |               |
| 278 | 109001 | Mr KAUSHIK KUMAR SHAH<br>B/402, GOPINATH TERRACE<br>SATYA NAGAR OPP SHREEPAL NGR<br>BH SAIBABA NAGAR BORIVALI [W]<br>MUMBAI 400092  | ACA03/05/2002  |     |        |  |               |
| 279 | 201629 | Mr. SUBRAMANIAN K<br>P O BOX 47<br>PC 327 SAHAR INDUSTRIAL ESTATE<br>SULTANATE OF OMAN 0  | ACA18/06/2002  |     |        |  |               |

*A. H. H.*  
(Dr. ASHOK HALDIA)

SECRETARY

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF  
INDIA**  
**27, Cuffe Parade, Colaba. Mumbai – 400 005.**

Mumbai-400 005, the 24th June 2003

(Chartered Accountants)

3WCA(8)/2/2002-2003 In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10 (i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S.No.	MRN	Member Name & Address
1	002894	Mr. MEHTA GHANASHYAM GIRDHARLAL G G MEHTA & CO ROOM NO 10A PAREKH-VORA CHAMBERS 66 NAGINDAS MASTER RD FORT MUMBAI-400023 FCA01/04/2002
2	003829	Mr. JOSHI VINAYAK VASUDEO LAXMI SADAN 1ST FLOOR PLOT NO 69 DR M B RAUT ROAD DADAR MUMBAI-400028 FCA31/03/2003
3	004253	Mr. JHAVERI JITENDRA BHOGLILAL 101, KASHYAP COMPLEX PRODUCTIVITY RD. VADODARA-390007 FCA01/04/2001
4	004652	Mr. HUKKAWALA ISMAIL UMARBHAI C/O UNITED TOURING COMPANY (ARABIA) LLC, POST BOX 29470, DUBAI-0 U.A.E. FCA01/04/2002
5	005710	Mr. KESKAR NARAYAN GANESH FLAT 302-A, OMKAR, 88, BAL GOVINDAS ROAD MAHIM MUMBAI-400016 FCA01/04/2002
6	005935	Mr. TRIVEDI PRADYUMNA DAMODARDAS 6, MILAN PARK, NIZAMPURA, VADODARA-390002 FCA01/04/2002
7	006851	Mr. KANNAN K 576 B MAHESH JAME JAMSHED ROAD MATUNGA MUMBAI-400019 FCA01/04/2002
8	007506	Mr. WAGHELA VIJAY SINGH 204 AVANEESH APTS BEHIND DEVDEEP COMMERCIAL COMPLEX NIZAMPURA VADODARA-390002 ACA01/04/2002

9	008872	Mr. SAMPAT VITHALDAS PURSHOTAMDAS MEGHDEEP, FLAT NO.3, 47, SWASTIC SOCIETY, N.M.ROAD, J V P D SCHEME VILE PARLE (WEST)) MUMBAI-400056 FCA25/10/2002
10	009202	Mr. DESAI ANILKUMAR MAGANLAL ANIL DESAI & CO FF-26, AVISHKAR COMPLEX OLD PADRA RD VADODARA-390015 FCA01/01/2003
11	009253	Mr. KRISHNAMURTHY V C/O PRIME BANK LTD., KENINDIA HOUSE, 8TH FLOOR, LOTIA STREET POST BOX NO.43825 NAIROBI-00 KENYA FCA04/01/2002
12	009485	Mr. MOHNOT Nihalchand J 302 ANSHUMAN 49 C D BARTHWALA MARG (JHU, LANE) ANDHERI (W) MUMBAI-400058 FCA01/07/2002
13	009718	Mr. SHAH VIJAY SHANTILAL V.S.SHAH & COMPANY 9 KRISHNA COMPLEX AMBARAI ROAD SANGLI-416416 FCA29/07/2002
14	010008	Mr. TRILOKINATH BANSAL 202, SHAILESH TOWERS, 'B' WING, SECTOR 19A, NERUL, NAVI MUMBAI-400705 FCA 03/09/2002
15	013694	Mr. SONI JETH MAL C/O GUJRAT CO. OP. MILK MARKETING, FEDERATION LTD., AMUL DIARY ROAD, GUJRAT ANAND-388001 FCA01/04/2002
16	014680	Mr. YARDI MADHAV BHASKAR F-1 ADINATH C.H.S. LTD., SHAIKH MISRI ROAD ANTOP HILL WADALA MUMBAI-400037 FCA 01/09/2002
17	017710	Mr. VIJAYKUMAR SHYAMLAL CHOKSI B/106, DATTANI NAGAR, BLDG 3, S. V. ROAD, BORIVALI (WEST) MUMBAI-400092 ACA10/02/2003
18	017734	Mr. GANERIWALA RAMKARAN 201-A, GAUTAM NAGAR, DUTTA MANDIR ROAD, MALAD EAST MUMBAI-400097 FCA24/06/2002
19	022674	Mr. K NANTHAKUMAR MAFATLAL BURLINGTON INDUSTRIES LIMITED 'APSARA HOUSE' 1ST FLOOR 7 S V ROAD SANTACRUZ (WEST) MUMBAI-400054 ACA17/06/2002



20	024969	Mr. JERRY KURIAN H.NO.7-1-414/23/A, PLOT NO.34, SRINIVASA COLONY (EAST) S.R. NAGAR, HYDERABAD-500038	FCA10/06/2002	30	034489	Mr. DESAI ATUL BHUPATLAL FLAT NO. A/11 JAY AMBE JYOT 2ND FL., PLOT NO. 154 GARODIA NAGAR GHATKOPAR (EAST) MUMBAI-400077	FCA01/04/2002
21	026929	Mr. S G KURUWATTI 8/503, TULSIDHAM, GHODBUNDER ROAD, THANE (WEST), THANE-400607	ACA 31/03/2002	31	034675	Mr. KABRA SHANTILAL D/102, "AKASH" JUDGES BUNGLOW ROAD, BODAKDEV, AHMEDABAD-380054	FCA 01/10/2002
22	031033	Mr. FARID MOHOMED IKHLAS MUSHTAQ AHMED MGR FINANCE & ADMINISTRATION KHAILD ELEC & MECH EST (KEMCO) P O BOX 2642 DOHA-Q	FCA30/07/2002	32	034969	Mr. PAREKH PREMAL VIRENDRA ERNST & YOUNG PVT. LTD EXPRESS TOWER, 18TH FLOOR, NARIMAN POINT, MUMBAI-400021	FCA08/08/2002
23	031258	Mr. SHAH VINODKUMAR MAGANLAL 802, AASHUTOSH BUILDING, 8TH FLOOR, KURLA TERMINUS ROAD, NEW TILAK NAGAR, CHEMBUR MUMBAI-400089	ACA17/06/2002	33	035241	Mr. SAMPAT JAYESH RAMESH TEJPAL BLDG. 3RD FLOOR ROOM NO.1 PAAN GALLI HUGHES ROAD MUMBAI-400007	FCA20/11/2002
24	031522	Ms. DESAI USHAPRABHA KRISHNA FLAT NO. 6 'B' BUILDING MAURYA VIHAR KOTHRUD PUNE-411029	FCA01/04/2002	34	036545	Mr. BINANI KAMALKUMAR SHANKARLAL 53 HANUMAN BUILDING, 3RD FLOOR, OPP CENTRAL LIBRARY, FORT MUMBAI-400001	FCA24/02/2003
25	031644	Mr. TALWAR SUBODH SADANAND S S TALWAR & CO 401 BENLIZ DR PETER DIAS RD BANDRA W MUMBAI-400050	FCA24/06/2002	35	036564	Mr. VIJAYANAGAR SUNIL PADMANATH B/2, GANGA ESTATE, ATUR PARK, CHEMBUR, MUMBAI-400071	ACA 31/03/2003
26	031657	Mr. SHAH CHAITANYA SOMALAL BALKRISHNA NIWAS 3RD FLDOR L N ROAD MATUNGA CENTRAL RAILWAY MUMBAI-400019	ACA01/04/2002	36	037153	Mr. PALKAR ABHAY VITHAL A.V.PALKAR & CO. B-42 UTTARA APTS. NR.JANKALYAN NAGAR MARVERD MALAD W MUMBAI-400095	FCA01/04/2002
27	032895	Mr. SUHAS JAGANNATH AHIRRAO. B/11, ANANDVAN HERIGAGE, ANANDNAGAR, SINHGAD RAOD, PUNE-411051	ACA01/07/2002	37	037550	Mr. RAGHAVAN VENKATESWARAN M/S V RAGHAVAN & ASSOCIATES C/24-104,ANANT, VASANT VIHAR POKHAN NO 2 THANE-400601	ACA12/03/2003
28	033320	Mr. VENKATESWARAN RAMACHANDRAN 24/104 ANANT VASANT VIHAR II PORKAN ROAD THANE-400601	FCA04/03/2003	38	037614	Mr. NAUSHIR HOMI ENGINEER M/S N H ENGINEER ASSOCIATES ORICON HOUSE, 4TH FLOOR, 14, K. DUBASH MARG MUMBAI-400023	ACA01/04/2002
29	034131	Mr. DHRUVA RAJESH HASUBHAI 220 "AMRUT" SARDAR NAGAR MAIN ROAD, RAJKOT-360001	FCA02/07/2002	39	037669	Mr. KATKORIA DEEPAK AMRITLAL 15 PIROJA MANSION OPP GRANT ROAD (EAST) MUMBAI-400007	FCA09/07/2002
				40	038115	Mr. ZAVERI PARUL DHANESHBHAI B/307, "GITANJALI", VASWANI MARG, SEVEN BUNGLOWS, ANDHERI WEST, MUMBAI-400053	ACA28/03/2002

41	038205	Mr. DESHMUKH SAMEER ANANT A3/101, HARASIDDH PARK POKHRAN ROAD NO 2 THANE (WEST), THANE-400601	ACA11/10/2002	51	041068	Mr. SHAH DILIPKUMAR JAYANTILAL 9, RUBY MANSION, FORJEET STREET GOWALIA TANK GRANT ROAD MUMBAI-400036	ACA30/09/2002
42	038318	Mr. SHAILESH K BHAYANI VAIBHAV 2A A WING, 2ND FLOOR, 140 S V RD OPP IRLA NURSING HOME, VILE PARLE W MUMBAI-400056	FCA27/03/2002	52	041624	Mr. BAKSHI DHAWAL GIRISH K 66-67 BEHIND GOLD COIN RESTAURANT MOTA BAZAR GANDHI MARG DIST ANAND VALLABH VIDYANAGAR-388120	ACA13/03/2003
43	038476	Mr. PANKAJ DHANSUKHLAL DANI 402 ANKUR APARTMENTS 51 JUHU LANE ANDHERI (WEST) MUMBAI-400058	FCA01/04/2001	53	041823	Mr. JATIN KUMAR BHARAT KUMAR JARIWALA 2 PARSHWA NAGAR SOCIETY NEW SHARDA MANDIR ROAD AHMEDABAD-380007	ACA01/04/2002
44	039333	Mr. KULKARNI AJAY BHALCHANDRA 14, DAYA, S.B.I COLONY, S.V. ROAD, THANE-400602	FCA16/01/2003	54	041826	Mr. SHAH JAYESH HASMUKHLAL 15-A BHARTI NIVAS SOCIETY, NR. NAGRI EYE HOSPITAL, ELLISBRIDGE, AHMEDABAD-380006	FCA 09/12/2002
45	039382	Mr. IYER GANESH SUBRAMANIAM RAMAMURTHY B-707 & 708, MARGALAM APTS THAKUR COMPLEX, WESTERN EXPRESS HIGHWAY, KANDIVLI (E) MUMBAI-400101	ACA01/04/2002	55	041893	Mr. PARAG ANANTRAI VYAS 12 BEST VIEW RAGHAVJI ROAD GOWALIA TANK MUMBAI-400036	FCA01/04/2002
46	039512	Mr. CHHEDA RAMESH DAMJI RAMESH D. CHHEDA & CO., RADHA APT. GR.FL OFFICE NO.1 BARVE MARG, NR. KURLA BUS DEPOT SIGNAL KURLA-W- MUMBAI-400070	ACA01/12/2002	56	042018	Mr. BAGRECHA ANANDKUMAR C/O M/S SUZLON ENERGY LTD 5 TH FLOOR GODREJ MILLENIUM 9 KOREGAON PARK ROAD PUNE-411001	FCA03/01/2003
47	040040	Ms. GEETA SUBODH KACHHELA A/11 KESHAV APTS S NEAR MANAV MANDIR MEMNAGAR AHMEDABAD-380052	ACA01/04/2002	57	042258	Ms. PARIKH JASMIN BHAVESH 140 PRINCESS STREET SHAMALDAS GANDHI MARG PARSHWA DEEP 4TH FLOOR MUMBAI-400002	FCA21/01/2003
48	040133	Mr. BHATT DHRUNAL YAGNESH 39 USHADIP SOCIETY AHMEDABAD-380015	FCA01/04/2002	58	042457	Mr. BORICHA MAHENDRA VIRJIBHAI 196, GURUSEVAK KUTIR, STATION ROAD, WADALA, MUMBAI-400031	FCA25/02/2003
49	040582	Mr. BHEDA SUDHIR SHIVJI FLAT NO 12, SRI SAI DARSHAN APT ABOVE AKBAR ALLYS S.V. ROAD SANTACRUZ WEST MUMBAI-400054	FCA01/12/2002	59	042824	Mr. JASUJA SAMEER C-8, VASANT KUNJ (C/8) NORTH AVENUE SANTACRUZ(W) MUMBAI-400054	ACA 01/04/2002
50	040989	Mr. MUNOT CHETAN PRAKASH A/12 NAND DHAM BANGUR NAGAR GOREGAON (WEST) MUMBAI-0	ACA27/03/2003	60	043184	Mr. KUMAR PARAMESWARAN IYER 301 EI VALLEY TOWERS AGARWAL ESTATE S V ROAD MANPADA THANE-400607	FCA01/04/2002
				61	043206	Mr. MEHTA HITEN P BLDG NO 80 B FLAT NO 14 BRINDAVAN SOCIETY THANE WEST THANE-400601	ACA28/09/2000

62	044016	Mr. ALWANI ANIL RAMCHAND 71-2, A-1, APTS, 270, WALKESHWAR ROAD, MUMBAI-400006	ACA01/04/2002	73	045081	Mr. JAYANTILAL DANGI A/14 PRARTHANA BUILDING SWAGTAM COMPLEX JESAL PARK BHAYANDAR EAST BHAYANDAR-401105	FCA01/04/2002
63	044122	Mr. MEHTA DIVYESH PRAVINCHANDRA A-2, 404, SAKET COMPLEX MAJIWADE THANE - WEST THANE-400601	FCA26/12/2002	74	045095	Ms. SANGITA ANILKUMAR PODDAR 303-B, PAYAL ASHA NAGAR KANDIVALI (EAST) MUMBAI-400101	ACA 16/07/2002
64	044157	Mr. TOSHNIWAL BRIJ MOHAN G-5, SATYA NARAYAN BHAVAN, DR. R.G. THADANI MARG, OFF WORLI SEA FACE, MUMBAI-400018	FCA11/11/2002	75	045179	Mr. MAKHIJA MAHESH MOTILAL A-2/7, KRIPA NAGAR S V ROAD IRLA VILE PARLE - WEST MUMBAI-400056	ACA24/03/2003
65	044436	Ms. SUTARIA CHETNA PARESH SUTARIA ASSOCIATES B-283, SATYAM SHOPPING CENTRE MEZ FLOOR, M.G.ROAD GHATKOPAR (E) MUMBAI-400077	FCA16/01/2003	76	045446	Mr. FERNANDES CAJETAN FRANCIS 60-D, TWINKLE KALINA CHURCH CROSS ROAD SANTACRUZ - EAST MUMBAI-400029	ACA01/12/2002
66	044509	Mr. JAIN SUSHIL SAYARCHAND 702, RADHA KUNJ 'B' NIVETIA ROAD MALAD (EAST) MUMBAI-400097	ACA11/11/2002	77	045492	Mr. RAGHUNATH SUBRAMANIAN FLAT NO 9 GAYATRI 140 A LOKAMANYA TILAK ROAD MULUND EAST MUMBAI-400081	ACA23/12/2002
67	044663	Mr. HITESH NARENDRAKUMAR SHAH 33 GURUKRUPA APTS 9TH FLOOR N C KELKAR RD DADAR WEST MUMBAI-400028	FCA01/04/2002	78	045585	Mr. ANJARIA DHAIVAT A 13/401 MHADA COMPLEX OPP OSHIVARA POLICE STATION OFF LINK ROAD ANDHERI WEST MUMBAI-400053	ACA01/04/2002
68	044699	Ms. POPAT VARSHA INDUKUMAR MATRU-SMRUTI, S B S STAFF SCTY SAHAKARNAGAR MAIN RD NR AMRAPALI CINEMA RAJKOT-360001	FCA20/09/2002	79	045704	Mr. MOHAMMAD SALIM UMARBHAI MAKWANA ASMAK INTERNATIONAL FISH FARMING CO P J S C P O BOX 32872 DUBAI-0 UAE	FCA 01/04/2002
69	044727	Mr. JAYESH CHANDRAVADAN KANSARA 303/A COZY HOME, OVARI PADA SHRAMDAN ROAD DAHISAR EAST MUMBAI-400068	ACA09/07/2002	80	046181	Mr. GUJAR KIRAN GOVARDHAN B/202 P&T SOCIETY TARUN BHARAT CHAKALA, SAHAR, ANDHERI-EAST MUMBAI-400099	FCA01/04/2002
70	044799	Ms. WASUDHA S KORKE 1246 'A' APTE ROAD SHIVAJI NAGAR, PUNE PUNE-411004	FCA24/03/2003	81	046398	Mr. DEORA DINESH KUMAR VISHWAMYHAL C-22, PANORAMA PARK, SHIV VALLABH ROAD, ASHOK VAN, DAHISAR (E) MUMBAI-400068	ACA14/06/2001
71	044877	Mr. ATUL BABULAL SHAH MAHAVIR DHAM A/1A, 48/51, GARODIA NAGAR, GHATKOPAR EAST MUMBAI-400077	ACA15/05/2002	82	046539	Mr. AGRAWAL SHASHIKANT RADHESHYAM OPP AGRAWAL COMPLEX LOHA OLI ITWARI NAGPUR-440002	FCA09/09/2002
72	045070	Mr. MALKANI SURESH NARAYANDAS 3 MEHTA MANSION SITALADEVI TEMPLE ROAD MAHIM MUMBAI-400016	FCA31/03/2002				

83	046739	Mr. DHUPAR NARENDRA 709 HEMKOOT COMPLEX OPP NEHRU BRIDGE ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380009	FCA18/10/2002	94	049305	Mr. DIVEKAR SANDIP GANESH A-1, BHASKAR CO-OP SOC. MURLIDHAR LANE, TILAK CHOWK, KALYAN-421301	ACA11/09/2002
84	047353	Mr. JAYANTILAL BABULAL JAIN 302 GIRNAR TOWER SETH MOTISHA LANE (LOVE LANE) NEXT TO MAZGAON TELEPHONE EXCHANGE BYCULLA MUMBAI-400010	ACA01/04/2002	95	049447	Mrs. POONAM SUNIL BAJPAI A-9/101 LOKNAGRI MIDC ROAD AMBARNATH (E) THANE-421506	ACA21/12/2001
85	047722	Mr. CHANDIRAMANI SUNIL REWACHAND 3/3-A, SKY SCRAPER B DESAI ROAD MUMBAI-400026	FCA19/09/2002	96	049542	Mr. TOSHNIWAL RAMESH CHANDRA A/303 ADESHWAR KRUPA SHANTI PARK MIRA ROAD-EAST MIRA ROAD-401107	ACA 09/07/2002
86	047793	Ms. D'SILVA EDYLL MARIE-CLAIRE 201 CROWN PALACE 23RD ROAD BANDRA MUMBAI-400050	FCA 01/05/2001	97	049808	Ms. MANISHA GAUTAM PANSARE 917/19 B, F C RD NEAR BRITISH LIBRARY PUNE-411004	ACA01/01/2003
87	048026	Mr. DILIPKUMAR B MEHTA 101, CHARKOP SHREE SWAMI CHS LTD PLOT NO.220, SECTOR 5, CHARKOP KANDIVLI (W) MUMBAI-400067	ACA23/08/2002	98	049830	Mr. THAKKAR YOGESH JAYANTILAL SOHNI SDS 102 P N 156 KHARE TOWN NAGPUR-440022	ACA12/08/2002
88	048111	Mr. MOHTA NAVEEN C/O RAJRATAN R MOHTA 43 TAMRIND LANE RAJA BAHADUR COMPOUND BLDG NO 5 4TH FLOOR FORT MUMBAI-400023	ACA 01/07/2001	99	056484	Ms SINHA CHAITALI FLAT NO 702 WILNOMONA 62-B PALI HILL ROAD BANDRA MUMBAI-400050	ACA01/04/2002
89	048261	Mr. KHETAN RAKESH TUNARAM B-3/404 VITHOBA KRIPA CHS NEAR MASOBA TEMPLE KALYAN WEST KALYAN-0	ACA01/04/2002	100	058217	Mr. BAPNA SANJEEV C/O KANOO LIWA TRADING W L L P O BOX NO 54771 J C PENNEY COLLECTIONS SEEF MALL BAHRAIN-0	ACA 30/04/2002
90	048692	Mr. MORE RAJESH KRISHNA 6, OMVIVEKANAND, C.H.S. SHIV CRUSPTI, KURLA EAST, MUMBAI-400024	ACA13/03/2003	101	060211	Mr. BAHETI PANKAJ C/O R R MAHESHWARI B-405/406 BALLARINA, LOKHANDWALA COMPLEX CROSS ROAD NO 3 NEAR HIGH POINT RESTAURANT, ANDHERI (W) MUMBAI-400053	ACA30/03/2003
91	048824	Ms. PADMA SOPAN SHINDE C-103/104, RAVI ESTATE OFF: POKHRAN RD NO.1, OPP: DEV DAYANAGAR THANE (W) THANE-400606	ACA13/09/2002	102	075437	Ms. GUPTA PREETI B 604 BALLERINA CHS 3RD CROSS ROAD LOKHANDWALA ANDHERI (W) MUMBAI-400053	ACA01/08/2002
92	049059	Mrs. JYOTI RAJIV WALUNJ 206 / 2 RAJARSHI SHAHU CHS SANE GURUJI NAGAR 90 FT ROAD MULUND - EAST MUMBAI-400081	ACA17/07/2002	103	075508	Mr. SANJAY KUMAR DHOKA C/O HGI INDUSTRIES LTD., NEAR BASKA HALOL-389350 GUJARAT	ACA20/12/2002
93	049116	Mr. KARMARKAR NITEEN SUDHAKAR E-7, HIGHWAY RESIDENCY WADAGAON (B) PUNE-411041	ACA22/11/2002	104	075624	Mr. SATISH KUMAR KHANDELWAL F-401 SRINANDNAGAR PART - II, VEJALPUR AHMEDABAD-380051	FCA 01/04/2002

105	075664	Mr. RAJMAL NAHAR A 403 SONI PARK I CHIKKAWADI SIMPOLI VILLAGE BORIVALI (W) MUMBAI-400092	FCA 06/11/2001	116	101691	Mr. SAMANT NITIN SHAMSUNDAR 403, B/2, RUTUPARK, NEAR VRINDAVAN BUS STOP MASIWADA, THANE (WEST) THANE-400601	ACA31/03/2002
106	077028	Mr. SHEKHAR BHANDARI C/O DR VINOD C MEHTA NAVEEN CHANDRA BUILDING 78 VITHAL WADI, KALBADEVI RD, MUMBAI-400002	ACA30/03/2002	117	101788	Ms. TRUPTI BHAVIN SHAH VISAMO, OPP JAIN UPSARYA, NR LAL BAUG CHANDI BAZAR JAMNAGAR-361001	ACA01/04/2002
107	077072	Mrs. SUNITA JAIN FLAT NO 402, MANGALPURI CO-OP HSG SOCIETY LTD ANAND MAHAL ROAD, VEER ARJUN MARG ADAJAN SURAT-395009	ACA01/04/2002	118	102217	Mr. DESAI RAJESH BABURAO 5/503, B WING SAPREM CHS LTD SHREE LAXMI PARK PHASE I LOKMANYA NAGAR NO 2 THANE-400606	ACA 31/03/2002
108	079366	Mr. BANSAL RAKESH BHARTI CELLULAR LIMITED BHARTI HOUSE NEAR INCOME TAX OFFICE ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380009	ACA01/04/2002	119	102394	Mr. TRIVEDI NAMIT SAMIRBHAI EVERSHINE MILLENIUM PARADISE EMPO1/201 MERCURY THAKUR VILLAGE KANDIVALI EAST MUMBAI-400101	ACA25/11/2002
109	079668	Mr. MANGAL MUKESH C/O MR P M MANGAL 49 A MANGAL KUNJ SHRIRAM MARG PAL ROAD JODHPUR-0	ACA19/03/2003	120	102409	Ms. PAREKH CHARU SANJAY 7, MAYUR PANKH, N S ROAD, MULUND -W, MUMBAI-400080	ACA31/03/2002
110	100017	Mr. DAVE SAMEER JITENDRA A/6, KESARBAN SOCIETY 3RD ROAD T P S III SANTACRUZ (EAST) MUMBAI-400055	ACA07/03/2003	121	102684	Mrs. SAMIDHA SAMEER PANDIT 91M, ROOM NO.17, 2ND FLOOR KOLIWADI FANASWADI SITARAM POTDAR MARG MUMBAI-400002	ACA14/02/2002
111	100626	Mr. PANDYA JIGNESH GHANSHYAM A-24 MIRANI NAGAR GANESH GAWDE ROAD, MULUND WEST MUMBAI-400080	ACA14/02/2003	122	103083	Ms. MULCHANDANI ANITA ARJUN 63, JUHU GAURAV, GULMOHAR CROSS ROAD NO. 11, J V P D SCHEME, MUMBAI-400049	ACA19/03/2003
112	100745	Ms. MEENA BALKRISHNA SALUNKHE 145/4940, SHARAYU TIRTH NEHRU NAGAR KURLA-EAST MUMBAI-400024	ACA01/11/2001	123	103096	Mr. ARORA NARENDRA LAXMAN 1, ANJURKAR HOUSE, DHOBI ALI THANE-400601	ACA01/04/2001
113	100983	Mr. BHARDWAJ RAJESHKUMAR DILIPKUMAR C-9 KAMLA APARTMENTS NEAR SHREYAS CROSSING AMBAWADI AHMEDABAD-380015	ACA 21/03/2003	124	103423	Mr. TALEKAR SWAPNIL SHRIKANT 32, "SAURASHI" BUILDING, III FLOOR HARGOVINDAS SANITORIUM LANE ANDHERI-KURLA RD, ANDHERI (E) MUMBAI-400069	ACA05/12/2002
114	101060	Mr. YOGESH SANTOSH PATKI 8 POORTI SENAPATI BAPAT MARG MATUNGA MUMBAI-400016	ACA 21/03/2003	125	103472	Mr. SAPRE KEDAR VITTHAL FLAT NO AF-6 ANNAPURNA APARTMENTS NEAR GOMANTAK PRESS ST.INEZ PANAJI GOA-403001	ACA 01/04/2002
115	101294	Ms. GIRA KANUBHAI GANDHI FLAT NO.11, SAPTARISHI, 7, PRATAPGUNJ, VADODARA-380 002	ACA 01/04/2002				

126	103481	Ms. SHAH NEHAL KIRTIKUMAR B/11, VIMAL APTS., JUHU LANE, ANDHERI -W, MUMBAI-400058	ACA09/10/2002	138	105482	Mr CHETAN VISHNU AGARWAL C-207 ANUBHAV CO OP HSG SOCY LTD OPP RAJA INDUSTRIAL ESTATE P K ROAD EXTN SARVODAYA NAGAR MULUND WEST MUMBAI-400080	ACA11/10/2002
127	103528	Mr. NAGORI PRADEEP ROOPLAL 353, SHANIWAR PETH SATARA-415002	ACA 20/03/2003	139	105552	Ms SAILATA GOPALAN A-604 KRISHNA TOWERS JAYA NAGAR LINK ROAD OFF C S ROAD II DAHISAR EAST MUMBAI-400088	ACA31/03/2002
128	103539	Mr. JOSHI MAHESH MADHAV 9, NEW SAVITRI NIWAS BHIMANI STREET MATUNGA (C.R.) MUMBAI-400019	ACA01/04/2002	140	105588	Mr JAIDEV RAMESH SHUKLA PLOT NO 13 RAVIKA, GULMOHAR ROAD J V P D SCHEME MUMBAI-400049	ACA14/08/2001
129	103540	Ms. DIVEKAR GAURI RAMESH ANRIT KUMAR SOCIETY CHITRA A-4, BHAVANI SHANKAR RD. DADAR MUMBAI-400028	ACA 01/04/2002	141	105732	Mr GIRISHKUMAR RADHESHYAM DARAK RELIANCE INFORCOMM LTD MCN KH NO 156 158, OPP KRISHI UPAJ MANDI DINDAYAL UPPADHYAYA WARD MADHO TAJ MANMOHAN NAGAR JABALPUR-0	ACA27/03/2002
130	103612	Ms. MOHILE SHUBHADA MADHUKAR 303, DAFFODI 2A LOKANDWALA COMPLEX AKRULI RD., KANDIVALI (E) MUMBAI-400101	ACA17/09/2002	142	105736	Mr SHARMA PRAMOD C/O DINESH HISARIA ROSE LAND, HOLY CORSS ROAD I.C. COLONY BORIVALI-W MUMBAI-400103	ACA18/09/2002
131	103915	Mr. AJAY SHASHIKANT AGASHE B-5, RAGHUVIR SOCIETY TILAK NAGAR THANE-400603	ACA 01/04/2002	143	106080	Mr MANDAR SURENDRA PATANKAR B 52 INDRAYANI COMPLEX J K SAWANT MARG DADAR WEST MUMBAI-400028	ACA18/02/2003
132	104122	Mr. AGARWAL VIKAS PURSOTAM 24 CARNAC SIDING ROAD SAKKAR GALI IRON MARRKET MUMBAI-400009	ACA16/09/2002	144	106100	Mr NARENDRA SURESH JOSHI V-8/003 ASHOKVAN BORIVALI EAST MUMBAI-400068	ACA02/09/2002
133	104617	Mr. RAJESH R MAHESHWARI N8/13, GANPATI NIWAS BANGUR NAGAR GOREGAON (W) MUMBAI-400090	ACA01/04/2002	145	106106	Mr RAJANI SURESH NEKUMAL C 7/37 LAWRENCE ROAD KESHAVPURAM NEW DELHI-110035	ACA 15/02/2003
134	105085	Mr SANJAY PUKHRAJ JAIN 302, SHIVNERI, KHADILKAR ROAD MUMBAI-400004	ACA07/09/2001	146	106166	Mr SHAILESH ANANT MEHENDALE 17/385, VIJAY NAGAR SOCIETY S.N ROAD ANDHERI -EAST MUMBAI-400069	ACA31/05/2001
135	105113	Mr RAHUL SUBHASH BAHETI 859, KASBA PETH PUNE-411011	ACA30/12/2002	147	106256	Ms NEELAM SHANTARAM SAWANT 16 KRANTIVEER VEER RAJGURU MARG GIRGAON MUMBAI-400004	ACA 25/02/2003
136	105148	Mr RANJAN BALKRISHNA PRABHU B-701 MANGAL MURTI LIBERTY GARDEN RD NO 1 MALAD WEST MUMBAI-400064	ACA01/04/2002				
137	105241	Mr DIPAK BABULAL BHAVSAR 26 TULSIMHAR SOCIETY NR KHANPUR AHMEDABAD-380001	ACA28/05/2002				

148	106349	Mr MADHUR RAMESH GUNDECHA 2 MEGHADOOD* 80, CANAL ROAD, RAMDAS PETH, NAGPUR-440010	ACA01/04/2002	158	107460	Mrs. BARNALI SWAPNIL TALEKAR 704 YOGAYOG 7TH FLOOR PARANJAPE NAGAR OFF LT ROAD BORIVALI-W MUMBAI-400092	ACA05/12/2002
149	106380	Mr MANISH ANANTRAI JOSHI 13/102, ANAND NAGAR NEHRU ROAD SANTACRUZ -EAST MUMBAI-400055	ACA17/01/2003	159	107589	Mrs. DEEPAJI ANAND APHALE 2, GURUKRIPA BABREKAR MARG GOKHALE ROAD -N DADAR MUMBAI-400028	ACA12/03/2003
150	106476	Mr DHARMESHKUMAR VINODCHANDRA KAPADIA 1/5 LAMBIE DRIVE MANUKAU AUCKLAND 1702 NEW ZEALAND-0 USA	ACA 01/04/2002	160	107793	Mr HITESH RAVINDRA TRIPATHI C/40/104 SECTOR 10 SHREE POOJA SHANTINAGAR CHS LTD SHANTI NAGAR DIST THANE MIRA ROAD EAST MIRA ROAD-401107	ACA29/04/2002
151	106523	Mr KAUSHIK SURESH GAGLANI 20/3 YAMUNA SOC AZAD ROAD ANDHERI (E) MUMBAI-400089	ACA11/09/2002	161	107974	Mr PRASANNA PRASHAM PHADNIS D/4 SHEETAL C H S LTD NEAR K G HIGH SCHOOL AGASHI VIRAR/WEST TAL VASAI- AGASHI VASAI-401301	ACA17/03/2003
152	106602	Mr DEVANG SUSHILKUMAR DOSHI 4/7 BHATRUCHHAYA NIWAS GOKHALE ROAD VILE PARLE [EAST] MUMBAI-400057	ACA24/12/2002	162	108137	Ms KANDOI MEGHNA MURARI C/O M S BAMECHA FLAT NO G / 2 UJJWAL NAGAR OPP S T STAND AHMEDNAGAR-414001	ACA02/09/2002
153	106696	Mr SANTOSH KUMAR C/O M/S J C FABRICS KARSANDAS MULJI BUILDING SHOP NO - 13, SECOND FLOOR, FIRST CROSS LANE, A-1, OLD HANUMAN, KALBADEVI ROAD MUMBAI-400002	ACA05/07/2002	163	108195	Mr ASHWIN BALAKRISHNA PILLAI CORPORATION BANK FINANCIAL RISK MANAGEMENT DIVISION P B NO 88 MANGALADEVI TEMPLE ROAD MANGALORE-575001	ACA16/08/2002
154	107106	Mr SINGH MANOJ TYPE IIIIB 470 H A L TOWNSHIP OJHAR NASHIK-422207	ACA23/10/2002	164	108341	Mr KEDAR V BADE 8 SABHAKUNJ NO 4 BRAHMAN SABHA ROAD MALAD [W] MUMBAI-400064	ACA29/04/2002
155	107261	Mr DHARMESH PURUSHOTTAMBHAI PATEL M-262/3139 SUNDARVAN APT. SOLA ROAD NARANPURA AHMEDABAD-380061	ACA28/02/2002	165	108492	Mr NIRAJ ONKARNATH KHANDELWAL 15/53 TRIVENI CO-OP HSG SOC ADARSH NAGAR OPP KAMAT CLUB NEW LINK ROAD JOGESHWARI WEST MUMBAI-400102	ACA 23/08/2002
156	107373	Mrs. DIPALI SHRIDUTT PEDNEKAR A-10, G H KULKARNI COMPLEX NEAR SAHAWAR CHOWK NEAR VITHAL MANDIR KARVE NAGAR PUNE-411052	ACA01/04/2002	166	108494	Mr NITIN KISHANMAL MEHTA 6 PREMCHAN HOUSE HIGH COURT WAY ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380009	ACA18/06/2002
157	107434	Mr KHANCHANDANI KAMLESH 708, SINDHI COLONY SECOND FLOOR KATRAK ROAD WADALA MUMBAI-400031	ACA 27/01/2003	167	108637	Ms AMISHA PRAVINCHANDRA SHAH 202, DEVANGAN APARTMENTS OPP. NABARD VIHAR BLDG. 56 SARDAR PATEL NAGAR ELLISBRIDGE NAVRANG PURA AHMEDABAD-380006	ACA31/03/2002

168	108751	Mr SACHIN ASHOK KUMAR MEHTA 12 HEM SMRUTI . LIC COLONY DR R P ROAD MULUND WEST MUMBAI-400080	ACA19/06/2002	179	109737	Mr RAJESH KANTILAL KAKARIYA 10 A PAHILAJ KUNJ GROUND FLOOR LOHAR ALI NEAR LAXMI BOOK DEPOT THANE (WEST) THANE-400601	ACA 01/04/2002
169	108968	Mr MURTUZA SHABBIR MASTER 6 MOHAMMADI MANZIL, SAFEE SOCIETY, SARASPUR, AHMEDABAD-380018	ACA 27/09/2002	180	109800	Mr KAVISH ISHWARI PRASAD SHARMA 44 BABULNATH CHAWL CHOWPATTY MUMBAI-400007	ACA 31/03/2002
170	109148	Mr. PRATYUSH SHASHIKUMAR LOHAKARE PLOT 141, BHAI SAHEB SURVE NAGAR RING ROAD NAGPUR-440022	ACA10/02/2003	181	109810	Ms VAISHALI VINAYAK MAHAJAN 16/2, SANT KRUPA MHATRE NAGAR OFF RAJAJI PATH DOMBIVLI (EAST) THANE-421201	ACA 07/03/2003
171	109175	Mr RAMAN AYYASWAMY IYER 3, SHREE APARTMENT NR BANK OF MAHARASHTRA THAKURLI EAST DOMBIVALI-421201	ACA05/06/2002	182	109940	Mr MAUNIK MANHARBHAI RAVAL A-68 SHRINATHADHAM DUPLEX B/H DINESH MILLS VADODARA-390007	ACA20/01/2003
172	109201	Ms KINJAL MANOJ SHAH 121 VIDYA APTS, CHOWPATTY BANDSTAND MUMBAI-400006	ACA31/03/2002	183	109977	Mr MANTHIRAM E ROOM NO.17 MANGATRAM COLONY OPP.GKW STAFF QUARTERS L B S MARG BHANDUP WEST MUMBAI-400078	ACA 01/04/2002
173	109239	Mr HEMANT SINGHM 39, CHANDRA MAHAL, THAKUR DWAR SIGNAL CHARNI ROAD MUMBAI-400002	ACA30/06/2002	184	110079	Mr ALI ASGAR MOHD RAZA SHROFF C/O AL-HASSAN COMPANIES GROUP, P O BOX 1948 RUWI MUSCAT-112 OMAN	ACA 31/03/2002
174	109320	Mr UDAYA SHETTY K ROOM NO.4, BHOIR COLONY, SANGAM HOUSING SOCIETY, CHINCHWAD, PUNE-411033	ACA 21/05/2002	185	110148	Mr SUPRIYO SUSILKUMAR GHOSH B/19 TRIMURTI BUILDING, 3RD QUARTER ROAD OPP POST OFFICE BORIVALI (EAST) MUMBAI-400006	ACA 20/08/2002
175	109426	Mr HARESHKUMAR JAYANTILAL SHAH C/503 GULMOHAR, POONAM COMPLEX 90 FEET ROAD THAKUR COMPLEX KANDIVALI EAST MUMBAI-400101	ACA16/08/2002	186	110196	Mr. RAHUL TAMB 102 GOPIVALLABH AVENUE TIMES OF INDIA ROAD SATELLITE VAIZALPUR AHMEDABAD-380015	ACA 10/03/02
176	109503	Mr ASHWIN SOMA SUVARNA 15/12, KALIKA NIVAS, 2ND FLOOR J.B. NAGAR ANDHERI (E) MUMBAI-400059	ACA 01/11/2002	187	110297	Mr MAULIK KALUBHAI TEJANI 301 GURUKRUPA FLATS B/H, CENTRAL BANK OF INDIA BHUDERPURA BRANCH MANEK BAG AHMEDABAD-380015	ACA29/05/2002
177	109523	Mr KASHIF YAHYA HUSEIN SULE MAN BLDG 1ST FLOOR BADR BAUG GRANT ROAD MUMBAI-400007	ACA 28/06/2002	188	110362	Mr ANIRUDDHA BHALCHANDRA KULKARNI FLAT NO 50, BUILDING NO 4 RUNWAL PARK MARKET YARD PUNE-411037	ACA 26/04/2002
178	109606	Mr BHARATKUMAR MANSUKHLAL ZINZUVADIA 237, SECTOR 1 NIRNAY NAGAR AHMEDABAD-382481	ACA 20/09/2002				



189	110601	Mr. ARUNAVA CHAKRABARTI 60A/1 NARENDRA NAGAR P O BELGHARIA KOLKATA-700056	ACA 14/05/2002	200	111700	Mr. NITIN MANOHAR JUMANI B-1, 15/16, KUBERA GARDEN, N.I.B.M ROAD, KONDHWA (KHURD), PUNE-411048	ACA 31/10/2002
190	110942	Mr. MAHADEO GANESH CHITALE NR.KISHNESHWAR MANDIR JOSHI AALI, PAG CHIPLUN, DISTRICT RATNAGIRI CHIPLUN-415605	ACA 31/05/2002	201	111865	Mr. THOMAS JOSE PALLITHANAM 105 B CHOICE ARCADE OPP RUBY HALL HOSPITAL DHOLE PATIL ROAD PUNE-411001	ACA 07/02/2003
191	110989	Mr. ABBASI NOMANBHAI RANGWALA D/8 8TH FLOOR FIRDAUS FLATS KHANPUR AHMEDABAD-380 001	ACA 06/02/2003	202	112028	Mr. NARENDRA KUMAR JANGIR C/O., D.R. MEHTA, H-2, EVEREST BLDG., 9TH FLOOR, TARDEO ROAD, MUMBAI-400034	ACA 26/08/2002
192	111138	Mr. VIKRAM MAGO NORTHEND 7, M L DAHANKUKAR MARG MUMBAI-400026	ACA 09/08/2002	203	112029	Mrs. TORAL MITESH GANDHI 6/34 VARMA NAGAR OLD NAGARDAS ROAD ANDHERI EAST MUMBAI-400069	ACA 20/01/2003
193	111142	Mr. ARPIT BHAGVATIPRASAD PATEL 275 PREMCHAND NAGAR JUDGES BUNGLOW ROAD BODAKDEV AHMEDABAD-380015	ACA 31/03/2002	204	112045	Mr. JOHN GEORGE 302 HIND RAJASTHAN SHOPPING CENTRE NEAR SION HOSPITAL SION MUMBAI-400022	ACA 06/09/2002
194	111333	Mr. SIDDHARTHA RAMANKUMAR GROVER FLAT NO 1 PREMPALACE PLOT NO 129130 VASTU UDYOG PIMPRI PUNE-411018	ACA 15/02/2003	205	112240	Mr. KULDEEP VILAS JADHAV DOSS BLDG C BLOCK R NO. 52-53/3 DONGRI DR MEISHRI ROAD DONGRI MUMBAI-400009	ACA 10/12/2002
195	111339	Mr. VIVEK ANAND HEBBAR EXPORT IMPORT OF INDIA RAMANASHREE ARCADE, 4TH FLOOR 18 M G ROAD BANGALORE-560001	ACA 24/06/2002	206	112521	Mr. PRASHANT KANU PANGAM 39/2857 M H B COLONY ABHYUDAYA NAGAR COTTON GREEN (WEST) MUMBAI-400033	ACA 31/12/2002
196	111444	Ms. MRINAL MANOHAR JOSHI 24 SHREE SWAMI SAMARTHA MUKUND COOP 113G SOC N-2 D17 CIDCO AURANGABAD-431210	ACA 25/02/2003	207	112576	Mr. CHEERANJEEV AJMERA B 234 SANJAY COLONY BHILWARA-311001	ACA 27/02/2003
197	111471	Mr. HEMANT ASHOK PANCHAKSHARI 12 VARSHANJALI APTS GANGAPUR ROAD PUMPING STOP NASHIK-422013	ACA 29/01/2003	208	112639	Mr. ASHISH ARJUNKUMAR RATHI 1-5 SHIVANI APTS NR AZAD SOCIETY AMBAWADI AHMEDABAD-380015	ACA 30/09/2002
198	111607	Mr. VAIBHAV VISHNUDAS TOTLA R-2/7 SUNDER NAGAR S.V. ROAD MALAD (W) MUMBAI-400064	ACA 11/08/2002	209	113066	Mr. RAM MADHUKAR BHAGAT C/O SHRI SANJAU M JOSHI B-4-8 HILL VIEW HOUSES SIDDHIVINAYAK NAGARI BEHIND APPUGHAR NIGDI PUNE-411044	ACA 08/02/2003
199	111687	Mr. PATHIK CHANDRAKANT SHAH 404 MAHAVEER APARTMENTS NR RACHNA HOSPITAL J N V HIGH SCHOOL ROAD SURENDRANAGAR-363001	ACA 16/09/2002	210	113223	Ms. DIPTI JAYANT IBHAI G/NDHI T/30 SHANTINAGAR SOCIETY USMANPURA AHMEDABAD-380013	ACA 24/12/2002

- |      |        |   |                |
|------|--------|---|----------------|
| 211, | 115341 | Mr. ANAND<br>SHARAD LAXMESHVAR<br>B-1/101 JUMBO DARSHAN<br>KOLDONGRI ROAD NO. 2<br>ANDHERI [E]<br>MUMBAI-400069                   | ACA 03/03/2003 |
| 212  | 113368 | Ms. ARTI SUBHASH<br>PARTANI<br>118, NANA PETH,<br>NEAR ASHOK CHAWL,<br>PUNE-411002  | ACA 03/12/2002 |
| 213  | 200369 | Mr. VISWANATHAN V<br>FLAT NO A-3<br>ANUSHA CO-OPERATIVE HSG SCTY<br>DEVI CHOWK SHASTRI NAGAR<br>DOMBIVILI (W)<br>DOMBIVALI-421202 | ACA 24/03/2003 |
| 214  | 202812 | Ms. B SUMATHI<br>C/O N B PANT<br>B4/19 SIDDESHWAR NAGAR<br>TINGRE NAGAR ROAD<br>VISHRANT WADI<br>PUNE-411015                      | ACA 19/09/2002 |

  
(Dr. ASHOK HALDIA)  
Secretary

**POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL  
EDUCATION AND RESEARCH, CHANDIGARH**

Chandigarh, the 6th June 2003

G.S.R. No. 8(1)/E3/PGI/2003/1877.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 32 of the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966 (51 of 1966), the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Regulations, 1967, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Amendment) Regulations, 2003.
- (2) They shall come into force from the date for their publication in the official Gazette.
2. In the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Regulations, 1967, in Schedule I, for Serial Number 4 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

S. No.	Nature of the power.	Extent of powers					Remarks
		Director	President	Governing Body	Institute Body		
1	2	3	4	5	6	7	
4.	Maintenance of Building and petty works.						
(a)	Original works and special repair.	Upto Rs. 50.00 lacs in each case without any annual ceiling.	Upto Rs. 1.00 Crore in each case.	Full powers	—	—	
(b)	Ordinary repairs	Full powers	—	—	—	—	
(c)	Ordinary repairs	Full powers	—	—	—	—	

By the authority of the Institute

S.K. SHARMA  
Director

Cantonment Board

Cannanore-670017, the 18th February 2003

**BYE-LAWS**

SRO No. 9 III/Building/Appln. Fee/2003.—Whereas the Cantonment Board has proposed to make bye-laws to levy of the application fee and permit fee in connection with building plan approvals in Cannanore Cantonment in exercise of the powers conferred by Clause (3) of Section 282 of Cantonments Act 1924 (2 of 1924).

And whereas a Public Notice No. III/Building/Appln. Fee/2000 as required under Sub Section (1) of Section (284) inviting objections and suggestions on the Board's proposal to impose the application fee and permit fee on building plan approvals from all persons likely to be affected thereby was published on 14th January 2003.

And whereas no objections or suggestions were received from any person before the date so specified in the said public notice.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (3) of Section 282 of Cantonment Act 1924 (2 of 1924) the Cannanore Cantonment Board with the previous sanction and confirmation of the Central Government hereby makes the following bye-laws regulating the imposition of Application fee and permit fee for building plan approvals in the Cantonment of Cannanore at the rates specified in the bye-laws, namely:—

1. Short-title and commencement.—(1) These bye-laws may be called the Cannanore Cantonment (Regulation of collection and levy of application fee and permit fee in connection with building plan approvals) bye-laws 2002.
2. Definition.—In these bye-laws unless the context otherwise requires:

(a) "Board" means the Cantonment Board, Cannanore.

(b) "Executive Officer" means the Cantonment Executive Officer, Cannanore.

(c) "Act" means Cantonment Act 1924.

(d) "Building plan" means the plan prepared as per Notice to erect or re-erect building under section 179(1) of the Cantonment Act, 1924.

**3. Quantum of Fees.**

**I. Rates of application fee charged in Cantonment Area:**

Sl. No.	Item	Fees
1	2	3
1.	Hut of area upto 50 Sq.m.	Nil
	Hut of area above 50 Sq.m.	Rs. 5/-
2.	Compound wall or fence including gate or grill	Rs. 15/-
3.	Assessory building	Rs. 15/-
4.	Conversion or installation of shutter	Rs. 15/-
5.	Well	Rs. 30/-
6.	Building upto 50 Sq.m.	Rs. 15/-
7.	Building above 50 Sq.m. and upto and inclusive of 100 Sq.m.	Rs. 30/-
8.	Building above 100 Sq.m. upto and inclusive of 150 Sq.m.	Rs. 75/-

1	2	3
9.	Building above 150 Sq.m. and upto and inclusive of 200 Sq.m.	Rs. 100/-
10.	Building above 200 Sq.m. and upto and inclusive of 300 Sq.m.	Rs. 175/-
11.	Building above 300 Sq.m. and upto and inclusive of 500 Sq.m.	Rs. 300/-
12.	Building above 500 Sq.m. and upto and inclusive of 1000 Sq.m.	Rs. 300/- plus Rs. 30/- per 50 Sq.m. exceeding 500 Sq.m.
13.	Building above 1000 Sq.m. and upto and inclusive of 5000 Sq.m.	as in Sl. No. 12 plus Rs. 75/- per 50 Sq.m. exceeding 1000 Sq.m.
14.	Building above 5000 Sq.m.	as in Sl. No. 13 plus Rs. 150/- per 50 Sq.m. exceeding 5000 Sq.m.

## II. Permit fee:

This fee is being levied in connection with granting permits for buildings in Cantonment area.

Sl. No.	Item	Fees
1	2	3
1.	Thatched or Tiled building	Rs. 0.50 paise per Sq.m.
2.	Single storyed concrete building upto 100 Sq.m.	Rs. 1.00 per Sq.m.
3.	Building of area exceeding 100 Sq.m. but not exceeding 150 Sq.m. of any number floors:	
(i),	Cellar or basement floor and ground floor	Rs. 1.50 per Sq.m.
(ii)	First floor	Rs. 2.00 per Sq.m.

1	2	3
(iii)	Second floor and above	Rs. 3.00 per Sq.m.
4.	Building of area exceeding 150 Sq.m. of any number of floors.	
(i)	Cellar or basement floor and ground floor	Rs. 6.00 per Sq.m.
(ii)	First floor	Rs. 8.00 per Sq.m.
(iii)	Second floor	Rs. 12.00 per Sq.m.
(iv)	Third floor and upto and inclusive of sixth floor	Rs. 40.00 per Sq.m.
(v)	Above six floor	Rs. 75.00 per Sq.m.
5.	Hut	Rs. 8.00 per Sq.m.
6.	Scheme building	Rs. 4.00 per Sq.m.
7.	Assessory building	Rs. 15.00 per Sq.m.
8.	Well	Rs. 75.00 per Unit
9.	Bathroom, latrine	Rs. 80.00 per Unit
10.	Conversion or installation of shutter	Rs. 150.00 per Unit
11.	Compound wall or fence including gate and grill	Re. 1/- per meter length
12.	Conversion of roof	Rs. 30.00 per Sq.m.

Authority :—Govt. of India, Min. of Defence, DG, DE letter No. 12/2/C/DE/2001 New Delhi dated 11th December 2002.

A.R. QURESHI  
Cantonment Executive Officer  
Cannanore